

July 18, 2020

To
The Secretary
Listing Department
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001
Scrip Code: 540203

The Manager,
The National Stock Exchange India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra(E), Mumbai-400051
Symbol: SFL

Sub: Publication of Notice of 48th Annual General Meeting to be held over video conference

Dear Sir/Mam

Please find attached newspaper advertisements of Notice of Forty Eighth Annual General Meeting (AGM).

The newspaper publications are also made available on our website at the following link:<http://www.sheelafoam.com>

For Sheela foam Limited



(Md Iquebal Ahmad)
Company Secretary and Compliance Officer

SHEELA FOAM LTD.

37/2, Site-IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad, U.P. – 201010, India
Ph: Int-91-(0)-120-4162200 • Fax: Int-91-(0)-120-4162282, 4162283 • Email: contactus@sheelafoam.com
Regd. Office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092, India • Ph: Int-91-(0)-11-22026875-76
Toll Free: 1800 103 6664 • www.sleepwellproducts.com • www.sheelafoam.com
CIN-L74899DL1971PLC005679

SHEELA FOAM LIMITED

(CIN: L74899DL1971PLC005679)

Registered Office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092

Email: iquebal.ahmad@sheelafoam.com Phone: +91 11 2202 6875,

Facsimile: +91 11 2202 6876 Website: www.sheelafoam.com

Notice of the 48th Annual General Meeting to be held through Video Conference(VC)/Other Audio Visual Means(OAVM)

Notice is hereby given that the 48th Annual general Meeting(AGM) of the Members of Sheela Foam Limited is scheduled to be held on Friday, 14th August 2020 at 10.30 AM through Video Conference(VC)/ Other Audio Visual Means(OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020,17/2020, 20/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the notice of the meeting.

In Compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories participant(s). Shareholder holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholder holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar i.e Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058; Telephone 011-41410592,93, 011-49411000; Fax: 011-41410591; Email:delhi@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.sheelafoam.com; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Shareholder will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholder who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the company. Shareholders are requested to visit www.sheelafoam.com.

For **Sheela Foam Limited**

Sd/-

Date: 17th July, 2020

Md Iquebal Ahmad

Place: Noida

Company Secretary and Compliance Officer

शीला फोम लिमिटेड

सीआईएन: U74899DL1971PLC005679

पंजीकृत कार्यालय : सी- 55, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

ई-मेल: iquebal.ahmad@sheelafoam.com फोन: +91 11 2202 6875

फैक्स : +91 11 2202 6876 वेबसाइट: www.sheelafoam.com

वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 48वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य परिपत्र सं. 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 एवं अन्य लागू नियमों और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए शीला फोम लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 14 अगस्त, 2020 को प्रातः 10.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जा रही है जिनके पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। डिमेटिरियलाइज प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत कराएं। फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपने ई-मेल पते एवं मोबाइल नम्बर कम्पनी के रजिस्ट्रार अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोवल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेलीफोन: 011-41410592,93, 011-49411000; फैक्स: 011-41410591; ई-मेल: delhi@linkintime.co.in; वेबसाइट: www.linkintime.co.in के पास पंजीकृत कराएं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sheelafoam.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर रिमोट के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और शेयरधारक जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, के लिए शेयरधारकों के लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत ब्यौरा कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट www.sheelafoam.com देखें।

कृते शीला फोम लिमिटेड

हस्ता/-

दिनांक: 17 जुलाई, 2020

स्थान : नोएडा

(मो. इकबाल अहमद)

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

RAJARSHI GHOSH
Make basic income support part cash, part tied-spending voucher

EDITORIAL
Covid vaccine talk needs cautious optimism, many uncertainties still need to be resolved

INSURANCE MEASURE
India in talks to store crude in US strategic petroleum reserves

IT'S A DEAL
Apple to gain a new Chinese iPhone maker during a trade war

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 2020 FOLLOW US ON TWITTER & FACEBOOK. APP AVAILABLE ON APP STORE & PLAYSTORE WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

VOL. XLVI NO. 119, 18 PAGES, ₹10.00 (PATNA ₹9.00, RAIPUR ₹10.00) PUBLISHED FROM: AHMEDABAD, BENGALURU, CHANDIGARH, CHENNAI, HYDERABAD, KOCHI, KOLKATA, LUCKNOW, MUMBAI, NEW DELHI, PUNE

SENSEX: 37,020.14 ▲ 548.46 NIFTY: 10,901.70 ▲ 161.75 NIKKEI 225: 22,696.42 ▼ 73.94 HANG SENG: 25,089.17 ▲ 118.48 ₹/\$: 75.02 ▲ 0.17 ₹/€: 85.51 ▲ 0.26 BRENT: \$43.04 ▼ \$0.33 GOLD: ₹48,844 ▼ ₹233

IN THE NEWS

Forex reserves hit record high
 INDIA'S FOREX RESERVES rose by \$3.1 billion as on July 10 compared to the week before to hit a record high of \$516.36 billion, according to the latest data put out by the RBI, reports **fe Bureau** in Mumbai. Foreign currency assets, a key component of reserves, rose by \$2.372 billion to \$475.635 billion.

Fraudulent IGST claims of ₹1,875 cr
 AS MANY AS 1,377 exporters have fraudulently claimed IGST refund amounting to ₹1,875 crore, sources in the indirect tax department said, reports **fe Bureau** in New Delhi. They added that there are at least 10 'star exporters' among these who have illegally availed of ₹28.9 crore in refunds. "These exporters have been found untraceable at their principle place of business," a tax official said.

Yes Bank FPO subscribed 95%
 YES BANK HAS managed to raise ₹14,267 crore through its follow-on public offer, implying 95% subscription of the issue size of ₹15,000 crore, reports **fe Bureau** in Mumbai. The issue has achieved its minimum required subscription of 90% of its total size to sail through, the lender said.

LENDERS WORRIED

Bounce rates on auto-debits shoot up to 45% in June

SHRITAMA BOSE
 Mumbai, July 17

THE BOUNCE RATE on auto-debit transactions on the National Automated Clearing House (NACH) platform shot up to 45% in June against the six-month range of 31-38%. The value of the transactions that 'bounced' was ₹26,850 crore or 38% of the total mandates, data released by the National Payments Corporation of India (NPCI) shows. Most of these transactions are EMI payments, insurance premium debits or SIP mandates. Industry players attribute the jump in the bounce rate to borrowers' reduced ability to

2020	Presentation		Returns		Bounce rate (In %)
	Volume (m)	Value (₹ cr)	Volume (m)	Value (₹ cr)	
Jan	77.73	73,316	24.13	18,212	31.0
Feb	78.93	73,277	24.83	18,264	31.5
Mar	79.13	75,952	26.75	20,929	33.8
Apr	66.71	55,805	25.34	20,454	38.0
May	64.00	50,767	23.29	15,367	36.4
Jun	78.89	70,492	35.79	26,850	45.4

Data for recurring debit transactions on NACH Source: NPCI

IN THE RED

Andhra solar units face ₹5k-cr under-recovery


HIGHER OPEN ACCESS charges to double solar/wind power cost to large consumers

ANUPAM CHATTERJEE
 New Delhi, July 17

SOLAR AND WIND power plants in Andhra Pradesh, with aggregate capacity of 8,000 mega watt (MW), have claimed that their under-recovery owing to inadequate tariff payments by the state discoms have reached a staggering ₹5,000 crore.

What has caused the crisis is the state government's decision to retrospectively amend the power purchase pacts, citing malpractices.

As per Andhra Pradesh High Court's September 2019 order, the state-owned power distribution companies (discoms) are paying these plants at a provisional rate of ₹2.43/unit, against the ₹4.84/unit tariff approved by the state power regulator earlier under the previous state government, leading to the financial stress of the renewable power producers. To add to their woes, the state government is amending its solar



and wind power policies, effectively withdrawing the incentives which were offered to these plants earlier to promote renewable energy in the state.

Suspending older provisions, the state government has asked the electricity regulator to levy transmission and distribution charges for wheeling power for wind and solar plants which sells electricity directly to industrial consumers through the open access mechanism. This can raise power costs by as much as ₹5/unit (₹3/unit cross subsidy charges and

REDX PLAN

TDSAT sets aside Trai order on Vodafone Idea

Regulator free to conduct inquiry but can't block tariff plan

FE BUREAU
 New Delhi, July 17

IN WHAT CAN be seen as an embarrassment for the Telecom Regulatory Authority of India (Trai), the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) on Friday stayed the former's directive to Vodafone Idea to withhold its RedX plan, which promises 4G network on a priority basis to its certain premium customers.

Although it is an interim stay order granted on the principle of natural justice and Trai has been allowed to conduct its inquiry into the plan and pass its final order, it is nevertheless a partial victory for Vodafone Idea as it can carry on with the plan and on-board subscribers till then. For Trai, it is a setback since the tribunal has directed it to first give Vodafone Idea an opportunity to explain its position on the plan, and observed that the regulator had failed to establish why the tariff plan needed to be suspended to conduct an inquiry.



Why TDSAT stayed Trai's directive

Trai could not establish why suspension of plan was required to conduct the examination of tariff

Trai could not establish that Vodafone Idea had violated any of the existing tariff directives

Since Vodafone Idea has changed the plan from higher speed to priority 4G network, the issue of speed is not there anymore

Earlier this week, Vodafone Idea had moved the TDSAT challenging Trai's directive asking the company to withhold the plan till the matter is examined.

Continued on Page 2

CHANGE OF GUARD

Shiv Nadar steps down, Roshni new HCL chief

PRESS TRUST OF INDIA
 New Delhi, July 17

THE COUNTRY'S RICHEST woman Roshni Nadar Malhotra on Friday became the first woman to head a listed Indian IT company as she took over as the chairperson of \$8.9-billion HCL Technologies from her father and billionaire Shiv Nadar.

Roshni, also a trained classical musician, came on the board of HCL Technologies in 2013 and was the vice chairperson. She will continue as CEO of HCL Corporation, the holding company for all the group entities.

Shiv Nadar, however, would continue to be the managing



director of the company with designation as a chief Strategy officer, the company said in a statement.

HCL Technologies CEO C Vijayakumar said this was part of the company's succession planning exercise.

Continued on Page 2

RESOLUTION ROAD

Altico Cap files for ownership change


ANKUR MISHRA
 Mumbai, July 17

ALTICO CAPITAL ON Friday filed an application with the Reserve Bank of India (RBI) to transfer the ownership to Hong Kong-based SSG Capital from existing investors — Clearwater Capital Partners, Varde Partners and Abu Dhabi Investment Council (ADIC).

Lenders to Altico Capital had earlier voted in the favour of a resolution plan submitted by special situations fund SSG Capital, which offered ₹2,754 crore for the NBFC, against the total debt of ₹4,300 crore. Additionally, ₹354 crore has been promised in the form of security receipts, as per the resolution plan. The change in ownership will pave the way for the first NBFC resolution under June 7, 2019, circular of RBI.

Although the deal was closed in March, employees of Altico Capital had subsequently raised issues about SSG Capital's proposed takeover of the company to the regulator. **FE** has learned that employees of the company had raised concerns to RBI about winding up of Altico Capital by the new owner. According to sources, all the concerns of the employees have been addressed.

Continued on Page 2



ALL GUNS BLAZING

Defence minister Rajnath Singh poses for a photo with troops who took part in para dropping and other military exercises, in Leh, Ladakh, on Friday

COVID VACCINE

Cadila aims to complete trial by March

SUMIT KHANNA
 Ahmedabad, July 17

ZYDUS CADILA PLANS to complete late-stage trials for its novel coronavirus vaccine candidate by February or March and could produce up to 100 million doses a year initially if it is successful, the company chairman said on Friday.

Cadila's vaccine candidate, known as ZyCoV-D, is one of dozens being developed around the world to fight the coronavirus pandemic.

"We are looking at about seven or a little more than seven months for the vaccine, provided the data is encouraging and the vaccine is proven to be effective during the trials," chairman Pankaj Patel told Reuters in an interview.

Continued on Page 2

RURAL JOB SCHEME


Cash-strapped states cut materials spend to boost relief to poor

SURYA SARATHI RAY
 New Delhi, July 17

AS THE CENTRE fast-tracked release of funds under the rural jobs scheme to provide timely income support to the people in villages, including migrant workers who have returned from cities in large numbers, many cash-strapped states have used the funds to employ the beneficiaries in works involving lesser use of materials, according to data gathered by **FE**.

In normal times, of every ₹10 spent under MG-NREGS, ₹6-7 goes to the workers as wages and the balance ₹3-4 is used for purchase of building materials. However, the wage-materials ratio has turned out to be skewed much more towards the wages side in the current fiscal; in a number of states, the ratio has become 8:2 or higher and some states like Assam and Haryana have used 95% or more of the scheme's funds for payment of wages.

An obvious fallout of the states' strategy is that the MG-NREGS work carried out during the Covid period may not have created much durable assets, but according to observers, since the expediency demanded use of the funds for wage payments, the states cannot be faulted for adopting the line. The higher share of spending on wages also



shows the poor health of the state finances; under the rules, they have to bear a third of the expenditure on material and skilled labour, while the Centre bears the entire cost of wages for the unskilled labour.

Continued on Page 2

Special Feature

And the car world is finally going electric...

This week three of the world's most prominent carmakers unveiled their electric/electrified cars, including Volkswagen ID.3, Nissan Ariya electric, and Maserati Ghibli hybrid

Motobahn, P13

Quick Picks

Reply to USTR: India defends 'Google tax', rollback unlikely

INDIA HAS opposed a US probe into its digital services tax, firmly asserting that its equalisation levy, or the so-called 'Google tax', is "non-discriminatory", reports **fe Bureau** in New Delhi.

In its reply to the office of the US Trade Representative, New Delhi added that it has only prospective application and doesn't specifically target American companies. **PAGE 2**

I-T refunds of ₹71,229 crore issued to 21.24 lakh taxpayers

THE CENTRAL Board of Direct Taxes has issued refunds worth ₹71,229 crore in more than 21.24 lakh cases during April 8-July 11, reports **fe Bureau** in New Delhi. "Income-tax refunds amounting to ₹24,603 crore have been issued in 19.79 lakh cases to taxpayers and corporate tax refunds amounting to ₹46,626 crore in 1.45 lakh cases during Covid," the government said.

MONEY ORDER

NRI asked to pay tax on Swiss bank account she denies owning

SUMIT JHA
 New Delhi, July 17

NON-RESIDENT INDIAN CITIZENS are liable to pay tax in India only on India income, but they may still not be completely impervious to being asked to pay tax in the country on their global income, if they had, at some point, filed tax return in India as a resident. This is an intriguing prospect for a country with an exceptionally diverse diaspora, including a galaxy of billionaire corporate honchos.

The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) in Mumbai has recently affirmed an order issued by the relevant commissioner-appeal, asking an 81-year-old woman, claiming to be a US resident post-FY06, to pay tax in India on ₹196.5 crore purportedly held by her in the financial year 2005-06 in a now-disbanded Swiss bank account


2006 for the relevant assessment year as 'resident', reporting an income of ₹1.7 lakh, which was below the tax liability threshold.

The income tax department opened a reassessment proceeding in 2014 after it stumbled upon the Swiss bank account.

The taxpayer in her defence argued against the validity of the reassessment process and whether the assessee was indeed the beneficiary of the Swiss bank account in the name of a family trust.

The tribunal held that the assessee's conduct was akin to 'running with the hare and hunting with the hounds' as she had declined to sign a 'consent waiver' so as to enable the income tax department to obtain all the necessary details from the Swiss bank.

Continued on Page 2



(HSBC Private Bank (Suisse) SA, Geneva), which she refuses to own.

The individual — one Renu T Tharani — had filed income-tax return in India in

Economy

SATURDAY, JULY 18, 2020



SAARC-COVID FUND

Narendra Modi, Prime Minister

...In our joint fight against Covid, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a Saarc Covid emergency fund in our neighbourhood.

Quick View

Govt plans auction of 5-6 mineral blocks

THE GOVERNMENT plans to auction five to six mineral blocks, including iron ore and bauxite mines, in Madhya Pradesh over the next three months, according to an official. Of the 11 blocks that were put on sale by the state recently, there were takers for only five blocks and six mines received no interest from bidders.

BIS: 'Know your product' initiative to help MSMEs

AS AN INITIATIVE to support and promote Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), BIS commenced series of programmes under 'Know your product' to facilitate understanding of the Indian Standards being followed by the enterprises for operating the BIS certification (popularly known as the ISI-Mark Scheme).

PSBs sanction ₹19,668 cr loans to 71 MSME hubs

THE FINANCE ministry on Friday said public sector banks have sanctioned ₹19,668.87 crore to 71 MSME hubs across the country under the ₹3-lakh crore Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS). Disbursement in these clusters stood at ₹12,871.50 crore as of July 15 to entities belonging to MSME sector, hit hard by the Covid-19 crisis.

REPLY TO USTR

India defends 'Google tax', rollback unlikely

Says the purpose of levy is to ensure neutral and equitable taxation is applicable to e-commerce operators

FE BUREAU
New Delhi, July 17

INDIA HAS OPPOSED a US probe into its digital services tax, firmly asserting that its equalisation levy, or the so-called 'Google tax', is "non-discriminatory", has only prospective application and doesn't specifically target American companies. New Delhi's staunch defence of the levy suggests it's unlikely to roll it back any time soon.

In its reply to the the office of the US Trade Representative (USTR), which has launched the investigation into the digital services tax of India and nine others, including the EU and the UK, New Delhi says: "Far from targeting any US company or companies, the purpose of the equalisation levy is to ensure greater competitiveness, fairness, reasonableness and exercise the ability of governments to tax businesses that have a close nexus with the Indian market through their digital operations." The levy can't be said to have "extra-territorial" application, it says.

As reported by FE on June 3 on India's likely reply, New Delhi has also highlighted that the levy is well within its "commitments under the WTO and international taxation agreements". However, New Delhi "is willing to



engage in further discussions to clarify any questions or concerns that the government of the US may have", it says.

Announcing its decision to launch the investigation in June, the office of the USTR had said New Delhi slapped a 2% DST (digital services tax) from April 1. "The tax applies only to non-resident companies, and covers online sales of goods and services, or aimed at, persons in India. The tax applies only to companies with annual revenues in excess of approximately ₹20 million (approximately \$2,67,000)," it said.

Stressing that the levy does not discriminate against non-resident e-commerce operators, India says: "The underlying policy objective and application of India's equalisation levy, is to ensure that neutral and equitable taxation is applicable to e-commerce operators that are resident in India or have a physical presence in India and those that are not resident in India." "The purpose is to ensure a level-playing field with regard to e-commerce activities undertaken in India. This, in fact, is the very antithesis of the underlying apprehensions listed out in the USTR's S.301 DST Initiation."

New Delhi says it "notes with regret" the initiation of the probe, launched under the

Section 301 of the Trade Act of 1974. This law authorises authorities to initiate action, including punitive tariffs, in response to a foreign country's action that is deemed unfair or discriminatory and curbs American trade.

The latest impost was introduced in the Finance Act 2020 by widening the scope of the equalisation levy to include e-commerce players and intermediaries. It's a sort of digital tax on non-resident e-commerce operators at 2% on the revenue they generate in India from e-commerce supply or services. This levy has to be deposited by the e-commerce operator and not by the buyer of the goods or service.

Earlier, the equalisation levy (at 6%) was introduced in 2016 and slapped on the revenues generated on business-to-business digital advertisements and allied services of the resident service provider. The levy is designed to nullify the advantage of foreign e-commerce firms sans a physical presence in India over local competitors. The 2016 levy had impacted companies like Google and Facebook, among others.

While the precise scope of the 2% levy is still being debated, some analysts have said an Indian resident purchasing goods from the Amazon (US) or Alibaba or even a transaction between the Amazon US and Amazon India, too, could trigger this levy, as the latter would be treated as a resident.

New Delhi says the concept of the equalisation levy in India emerged as a result of the deliberations of the OECD Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) Project, which crystallized in the Report on Action 1 of BEPS Pro-

ject. This report was accepted by India and other members of the OECD, thereby representing a broad consensus view on the issues discussed in the report. It formed the basis of the detailed consultations by a Committee on Taxation of E-Commerce constituted by the Indian government, which had submitted its report in February 2016. This committee analysed in detail the BEPS report on Action 1, which had highlighted the need for modifying existing international taxation rules, and laid out three options for the consideration of countries, that is, (a) a new nexus based on significant economic presence, (b) a withholding tax on digital transactions, and (c) equalisation levy.

However, the BEPS report did not recommend any specific option, recognizing that more work may be required in the area of attribution of profits. Nevertheless, it noted that: "Countries could, however, introduce any of these three options in their domestic laws as additional safeguards against BEPS, provided they respect existing treaty obligations, or in their bilateral tax treaties."

The Indian government panel accordingly analysed each of the three options presented by the BEPS Report and recommended the application of the equalisation levy on specified digital services. In a statement in June, USTR Robert Lighthizer had said: "President (Donald) Trump is concerned that many of our trading partners are adopting tax schemes designed to unfairly target our companies."

Apart from India, the others that are being investigated are the EU, the UK, Austria, Brazil, the Czech Republic, Indonesia, Italy, Spain and Turkey.

'Equalisation levy targets non-Indian e-commerce companies'

RISHI RANJAN KALA
New Delhi, July 17

WASHINGTON-BASED INFORMATION Technology Industry Council (ITI), which represents tech firms like Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple and Soft Bank, has claimed that the digital services tax (DST) imposed by India targets only "non-Indian e-commerce companies".

In a detailed legal analysis on DSTs submitted to the United States Trade Representative (USTR), the global tech trade association said that the tax imposed by India has the widest ramifications compared to the nine other countries as it applies to sale of all goods or services by digital businesses to persons using an Indian IP address.

"Unlike other DSTs, India's new tax applies with respect to online sale of both goods and services and it solely targets non-Indian e-commerce companies," ITI's senior director (policy, trade & tax) Sam Rizzo said in the legal analysis to USTR Robert Lighthizer.

The issue relates to US initiating investigation against India and nine other countries for imposing or considering DSTs with potential to hurt American firms. India widened the scope of equalisation levy to include e-commerce players and intermediaries. It's a sort of digital tax on non-resident e-commerce operators at 2% on the revenue they generate in India from e-commerce supply or services.


This levy has to be deposited by the e-commerce operator and not by the buyer of the goods or service.

Current crop

FE BUREAU

Kharif sowing up 21% y-o-y

Progressive sowing under all the kharif crops has covered 65% of the season's normal area till Friday. While paddy acreage is higher in major growing states like Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Haryana, Telangana and Andhra Pradesh, it is down in Punjab while planting will pick up in West Bengal from June-end. The sowing gap against the year-ago level has reduced this week, from the level in previous week in the case of most of the crops.



Pandemic fury provides context for UN reform: Modi

PRESS TRUST OF INDIA
New York, July 17

ASSERTING THAT ONLY reformed multilateralism can meet the aspirations of humanity, Prime Minister

Narendra Modi on Friday said the United Nations was originally born from the furies of the Second World War and the fury of the Covid-19 pandemic provides the context for its "rebirth and reform."

Addressing the high-level segment of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) session via a video link, Modi said the 75th Anniversary of the founding of the UN is an opportunity to assess its role

and relevance in today's world.

Noting that a lot has changed since its formation, he said the UN now brings together 193 member countries and along with its membership, the expectations from

the organisation have also grown.

At the same time, multilateralism is facing many challenges, he said in the address — his first since India was overwhelmingly elected as a non-permanent

member of the powerful Security Council last month. "India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism... However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world."

From the Front Page

Auto-debit: Bounce rates on transactions shoot up to 45% in June

"EVEN THOUGH most borrowers are paying when cash flows come back or through alternative arrangements, as a lender you know that when bouncing starts, slipping always follows," Dhru said. The degree of correlation between bounces and slippages varies for different lenders. "But by now, most lenders would know what they are looking at, whether they disclose it or not," he added.

A top executive with a large public-sector bank said the bounce rates may have been higher because of miscalculations by customers while providing standing instructions to their lenders on auto debit. Yet he did not rule out the possibility of stretched household finances being a factor. "It may also be due to financial stress, which customers could not plan, such as salary delays or job cuts. Besides, there was a scheme of change in the second leg of moratorium by banks," he added, referring to the phenomenon of some lenders switching to the opt-in mode of offering the moratorium from the opt-out mode earlier.

Several banks and non-bank lenders have said that they have seen a decline in the share of customers availing of the moratorium in its second leg, starting June. There is a view that by June, some lenders may have failed to convey to their borrowers that their account is no more under moratorium. As a result, debit requests may have been made to borrowers who were not prepared with sufficient funds in their accounts. This ties in with the number of auto-debit requests made in June — nearly 79 million — which is close to the pre-Covid levels and higher than the 64-68 million range seen during April and May.

While the bounce rate ranges between 30-70%, fin-

techs, whose loans have a smaller ticket size, report bounces between 50% and 70%. In the mid-market and mass-affluent segments, which have a relatively higher ticket size, the incidence of bounces is lower — anywhere between 30-45%.

Abhishek Agarwal, co-founder & CEO, CreditVidya, said that the bounce rates are an indication of borrowers' reduced ability to pay and loan losses in the retail segment are set to rise massively from their pre-Covid levels. "With the second wave of lockdowns coming in, I am fairly confident that prior to Covid if we were estimating x% loss, now we could see two to three times that," he said.

This could pan out by the December quarter as till August 31, the asset quality pain will be masked by the moratorium, Agarwal said. Thereafter, accounts which remain in default through the three months to November will have to be classified as non-performing, unless there is a fresh dispensation from the Reserve Bank of India.

The increased incidence of bouncing itself has implications for recoverability. Till two years ago, bounce rates stood at around 18-19%. Since the beginning of 2020, they have come in higher than 31% every month. The current collection infrastructure that most lenders have is geared for an around 18% bounce rate. If over 40% of a lending institution's loan book were to continue seeing delays in payments, it would dent the efficiency of recovery agents and the collection infrastructure. "The more the value of bounces, the more the slippages. They don't increase in arithmetic proportion, but in a slightly geometrical proportion," Dhru said.

Covid vaccine: Cadila aims to complete trial by March

"WE ARE ALSO open to discussing partnerships with

Andhra solar units face ₹5k-cr under-recovery

ALTHOUGH THE AP High Court had struck down the state government order on renegotiating PPAs, it had asked the state electricity regulator APERC to decide on the matter and directed the discoms to pay reduced prices in the interim period.

Renewable energy producers believe that the state power regulator and the Amaravati High Court would ultimately mandate paying full tariff to the state's dis-



coms, and clearing such huge payment immediately will not be possible for the state causing further delay in clearing the outstanding

pharma companies in various geographies, but it is a bit premature right now, and we will be doing so at the end of Phase 1 and 2 trials," he said.

Early-stage Phase 1 and 2 human trials are likely to be concluded in the next three months, he said. —REUTERS.

Rural job scheme: States cut materials spend to boost relief to poor

IN LABOUR-SUPPLIER states such as Bihar, Chhattisgarh and Uttar Pradesh, wages have constituted 57.28%, 79.47% and 67.71%, respectively, of the total spending under the popular scheme so far this year. In Telangana, the percentage stood at 88% now. However, in Kerala, which is a labour-absorbing state, wages constitute just 58% of the total amount spent.

"It seems that most of the works created under MG-NREGS have been of non-asset creating variety. The scheme has been liberally used by the state governments as an alternative to direct benefit transfer (DBT) to provide a kind of social security to the rural

poor," said labour economist and XLR professor KR Shyam Sundar. "The higher the spend on MG-NREGS, the lesser will be reverse migration. It means urban employment is shrinking. It is also an indicator of the slackening of the urban labour market," he added.

Resolution road: Altico Cap files for ownership change

FE HAS also learned that RBI has advised a leading private bank to pay back ₹210 crore to the UAE-headquartered Mashreq Bank in the matter related to Altico Capital. Altico had complained to the RBI that the private bank had violated regulations by debiting funds intended for repayment to Mashreq Bank. The said private bank netted off the ₹210 crore held by Altico in the bank's fixed deposits against outstanding term loans which the real estate financing company owed to the lender. The private bank acted as a primary dealer for Altico Capital in an external commercial borrowing deal with Mashreq Bank, as per sources. The ₹210

crore received as part of that financing deal was held with private lender in the form of a fixed deposit.

Altico Capital was faced with a liquidity crunch in 2019. It defaulted on a ₹19-crore external commercial borrowing (ECB) repayment to Mashreq Bank in September 2019, which led to a few lenders recalling loans. Later, lenders formed a committee to execute a resolution plan under the RBI's June 7 circular by signing an inter-creditor agreement (ICA). Altico Capital owed over ₹4,300 crore to 27 lenders led by State Bank of India, Bank of Baroda, UTI MF and Reliance MF, among others.

TDSAT sets aside Trai order on Vodafone Idea

According to legal experts the interim stay granted to Vodafone Idea's plan will not apply to Bharti Airtel, which also came out with a similar plan which was stopped by Trai. Bharti Airtel, which did not move TDSAT against the regulator's directive, needs to do the same to get similar relief.

"There is no lack of power in the Authority to review and modify a tariff for any telecom-

munication service from time to time. The objection of the appellant is against keeping the review proceeding pending and still issuing a modification as an interim arrangement without even a prima facie satisfaction that the Authority has found a case of non-compliance of any of the directives issued earlier," TDSAT said.

The tribunal said, "The direction for suspension of the RedX plan which, understandably, would apply only to the existing revised plan, lacks even prima facie reasons. The only justification that suspension would facilitate detailed examination by Trai is found to be devoid of any merits. During submissions also it has not been shown that for detailed examination by Trai it is necessary to withhold/suspend the Vodafone RedX offer forthwith"

NRI asked to pay tax on Swiss bank account she denies owning

THE TRIBUNAL ALSO noted that the Swiss account was closed soon after the information of account holders reached the government of India. The assets of the account were transferred to a Cayman Island-based investment company in-charge of running the family. However, this company was also liquidated and struck off from the records, the tribunal observed. "If Cayman islands is known for anything relevant, it is known for an atmosphere conducive to hiding unaccounted wealth and money laundering," the ITAT observed.

While the trust stood terminated and nothing was known about it, the assessee claimed that she was only a beneficiary of the Trust but had no information how the company running the Trust came to acquire nearly \$4 crore. "It is also inconceivable that a ₹200-crore beneficiary in a trust will not know about

who has settled that trust. Similarly, while dealing with Cayman Island entities, living in denial about beneficial ownerships, and confining to legal ownerships, is preposterous," the tribunal order said.

Further, the tribunal said that the account information in HSBC clearly showed that the assessee was a beneficial owner. Moreover, it argued that no reasonable person can accept the explanation of the assessee as she is not a public personality like Mother Teresa that some unknown person will settle a trust to give her \$4 crore.

The HSBC account information was received by several governments, including India, the US, the UK, Canada and Australia, after a whistleblower, an employee of HSBC Private Bank (Suisse) SA, Geneva, walked out with information on thousands of accounts in 2006, involving wealth hidden from taxmen.

Ved Jain, counsel for Tharani, iterated that since the assessee is admittedly a non-resident and in as much as the impugned assessment was made accordingly, it was not all required of her to disclose her foreign bank accounts, even if any. Speaking to FE, he expressed confidence that the ITAT order will be overruled by the high court, the next forum of appeal. An NRI is not required to prove source of income arising outside of India to the Indian tax authorities, Jain noted.

"This decision reinforces an important principle that conduct of the taxpayer and cooperation with the authorities, seen with overall circumstances play an important role in appellate authorities/courts deciding any issue. In cases involving deposits in Swiss Bank account or Tax haven companies, where the general perception is already against the taxpayer of having any undeclared income, it is important to demonstrate from conduct of the taxpayers that necessary cooperation is made and

HCL's new chief is first woman to lead listed IT company in India



FORMER HCL Technologies CEO Vineet Nayar said: "I am sure HCL will fly high under Roshni who leads with purpose, passion and pride. Exciting times ahead!"

Roshni married Shikhar Malhotra, vice-chairman of HCL Healthcare, in 2010, and the couple has two sons — Armaan and Jahaan.

According to the latest Hurun Rich List, Roshni is India's richest woman with a net worth of ₹36,800 crore. In 2019, she ranked 54th on the Forbes World's 100 Most Powerful Women list.

all the facts are properly disclosed to the authorities," Shailesh Kumar, partner at Nangia & Co LLP, said.

He added that the tribunal has also clarified that this judgment has not laid down a principle that whenever name of a taxpayer appears in an incriminating material (such as HSBC leaks), it does not automatically mean that the taxpayer has unaccounted or illegal money. It is only the conduct of the taxpayer, facts and surrounding circumstances of each case, based on which a decision would need to be taken.

FY21 capex target will be met, says Railways

FE BUREAU
New Delhi, July 17

THE RAILWAYS IS confident of meeting the ₹1.6 lakh crore capital expenditure target for 2020-21, Railway Board chairman VK Yadav said on Friday. The transporter will expedite modernisation process through private train operations and envisage investments, including from the private sector, to the tune of ₹30.6 lakh crore over the next five years on pep up infrastructure.

The Railways managed to achieve 90% of the FY20 capex goal of ₹1.6 lakh crore. Notwithstanding the subdued economic activity and investor sentiments, Yadav is optimistic of "significantly improving on the last year's performance".

The Railways intends to spend on infrastructure development with a strong focus on implementation of super critical projects. Currently, the Railways face challenge of over-con-

'Railways generated 1.6 lakh mandays of work in 4 weeks'

THE RAILWAYS has spent more than ₹608 crore and generated over one lakh mandays of work in rural areas under the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan in just four weeks of its launch, a senior official of the national transporter said on Friday. Inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on June 20, the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan is in operation in 116 identified districts of six states — Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha and Jharkhand. "In the last four weeks, we have already generated 1,61,251 mandays and spent ₹608.87 crore. This is very encouraging and we will continue to support the work, Railway Board chairman VK Yadav told an online press briefing. — PTI

gested networks with 96% of traffic moving on around 51% route km of Railways network.

These are projects requiring urgent expansion based on traffic density, type of commodity moved, importance of route from strategic considerations, among others. Railways have identified 58 super critical projects for

completion by December 2021. Despite challenges posed by Covid outbreak, the Railways have completed 16 of these projects of 592 km length costing ₹6,258 crore up to March 2020 and are looking to complete 43 more projects of 1,587 km with a cost of ₹8,500 crore by the same timeline.

1,377 exporters fraudulently claimed IGST refund amounting to ₹1,875 cr

FE BUREAU
New Delhi, July 17

AS MANY AS 1,377 exporters have fraudulently claimed IGST refund amounting to ₹1,875 crore, sources in the indirect tax department said. They added that there are at least 10 'star exporters' among these who have illegally availed of ₹28.9 crore in refunds.

"These exporters have been found untraceable at their principle place of business," a tax official said. Star Export House exporters are certified by the government on the basis of export performance (₹15 crore to ₹5,000 crore FOB in the current and three preceding years). They are extended certain benefits including customs clearance on self-certification basis

There are at least 10 'star exporters' among these who have illegally availed of ₹28.9 crore in refunds

and exemption from furnishing bank guarantee under certain schemes. Sources said that 7,516 exporters have been put on the 'risky' exporter list as on date. Out of these, 2,830 exporters are being currently denied IGST refund and drawback facility worth ₹1,363 crore. Further, adverse reports have been received in respect of 2,197 risky exporters.

Exporters are identified as 'risky' on the basis of specific risk indicators based on Customs, GST, Income Tax and DGFT data. The identified risky exporters are shared with the CGST formations

for physical and financial verification in terms of the standard operating procedure (SOP) laid down by the GST policy wing.

Further, after receiving positive reports from field formations on 695 exporters, the Directorate General of Analysis and Risk Management (DGARM), in its supply chain analysis, found that their suppliers had availed ineligible credit. In 461 of these cases, IGST refund and drawback amounting to ₹273 crore is under suspension, sources said.

Earlier in the year, the government had found that in some instances an exporter with over ₹50 crore of exports of readymade garments has taken refund of ₹3.9 crore while the entity's total GST payment in cash was a mere ₹1,650.

Tomar asks farmers to register under PMFBY before last date

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 17

AGRICULTURE MINISTER
NARENDRA Singh Tomar on Friday asked farmers to come


forward to register under the crop insurance scheme PMFBY before the last date and get a protection against kharif 2020 crop loss due to unforeseen natural calamities.

Tomar said the enrolment of farmers under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) for the ongoing Kharif-2020 season is going on in full swing across

the country and urged more farmers to take benefit of the scheme.

The cut-off date for the ongoing Kharif 2020 season in few states and union terri-

ories may end by July 31, 2020. The Centre has made enrolment free for all the farmers who only need to pay a premium amount now, he added.



FINANCIAL RESULTS

₹ in Lakhs

Particulars	Three months ended / as at		Year ended
	June 30, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020
	Audited	Audited	Audited
Premium Income (Gross) ¹	339,421	356,066	1,359,237
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	53,104	47,527	169,689
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	53,104	47,527	169,689
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	39,810	30,981	119,376
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) ²	NA	NA	NA
Equity Share Capital	45,448	45,441	45,447
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	607,805	498,522	567,957
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each)			
Basic (not annualised) (in ₹)	8.76	6.82	26.27
Diluted (not annualised) (in ₹)	8.74	6.80	26.19

1. Premium income is gross written premium gross of reinsurance and net of applicable taxes.

2. The Indian Accounting Standards (IND AS) are currently not applicable to Insurance companies in India.

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly and year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and year to date Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and the Company (www.icicilombard.com)

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

Bhargav Dasgupta
Managing Director & CEO
DIN: 00047728

Place : Mumbai
Date : July 17, 2020

ICICI Lombard General Insurance Company Limited. ICICI trade logo displayed above belongs to ICICI Bank and is used by ICICI Lombard GIC Ltd. under license and Lombard logo belongs to ICICI Lombard GIC Ltd. assigned by Northbridge Financial Corporation solely for the territory of India. Registered Office: ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. IRDAI Reg. No.115. Toll Free No.1800 2666. Fax No. 02261961323. CIN L67200MH2000PLC129408. Website: www.icicilombard.com
Email: investors@icicilombard.com UIN 9996

Adfactors 130

Constantly innovating as the clock keeps ticking

Dear Shareholders,

It has been a watershed year that will go down in the annals of global history for the COVID 19 pandemic outbreak and its impact on the social, economic and political environment of the world.

Despite the turbulent banking environment and various challenges, your Bank was able to successfully sail through the Financial Year 2019-20 with a satisfactory performance, demonstrating its resilience.

Global Economy

According to the IMF, the global economy has hit the worst recession since the Great Depression in the 1930s due to the raging pandemic that has nearly stalled all economic activities across the world. Global Economic growth which decelerated to 2.9% in 2019 is projected to contract sharply by -3% in 2020.

Indian Economy

The Indian Economy exhibited signs of a slowdown during the early part of the year with GDP growth declining to 4.8 percent in H1 of 2019-20 bogged down with muted demand in core sectors. Signs of a revival were evident from November to January 2020, on the back of supportive policy intervention by the Government, which however could not be sustained due to the pandemic outbreak and the resultant lockdown which brought all economic activities to a halt. The IMF has pegged India's GDP growth for 2020 at 1.9%.

Banking Industry

Supportive monetary and regulatory policy measures by the Government to accelerate growth helped restore the health of the banking industry with a rise in profitability and a decline in NPAs from its peak of over 10 per cent of the advances. The amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), during the year, with timelines for early resolution, promised relief to Banks while ushering in accountability and discipline. However the telecom AGR liability and the debacle of a new generation private bank hit hard, both in terms of sentiment and loss in market valuations. The COVID-19 pandemic which followed, further exacerbated the stressed environment.

Our Bank's Performance

The overall performance of your Bank is a testimony to its strength and resilience, considering the market environment and industry growth metrics. Bank has recorded a growth of 14.27% in Operating Profit at ₹1,656.77 crore as on March 31, 2020 compared to ₹1,449.81 crore for the corresponding period of the previous year. The Provision Coverage Ratio (PCR) also improved to 64.70% in FY 2019-20 from 58.45% in 2018-19, while the Capital Adequacy Ratio is at a comfortable level of 12.66% as against the regulatory requirement of a minimum of 10.875%. The Book Value per share is at ₹192.06 (after considering the bonus shares issued during the FY 2019-20). Digital banking transactions are gaining momentum and have now risen to 83% as on March 31, 2020 as compared to 77% a year ago.

Banking on Technology

Digital disruption is bringing a tectonic shift to the banking landscape and transforming customer behaviour radically. India with a young and techno-savvy demographic profile is projected to be the future market for digital banking.

KBL was among the first few banks to adopt the technology of Core Banking Solution nearly two decades ago. The implementation of Core Banking Solution (CBS) for banking operations and the ADC journey thereafter, ushered in a technology driven, paradigm shift in the banking sector.

An agility to adapt to a changing environment and embrace new technologies has always been KBL's main forte. In line with this, the Bank has embarked on a major transformation journey, with a focus on New Age digital technologies, to continue to be a relevant and

significant player in the banking industry and emerge as a 'Bank of the future'. KBL-VIKAAS - the transformation project of the Bank, in alliance with Boston Consulting Group (BCG) as the transformation consultant has created a dynamic ecosystem of digital transformation and an agile work culture, with a future driven 8,500+ team as change agents.

KBL-VIKAAS-A Transformation Journey of the Century

'KBL-VIKAAS' has gained momentum and in 2 years of its journey, has proven its worth with a track record of various futuristic initiatives, enabling the Bank to scale up its technological capabilities and optimise efficiencies with a seamless integration of day-to-day operations, be it business sourcing, performance management or back-end management and thus eventually resulting in enhanced operational efficiency.

To further accelerate the transformation, a Digital Centre of Excellence (DCoE) has been established in Bengaluru for developing innovative end-to-end digital solutions for deepening customer engagement and enhancing experiential customer touchpoints and delivery channels.

The 'Digital Sanction of Loans' is projected as the next game changer in the Indian Banking Sector. At DCoE, we have rolled out several digital



Excerpts of the speech delivered by
Shri Mahabaleshwara M S
Managing Director & CEO, Karnataka Bank Limited
96th Annual General Meeting of the shareholders
held at Head Office, Mangaluru on July 17, 2020

products during the year, like KBL Xpress Home Loan, KBL Xpress Cash Loan, KBL Xpress Car Loan, where in-principle digital sanction is given within 20 minutes. KBL Business Quick Loan for MSMEs based on GST returns, was also introduced to mine the potential in this segment.

Promoting the ease of 'banking on the go', 'KBL Xpress SB account' - a Tab Banking platform for opening of new Savings Accounts and 'SB-Salary' catering to the salaried segment were added to the Bank's digital range of products.

The 'Digi Branch' at Bengaluru was transformed to an experiential touchpoint where customers could open a Savings Bank Account online and self generate their debit cards within a few minutes.

KBL Vikaas has optimised operational efficiencies with a seamless integration of various verticals and work-flows be it HR, Marketing, IT, Finance, etc. The KBL Xpress e-Dashboard enables mobile monitoring of the various business performance dashboards, providing business agility and enabling speed and accuracy in data driven decision making.

Merging the physical with the virtual / digital, the 'phygital' is supposed to lend a superior customer experience. We have introduced

a new credit marketing business vertical at KBL, to drive digital marketing related transformation and build capabilities in B2C sales.

'KBL Force' a comprehensive Lead Management System has helped to drive an aggressive sales culture and to contribute to the growth of the business.

NPA's have become the bane of banking institutions and in recent times are considered as a main metric for gauging a bank's financial health. 'KBL VASOOL SO-F' a NPA Management tool, launched during the year served as an effective measure to improve efficiency and effectiveness in loan recovery. In addition, Regional Collection Hubs were also established for efficient collection and follow-up of loans, resulting in substantial reduction in stressed assets.

A transformation journey is a relentless march towards excellence and into unexplored white spaces. The aim is to consolidate capabilities and accelerate the pace and progress of the journey, guided by the vision to strike a new path which is distinct, sustainable and rewarding.

In addition to launching new, future driven, digital initiatives to enhance the customer experience, suitable strategies for sustainable growth have been mapped out to enable Karnataka Bank to build a competitive edge in the banking space and to emerge as the 'Bank of the Future.'

Formation of Subsidiary

With a view to streamline and to adopt cost efficient measures for back-end operations of KBL, your Bank has taken a decision to form a new subsidiary called 'KBL Services Ltd.' I am happy to inform you that the final approval has been received from the Regulator to form the subsidiary which will become operational during the current year.

Human Resources Management

Our people are our greatest asset and they have exhibited great resilience and commitment in these turbulent times by further improving the customer service benchmarks.

The 'Bank First' approach embedded in the ecosystem has helped to protect the interest of the Institution by being vigilant and alert from possible financial as well as reputational risk. To build a transformational, future ready, people resource, curated training and capability development programmes were conducted across the Bank. 'KBL RISE' a calibrated Performance Management System was introduced as an effective HR tool to track and manage performance while E-learning Platforms, online reviews and mentoring workshops, helped to build people capabilities and self paced learning and development.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Bank's growth has been in consonance with its un-remitting commitment towards the social welfare of the larger society in which it operates right from its inception. Over the years, your Bank has generated a positive social impact in various sectors of social life through its CSR initiatives thus raising the quality of lives of less

privileged sections of the society. During the year under report your Bank had sanctioned a sum of ₹ 923.85 lakhs for 222 projects under its CSR initiatives. The social impact of your Bank's CSR initiatives across various sectors has been well appreciated and found to be rewarding. A committee of Directors, i.e. Corporate Social Responsibility Committee is overseeing the overall governance of the CSR activities of your Bank.

Awards and Accolades

During 2019-20, the Bank received 11 prestigious awards in various categories.

To name a few: ET Business Excellence Award 2019, for 'Excellence in Banking Service', BFSI Awards for 'Best Bank in Private Sector' and 'Innovation and Emerging Technologies', 3 IBA Awards for 'Best Digital Financial Inclusion', 'Technology Bank of the Year' and 'Best IT Risk Management & Cyber Security Initiatives' This has been made possible because of the dedication and hard work of our people and the respective business leaders across regions who have worked in unison as one Team. I congratulate each one of them for their contribution. The Awards and Accolades have set a new benchmark for the Bank and should serve as an impetus for greater laurels in future.

Outlook for 2020-21

As per industry forecasts, the year 2020-21 will be a very challenging one with the financial landscape facing major turbulence and an unprecedented downturn triggered by the pandemic threatening to decimate fragile economies across the world.

Due to the prolonged uncertainty resulting from the pandemic shutdown, RBI has forecast negative growth for the first half of the current fiscal with a slow revival expected in the second half of the year. With the Government of India's focus on 'Atmanirbhar Bharat' and various pro-growth programmes such as 'Make in India', Digital India, job creation in MSMEs, infrastructure building, etc, the potential for long term growth is immense.

In this test-by-fire times, KBL is building on its inherent strength of fiscal prudence and its reserves of resilience, leveraging on the concept of its business model - 'conserve, consolidate and emerge stronger'.

Nearly a century in banking, Karnataka Bank has demonstrated resilience in surmounting upheavals, displayed prudence in its risk appetite and shown a passion and courage to tread new paths. The 'Compliance first, business next' approach of KBL has provided it the strength and stability, as a socially responsible and commercially viable bank creating value for all stakeholders, with unfailing dividend pay outs for 93 years of the 96 years of its existence. A record that demonstrates resilience, matched by very few in the banking industry across the world.

Acknowledgment

As we continue to embark on our transformation journey, I wish to express my heartfelt gratitude to our beloved Chairman, Shri P. Jayarama Bhat and the Board of Directors for providing their continuous support and guidance to maintain the highest standards of corporate governance and professionalism in running the Bank. I also thankfully acknowledge the continuous guidance and support of the Reserve Bank of India, Indian Banks' Association, SEBI, Stock Exchanges, IRDAI and other Regulatory / Statutory bodies. My sincere thanks to all the team members for their wholehearted efforts and also the President, General Secretary and office bearers of both AIKBEA & KBOO for their continued support in all the endeavours of the Bank as partners in progress.

My special thanks to all of you dear shareholders for reposing your trust in the Bank and helping to shape it as an institution of great stability. My sincere thanks to all our customers.

Forging ahead to reach its centenary milestone, I am sure KBL on its transformational journey, will emerge bigger, stronger and resilient to take its place as the 'Bank of the Future.' A journey, with a myriad possibilities...

Yours sincerely,
Mahabaleshwara M S

(Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting)

Follow us at: / Karnataka Bank

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

Regd. & Head Office : Mangaluru - 575 002

CIN: L85110KA1924PLC001128

E-mail: info@ktkbank.com Visit us at: www.karnatakabank.com

Companies

SATURDAY, JULY 18, 2020

Quick View



IKEA India closes outlet in Hyderabad temporarily

IKEA INDIA (PART of the Ingka Group) will be temporarily closing its outlet here from Saturday to implement additional safety measures in view of the current Covid-19 pandemic, the Swedish furniture maker said on Friday.

Hathway Cable Q1 net profit at ₹66 crore

HATHWAY CABLE & Datacom on Friday reported a consolidated net profit of ₹66.06 crore for the first quarter ended June 30. The firm had posted a net loss of ₹9.38 crore in April-June a year ago, Hathway Cable said in a BSE filing.

Bawa is SAP president & MD, Indian subcontinent

TECH MAJOR SAP on Friday said it has appointed Kulmeet Bawa as president and MD for SAP Indian subcontinent, effective July 20.

Ola converts fumigation centres into safety zones

CAB AGGREGATOR OLA has converted its fumigation centres into safety zones to help drivers take care of all the safety prerequisites for their rides amid the Covid-19 pandemic. The company has announced ₹500 crore commitment towards various safety initiatives, and plans to set up over 500 fumigation centres across the country under its 'Ride Safe India' initiative in view of the pandemic, the company said.

Orient Electric enters hygiene products biz

CK BIRLA GROUP Orient Electric has announced its entry into the hygiene products segment with the launch of UV Sanitech, a box-shaped sanitisation chamber that uses ultraviolet light to kill viruses including coronavirus on the surfaces of everyday objects and groceries. It is manufacturing the sanitisation box in-house at its Faridabad plant and plans to introduce more products in this category in the near future.

McDonald's introduces take-out service 'On the Go'

MCDONALD'S RESTAURANTS HAS introduced 'On the Go' take-out service on their McDelivery app that enables contactless ordering and collection of the order from your vehicle.

PayU partners Shiprocket Social, Quick eSelling

PAYU HAS PARTNERED with e-commerce platforms, Shiprocket Social and Quick eSelling to enable their over 15,000 merchants to digitise transactions. Merchant partners will also be able to avail other infrastructural support offered by PayU. This includes features such as same-day settlements to manage cash flows, accept international payments.

Gaana ties up with podcast hosting major Libsyn

MUSIC STREAMING APP Gaana on Friday said it has partnered with global podcast hosting major, Libsyn Syndication for content sharing. Gaana CEO Prashan Agarwal said, "At Gaana, we have been investing steadily in this space with our Podcast Originals and have now taken it up a notch with our partnership with Libsyn that would engage our audience with world-class podcasting content from around the world."

MPL ties up with Cricket Ireland, ITW Consulting

SPORTS AND MOBILE gaming platform Mobile Premier League has partnered with Cricket Ireland and ITW Consulting to sponsor the Irish Men's team jerseys for the upcoming One-Day International Series against England beginning July 30.

● SURGE IN DEMAND

Hyundai to hire 1,800 to boost production

SAJAN C KUMAR
Chennai, July 17

BUOYED BY THE encouraging demand for its vehicles, South Korean car major Hyundai has started adding to its workforce to ramp up production at its India facility.

The company, which has a manufacturing plant in Chennai, is looking to hire about 1,600 to 1,800 apprentice to meet the demands of existing as well as future products, becoming one of the few companies to go for recruitment in the times of Covid-triggered economic adversities.

A Hyundai Motor India (HML) spokesperson told FE that the company last week started the process to hire people for its Irungattukottai plants. The selected ones will be undergoing training at classrooms and on the job. According to the spokesperson, the company usually hires around 3,000 apprentice, but because of the lockdown, a large section of them went back to their hometowns. Though the company could bring some of them back when it resumed operations by deploying transportation, some still have not resumed work.



"To fill that gap and meet the demand for workers for our upcoming product portfolio, we need more people and so the recruitment," the spokesperson added.

Hyundai had not laid off staff or resorted to salary cuts as the company is steadily ramping up production both for exports and domestic sales. On the contrary, it recently announced promotions for its technicians (the blue-collar workmen in the shopfloors). It is also in the process of firming up plans for the junior, middle and senior-level executive cadres.

Hyundai recently said as demand has been picking up in India for its vehicles, it is planning to start a third shift at its Chennai plant. The company said it has clocked 75% sales in June 2020 against June 2019 and by the end of July, it is hoping to clock almost 90% sales.

HML director - sales, marketing and service Tarun Garg said the consumer sentiment has improved with reopening of the sales network. With demand for various

HCL Tech profit jumps 32% to ₹2,925 cr

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 17

IT FIRM HCL Technologies on Friday posted 31.7% rise in consolidated net profit in June 2020 quarter at ₹2,925 crore, and said it expects to see a positive growth trajectory in the coming quarters on the back of strong deal pipeline.

The Noida-based company also announced that its founder, Shiv Nadar has stepped down from the chairman's position, and his daughter, Roshni Nadar Malhotra will succeed him as the Chairperson of the Board.

Shiv Nadar would continue to be MD of the company with designation as chief strategy officer, HCL Tech said.

HCL Tech, which had posted a net profit of ₹2,220 crore in the April-June 2019 quarter (as per US GAAP), will not offer any salary increments to its staff this fiscal.

Revenue grew 8.6% to ₹17,841 crore in the quarter under review from ₹16,425 crore in the corresponding quarter last year. On a sequential basis, the top line was lower by 4% from ₹18,590 crore in March 2020.

In constant currency terms, HCL Tech's revenue in June 2020 quarter grew 1%



HCL Tech president & CEO C Vijayakumar

year-on-year.

"We started the year in the middle of a global health crisis and I had said we expect Q1 to be soft and it played out as anticipated... Not all of this dip is attributed to Covid-19, some of this reduction was due to offshoring of large deals envisioned in the previous year. HCL has executed the last quarter on almost all dimensions," HCL Tech president and CEO C Vijayakumar said.

The company signed 11 net new transformational deals with new bookings total

contract value being higher compared to the same quarter last year, and renewals were also robust during the quarter, he added.

HCL Tech expects its revenue to increase quarter-on-quarter by an average of 1.5-2.5% in constant currency for the next three quarters.

Vijayakumar added that he believes that the "worst is behind" and that "there is a positive growth trajectory from now on".

"And that's what has given us confidence to provide a guidance of 1.5 to 2.5% average quarterly growth on a constant currency basis," he said. Vijayakumar said life sciences and the tech sector are two areas, where the firm continues to see growth.

"The next set of sectors will be financial services, and some amount of telecom segment would be the next set and then manufacturing and consumer packaged goods (CPG) retail will be the third. I think the demand recovery will be in that sequence," he said.

Asked about the suspension of H1-B visas by the US, Vijayakumar said the move was "unfortunate" but will have minimal impact on the IT services major in the short term as it has been investing in ramping up local hiring in that country.

Fortis seeks vacation of SC order blocking stake sale to Malaysia's IHH Healthcare

INDU BHAN
New Delhi, July 17

FORTIS HEALTHCARE (FHL) on Friday moved the Supreme Court seeking permission to allow Malaysia's IHH Healthcare Berhad, which had in July 2018 acquired the hospital chain for ₹4,000 crore, to go ahead with its stalled open offer.

FHL wants vacation of the apex court's December 14, 2018, order that put on hold the sale of controlling stake (31%) in FHL to the Malaysian firm on a contempt plea filed by Japanese pharma major Daiichi Sankyo against the former promoters of the hospital chain -- Malvinder and Shivinder Singh.

The SC order for maintaining status quo till further orders meant that IHH Healthcare had to wait and can't go ahead with its open offer which was scheduled to commence from December 18, 2018.

Seeking modification of the December order, FHL in a fresh plea stated "if the open offer is allowed to be proceeded with, no monies will be transferred to the Singh brothers or the judgment debtors".

It further said "Fortis Healthcare Holding (FHHL), an entity controlled by the Singh brothers, holds only 0.15% of the applicant's (FHL) shares. Therefore, if the open offer is allowed to be proceeded with, insignificant



sums will be paid to FHHL (the holding company of FHL), and also the sum can be duly protected by the SC. Besides, "substantial monies will be paid to the public shareholders of the applicant", the application stated.

FHL also told the SC that its status quo order was impacting the interests of various public shareholders who stand to benefit from the open offer by Northern TK Venture (NTK) of FHL's shares. IHH is also an indirect 100% parent entity of NTK. On Friday, the matter was adjourned for two weeks after one of the two judges on the Bench recused from the case.

Sebi has also urged the SC to allow the acquirer, Northern TK Venture, Malaysian healthcare major IHH, and Parkway Pantai, to proceed with an open offer to acquire up to 19.70 lakh shares (26% of the expanded voting share capital) of FHL.

Mindspace REIT files offer document for IPO

FE BUREAU
Mumbai, July 17

K RAHEJA CORP, the owner of some of the marquee commercial real estate properties like Mindspace, The Square, Commerzone, and Inorbit mall, will be raising ₹4,500 crore through REIT (Real Estate Investment Trust), an offer document filed by the company with Sebi (Securities and Exchange Board of India) on Friday stated. The REIT will have 29.5 million sq ft of commercial space as part of the portfolio spread across Mumbai, Pune, Hyderabad and Chennai.

The offer consists of a fresh issuance of up to ₹1,000 crore of units by Mindspace REIT and an offer for sale of aggregating up to ₹3,500 crore. The proceeds of the issue will be primarily utilised for partial or full pre-payment or scheduled repayment of certain debt facilities of the asset SPVs



integrated business parks and five independent offices, the offer document stated.

FE reported on July 17 that Mindspace REIT will be raising ₹3,000-₹4,000 crore through REIT and will be filing the offer document with SEBI within this week. Mindspace REIT will be the second publicly traded REIT after Embassy and Blackstone raised over ₹4,700 crore through an IPO in April 2019.

The proceeds of the issue will be primarily utilised for partial or full pre-payment or scheduled repayment of certain debt facilities of the asset SPVs availed from banks/financial institutions, including any accrued interest and any applicable penalties/premium

integrated business parks and five independent offices, the offer document stated.

FE reported on July 17 that Mindspace REIT will be raising ₹3,000-₹4,000 crore through REIT and will be filing the offer document with SEBI within this week. Mindspace REIT will be the second publicly traded REIT after Embassy and Blackstone raised over ₹4,700 crore through an IPO in April 2019.



● COVID & COSTS

Varun Berry, managing director, Britannia Industries

The quarter posed an uphill task for the economy... On the cost front, we witnessed moderate inflation in prices of key raw materials and expect them to be stable going forward, given the positive outlook on monsoon and harvest.

DGCA: Number of domestic flyers in June declines 84% y-o-y

New Delhi, July 17

A TOTAL OF 19.84 lakh passengers travelled domestically in June this year, which is 83.5% lower than the figures of the corresponding period last year, the DGCA said on Friday. Moreover, the occupancy rate or load factor for five out of six major Indian airlines was between 50% and 60% in June 2020, it said.

"The passenger load factor in the month of June 2020 has shown a sharp decline due to limited air operations because of the Covid-19 outbreak," the Directorate General of Civil Aviation (DGCA) said.

The occupancy rate in SpiceJet was 68% in June this year. However, the occupancy rate for other major airlines — IndiGo, GoAir, Vistara, AirAsia India and Air India — in the month of June stood at 60.7%, 57.9%, 56.6%, 56.5% and 56.5%, respectively, as per the DGCA.

India resumed domestic passenger flights on May 25 after a gap of two months amid the coronavirus pandemic. —PTI

Britannia Industries Q1 profit jumps over twofold to ₹543 cr

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 17

BRITANNIA INDUSTRIES ON Friday reported over twofold increase in consolidated profit at ₹542.68 crore for the June quarter, on the account of higher income. Its profit was ₹248.64 crore in the year-ago period.

Total income during the period under review stood at ₹3,514.35 crore, up 26.97%, as against ₹2,767.8 crore in the year-ago quarter, Britannia Industries said in a regulatory filing.

Britannia Industries managing director Varun Berry said: "The quarter posed an uphill task for the economy in wake of Covid-19 and caused significant disruptions due to lockdowns imposed to curtail its spread. Factories, depots, transport and vendors across the supply chain were impacted."

As soon as the lockdown was eased, he said the company focused on getting distribution back to the pre-Covid-19 levels and increasing its rural and hinterland reach.

"On the cost front, we witnessed moderate inflation in the prices of key raw materi-



als and expect the prices to be stable going forward given the positive outlook on monsoon and harvest," he said.

Berry stated that given the dynamic nature of the pandemic and associated uncertainty, the company was quick to resort to cost efficiencies through extraction of supply chain efficiencies, reduction in wastages and fixed costs leverage.

"We also rationalised media spends considering the constraints of inventories due to higher market demand," he said, adding that the company is diligently studying the impact of Covid-19 on short-term and long-term changes in consumer preferences, distribution models and are confident of overcoming challenges with agility.

USFDA to restart onsite checks from next week

FE BUREAU
Hyderabad, July 17

THE US FOOD and Drug Administration (FDA) said that it will resume its onsite inspections of regulated facilities next week after four months of suspended activities because of the novel coronavirus pandemic.

The FDA had previously announced on March 10 that routine domestic inspections would be put on hold to protect the health of its inspectors. The regulatory body said that it would be running its operations following the guidance issued by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the White House for Opening Up America Again.

"The FDA will resume prioritised domestic manufacturing inspections the week of July 20 after a four-month moratorium on most on-site walkthroughs," FDA commissioner Stephen Hahn said in a statement. "Resuming prioritised domestic inspections will depend on the data about the virus' trajectory in a given state and locality and the rules and guidelines that are put in place by state and local governments," Hahn said. "In order to move to the next phase, we must see downward trends in new cases of Covid-19 and hospitalisations in a given area."

The FDA has developed a rating system to determine when and where domestic inspections can be conducted safely. The three-part rating system will indicate whether to conduct only mission-critical



inspections, conduct all inspections with safeguards to protect staff that have self-identified as being part of a vulnerable population, or resume all normal regulatory activities in a given geographic area.

Incidentally, Indian pharma firms had asked the FDA to consider alternative measures to inspect facilities, arguing that a ban on most inspections hindered their ability to distribute key drugs. Reports say that in mid-April, Indian pharmaceutical firms had requested the FDA to conduct "desk reviews" or virtual facility inspections during the pandemic in order to ensure the continuous supply of much-needed drugs in the US.

"The members of Indian Pharmaceutical Alliance (IPA) had asked for virtual reviews of facilities that are new and are slated to produce a new class of drugs or have completed a corrective action plan

Bharat Biotech begins Covaxin trials

HUMAN CLINICAL TRIAL of Bharat Biotech's coronavirus vaccine, Covaxin, began at Rohtak's Postgraduate Institute of Medical Sciences (PGIMS) on Friday, Haryana health minister Anil Vij tweeted. "Three subjects were enrolled today. All have tolerated the vaccine very well. There were no adverse effects," Vij said in a tweet.

Bharat Biotech got the drug regulator's approval to start clinical trials of its corona vaccine recently. PGIMS is one of the 12 institutes that have been chosen for the 1,125-participant trial of the vaccine candidate, jointly developed by Bharat Biotech and Indian Council of Medical Research's National Institute of Virology in Pune.

FE BUREAU

following a previous inspection failure," a member of IPA said. IPA had also requested the FDA to consider recognising inspections by foreign regulators and temporarily waiving on-site inspections based on past inspection history and the critical nature of products, such as drug shortages or products that do not currently have generic alternatives. However, there is no confirmation from the regulating agency for conducting virtual inspections as on date.

Godrej leases out 2-lakh sq ft office space to AP Moller-Maersk in Mumbai

FE BUREAU
Mumbai, July 17

GODREJ FUND MANAGEMENT, the real estate private equity arm of the Godrej Group, on Friday announced it has leased an office space of 2 lakh sq ft to AP Moller-Maersk's business units.

The office space has been leased at Godrej Two, a commercial office located in Vikhroli, Mumbai.

Godrej Fund Management (GFM) manages \$1 billion worth of capital across four funds and Godrej Two is the first of the development assets under GFM's GBTC I programme. It is jointly owned with Godrej Properties. Godrej Two is a Grade 'A+' office development and is part of the larger mixed use development 'The Trees', which is a mix of commercial, hospitality, retail and resi-

dential offerings. The larger development is already home to the global headquarters of the Godrej Group and other marquee firms.

Godrej Fund Management MD and CEO Karan Bolaria said: "We are pleased to welcome AP Moller-Maersk as our first partners in Godrej Two and look forward to further strengthening this partnership across our office portfolio. We are confident that our product is future-ready and caters to the ever-changing needs of multinational corporations operating in India."

AP Moller-Maersk is a Denmark-headquartered integrated container logistics firm that is bringing its seven business units from four different locations under Godrej Two. This is the largest co-location project that Maersk has undertaken in India. JLL was the exclusive transaction adviser and has also been appointed as the project manager.

SHREE PRECOATED STEELS LIMITED
 CIN: L70109MH2007PLC174206
 Regd. Off.: 1, Ground Floor, Citi Mall, New Link Road, Andheri (West) Mumbai - 400 053

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, the 27th July, 2020 at Registered Office of the Company at 12:15 pm, inter-alia to consider, review and adopt Audited Financial Statements along with Auditor's Report for the Fourth Quarter and year ended 31st March, 2020, to recommend dividend if any and Un-audited Financial Statements for the First quarter/three months ended 30th June, 2020 with other agenda's to the business.

Pursuant to Regulation 47(2) of SEBI (LODR), the said Notice may be accessed on the Company's website at www.spssl.com and may also be accessed on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

By order of the Board
For Shree Precoated Steels Ltd.
 Sd/-
Harsh L. Mehta
 Managing Director

Place: Mumbai
 Date: 18th July 2020

Jsw Steel Limited
 CORPORATE IDENTIFICATION NO. (CIN) : L27102MH1994PLC152925
 Regd. Office: Jsw Centre, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
 Tel.: 022-4286 1000 Fax: 022-4286 3000 Email: jsw.investor@jsw.in Website: www.jsw.in

NOTICE

Notice is hereby given in compliance with Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 24th July 2020, to consider inter alia and to take on record, the Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June 2020.

The aforesaid information is also available on the Company's website www.jsw.in and also on the websites of the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

For Jsw Steel Limited
 Sd/-
Lancy Varghese
 Company Secretary

Place: Mumbai
 Date: 17.07.2020

Nahar Spinning Mills Limited
 CIN: L17115PB1980PLC004341
 Regd. Office: 373, Industrial Area-A, Ludhiana-141003
 Phone No.: 0161-2600701-705
 E-mail: secnca@owmnahar.com, Website: www.owmnahar.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time. The Act and the Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which, the dividend has not been paid/claimed by the shareholders for 7 (seven) consecutive years or more to the demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

In compliance to the requirements set out in the Act and the Rules, the Company has dispatched the communication individually to the concerned shareholders who have not claimed their dividends for last seven consecutive years i.e. from financial year 2012-13 onwards and whose equity shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules to claim the dividend by 31st August, 2020. The Company has also uploaded the complete details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF account on its website at the link: http://www.nahar.com/spinningmills/unpaid_201213_201819.pdf. Shareholders are requested to refer to the link to verify the details of unclaimed dividends and the shares that are liable to be transferred to the IEPF and to claim the unclaimed dividend at the earliest.

Shareholders are requested to note that in case the dividend is not claimed by Shareholders by 31st August, 2020, the equity shares in respect of which the dividend remains unclaimed, shall be transferred by the Company to IEPF Authority as per IEPF Rules, without any further notice to the shareholders.

Please note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority, after following the procedure prescribed by the Rules by making an application electronically (Form IEPF-5). Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in in this regard. No claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and shares transferred to the IEPF pursuant to the Rules.

The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of physical share(s) to the IEPF Authority.

In case shareholders have any query on the subject matter and the Rules, they may contact the Compliance Officer at 0161-2605223 or write an email at secnca@owmnahar.com or Company's Registrar and Transfer Agent: M/s. Alankrit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Tel. 011-42541234, e-mail: raj@alankrit.com.

For Nahar Spinning Mills Limited
 Sd/-
Brij Sharma
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ludhiana
 Dated: 17.07.2020

GLUHEND INDIA PRIVATE LIMITED
 CIN : U74904MH2017FTC303216
 Corporate Office : 346, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi, 110092
 Regd. Office : 23, Floor-2, Plot-59/61, Ariswala Mansion Nathalal Parikh Marg, Colaba, Mumbai - 400005, Maharashtra

Extract of the Statement of Standalone Financial Results for the Half-year Year ended 31 March 2019

Particulars	(All Amounts in Rs. Millions, unless otherwise stated)		
	For the six months ended 31 March 2019 (Audited)	For the year ended 31 March 2019 (Audited)	For the period 22 December 2017 to 31 March 2018 (Restated) (Refer note c, d)
1 Total Income from operations	2,171.36	5,720.08	5,720
2 Net Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(63.62)	(204.74)	(354.07)
3 Net Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(63.62)	(204.74)	(354.07)
4 Net Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(70.03)	(222.51)	(370.85)
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Loss for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(74.10)	(230.66)	(371.34)
6 Paid up equity share capital (Face value of the share Rs.10 each)	321.23	321.23	321.23
7 Other Equity (includes Reserves excluding revaluation reserve)	(567.24)	(567.24)	(369.59)
8 Net Worth (Refer note (f) below)	(245.01)	(245.01)	(48.36)
9 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	3,175.00	3,175.00	3,175.00
10 Earnings per equity share (EPS) of Rs. 10 each:			
(a) Basic (In Rupees)	(0.31)	(1.14)	(25.49)
(b) Diluted (In Rupees)	(0.31)	(1.14)	(25.49)
11 Net Debt Equity Ratio	1.85	1.85	1.94
12 Debt Service Coverage Ratio	1.10	0.90	(13.30)
13 Interest Service Coverage Ratio	0.68	0.55	(13.32)

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of half yearly/annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly/annual financial results are available on the website of the Bombay Stock Exchange, i.e. at <https://www.bseindia.com/stock-share-price/gluhend-india-pvt-ld/89ip21957731/corp-announcements/>

b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on <https://www.bseindia.com/stock-share-price/gluhend-india-pvt-ld/89ip21957731/corp-announcements/>.

c) The Board of Directors of Gluhend India Private Limited ("the Company"), at their meeting held on 10 December 2018, had approved the Scheme of Amalgamation ("the Scheme") of Sage Metals Private Limited ("the Subsidiary" or "SMPL" or "Transferor Company") with Gluhend India Private Limited ("GIPL" or "Transferee Company") with an appointed date of 13 March 2018 ("Appointed Date"). During the year, the Company has filed an application with Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai Bench under section 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.

d) Subsequent to the year end, Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide its order dated 20 June 2019 approved the Scheme of Amalgamation of SMPL with the Company under Section 230 and 232 and other applicable provisions of Companies Act, 2013 with effect from the appointed date i.e. 13 March 2018. The Scheme became effective upon filing of the aforesaid order with Registrar of Companies ("ROC") on 25 July 2019.

e) During the current year, the management of the Company identified errors relating to accounting and related presentation and disclosures for Compulsory Convertible Preference Share ("CCPS") and Income from export incentives relating to the transactions occurred during the previous period. The management of the Company has restated previous period post merger financial information and the impact of the same is provided in the results available at the above stated URL.

f) Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after 01 April, 2018 replaces the existing revenue recognition standards. The application of Ind AS 115 did not have any significant impact on the standalone financial results of the Company.

g) The Company has accumulated losses of Rs. 602.00 million as at 31 March 2019 (As at 31 March 2018 Rs. 371.34 million), resulting in a complete erosion of its net worth as of 31 March 2019. However, CCPS amounting to Rs. 2,199.17 million (As at 31 March 2018 : 1,517.22 million) disclosed as non current financial liability in the standalone financial results will be converted into equity share capital in future. The details are available at <https://www.bseindia.com/stock-share-price/gluhend-india-pvt-ld/89ip21957731/corp-announcements/>.

Sd/-
Vatsal Manoj Solanki
 Managing Director
 (DIN : 08659135)

Place: Delhi
 Date: 15 July 2020

Himadri Speciality Chemical Ltd
 CIN: L27106WB1987PLC042756
 Regd. Off: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Suite No 15, Kolkata- 700 001
 Phone : (033)2230-9953, Fax: (033)2230-9053
 Email : investors@himadri.com ; Website : www.himadri.com

Sub: Notice of Board Meeting

Notice pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 is hereby given that the 223rd meeting of the Board of Directors of **Himadri Speciality Chemical Ltd** will be held at its Corporate Office at 8 India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata- 700 001 on **Tuesday the 21 July 2020 at 1.30 p.m.** inter-alia to consider and take on record the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2020. This notice is also available at the Company's website: www.himadri.com

For Himadri Speciality Chemical Ltd
 Sd/-
Monika Saraswat - Company Secretary

Place: Kolkata
 Date: 17 July 2020

NOVARTIS INDIA LIMITED
 Registered Office: Inspire BKC, Part of 601 & 701, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051
 Tel.: +91 22 50243000; Fax: +91 22 50243010
 Email: india.investors@novartis.com
 Website: www.novartis.in
 CIN: L24200MH1947PLC006104

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Novartis India Limited is scheduled to be held on Thursday, August 06, 2020 to inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2020. The said Notice is also available on the website of the Company www.novartis.in and website of the BSE Limited www.bseindia.com.

By order of the Board of Directors
Trivikram Gupta
 Mumbai Company Secretary & July 17, 2020 Compliance Officer

L.G.B. BALAKRISHNAN & BROS LIMITED
 6/16/13, Krishnarayapuram Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006.
 Ph: 0422 2532325 Fax: 0422 2532333
 Email: info@lgb.co.in
 Website: www.lgb.co.in
 CIN: L29191TZ1956PLC000257

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 30th July, 2020 to inter alia and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.lgb.co.in and may also be accessed on the stock exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For L.G.BALAKRISHNAN & BROS LTD
 Coimbatore M. LAKSHMI KANTH JOSHI
 16.07.2020 G.M. (Legal) & Company Secretary

SHEELA FOAM LIMITED
 (CIN: L74899DL1971PLC005679)
 Registered Office: C-55, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092
 Email: iquebal.ahmad@sheelafoam.com Phone: +91 11 2202 6875, Facsimile: +91 11 2202 6876 Website: www.sheelafoam.com

Notice of the 48th Annual General Meeting to be held through Video Conference(VC)/Other Audio Visual Means(OAVM)

Notice is hereby given that the 48th Annual general Meeting (AGM) of the Members of Sheela Foam Limited is scheduled to be held on Friday, 14th August 2020 at 10.30 AM through Video Conference(VC)/ Other Audio Visual Means(OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020/17/2020, 20/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the notice of the meeting.

In Compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories participant(s). Shareholder holding shares in dematerialized mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholder holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar i.e. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058; Telephone 011-41410592, 011-49411000; Fax: 011-41410591; Email: delhi@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in.

Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.sheelafoam.com; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Shareholder will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholder who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the company. Shareholders are requested to visit www.sheelafoam.com.

For Sheela Foam Limited
 Sd/-
Md Iqbal Ahmad
 Date: 17th July, 2020
 Place: Noida
 Company Secretary and Compliance Officer

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED
 CIN: L65921WB1993PLC060507
 Regd. Office: Gajraj Chambers, 2B, 2nd Floor, 86 B/2, Topsis Road, Kolkata - 700046 (West Bengal)
 Email Id: compliancesdf@gmail.com; Website: www.somdattfin.com

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, August 12, 2020 at 3:00 p.m. through video conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2019-20 on 16th July, 2020 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred as MCA circulars) and SEBI circular dated May 12, 2020. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website <https://www.somdattfin.com/annual-report/> and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com>.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Wednesday August 05, 2020 (cut off date).

The remote e-voting period commences on August 09, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on August 11, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login id details for e-voting:

Physical Holding	Demat Holding
Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, RCMC share Registry Pvt. Ltd. at investor.services@rcmcoldi.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details to your demat account, as per the procedure advised by your DP.

For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance in connection with facility for voting by electronic means please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Tradeworld, A Wing, 4th Floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 E-mail: evoting@nsdl.co.in Tel.No. 022-24954545.

FOR SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED
 Sandip Kumar Chaubey
 Company Secretary

Place: Kolkata
 Date: 16.07.2020

Form No: INC-26
 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
 Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another.

Before the Central Government, Western Region, Mumbai
 Everest 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai - 400002

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **MAXIUS VENTURES PRIVATE LIMITED**
 (CIN : U45206MH2003PTC211586), having its Registered Office at B 302, Om Samruddhi SOC, Gandhari Road, Adharwadi, Kalyan, Mumbai, Maharashtra 421301.

Petitioner Company

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 13th July, 2020 to enable the company to change its Registered Office from "State of Maharashtra" to "State of Madhya Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of objection to the Regional Director, Everest 5th Floor 100 Marine Drive Mumbai - 400002, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above;

For and on behalf of the Applicant
MAXIUS VENTURES PRIVATE LIMITED
 Deepak Singh Biset
 Director
 DIN: 08066701

Date: 17.07.2020
 Place: Kalyan (Mumbai)

Nahar CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES LIMITED
 CIN: L45202PB2006PLC029968
 Regd. Office: 375, Industrial Area, Ludhiana-141003
 Phone No.: 0161-2600701-705,
 E-mail: secnca@owmnahar.com, Website: www.owmnahar.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given to the Shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended from time to time. The Act and the Rules, inter alia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which, the dividend has not been paid/claimed by the shareholders for 7 (seven) consecutive years or more to the demat account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

In compliance to the requirements set out in the Act and the Rules, the Company has dispatched the communication individually to the concerned shareholders who have not claimed their dividends for last seven consecutive years i.e. from financial year 2012-13 onwards and whose equity shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules to claim the dividend by 31st August, 2020. The Company has also uploaded the complete details of such shareholders and shares due for transfer to the IEPF account on its website at the link: http://www.nahar.com/nahar_cif/INAHARCAP.pdf. Shareholders are requested to refer to the link to verify the details of unclaimed dividends and the shares that are liable to be transferred to the IEPF and to claim the unclaimed dividend at the earliest.

Shareholders are requested to note that in case the dividend is not claimed by Shareholders by 31st August, 2020, the equity shares in respect of which the dividend remains unclaimed, shall be transferred by the Company to IEPF Authority as per IEPF Rules, without any further notice to the shareholders.

Please note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority, after following the procedure prescribed by the Rules by making an application electronically (Form IEPF-5). Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in in this regard. No claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and shares transferred to the IEPF pursuant to the Rules.

The shareholders may please note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of physical share(s) to the IEPF Authority.

In case shareholders have any query on the subject matter and the Rules, they may contact the Compliance Officer at 0161-2605223 or write an email at secnca@owmnahar.com or Company's Registrar and Transfer Agent: M/s. Alankrit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Tel. 011-42541234, e-mail: raj@alankrit.com.

For Nahar Capital and Financial Services Limited
 Sd/-
Anjali Modgi
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ludhiana
 Dated: 17.07.2020

XTGlobal Infotech Limited
 (Formerly known as Frontier Informatics Limited)
 CIN: L72200TG1986PLC006544
 Regd. Office: Plot No. 31P & 32, 3rd Floor, Tower-A, Ramky Selenium, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.
 E-mail: company_secretary@xtglobal.com
 Tel. +91 040-23007456
 Website: www.fitindia.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of XTGlobal Infotech Limited (Formerly known as Frontier Informatics Limited) is scheduled to be held on Thursday, 23rd day of July, 2020 at 05:00 PM to consider and approve inter-alia the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 and any other matter as permitted by the Chair.

The details will be available at www.bseindia.com where the Company's shares are listed and the company's website www.fitindia.com.

By Order of the Board of
XTGlobal Infotech Limited
 Sd/-
Shikha Gangrade
 Date: 15-07-2020
 Place: Hyderabad
 Company Secretary

TCI LEADERS IN LOGISTICS
Transport Corporation of India Ltd.
 CIN: L70109TG1995PLC019116
 Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 3rd Floor, 1-8-271, to 273, Ashoka Bhoopal Chambers, S.P. Road Secunderabad - 500 003, Telangana
 Corp. Office: TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122 001, Haryana
 Tel: +91 124 2381603-07, E-mail: secretariat@tci.com, Website: www.tci.com

NOTICE is hereby given that 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 12th August, 2020 at 03:00PM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 05, 2020 to transact the businesses set out in the notice calling the AGM. Members participating through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In line with the aforesaid circulars and as intimated earlier via newspaper publication dated 30th June, 2020, the Notice calling the AGM is being sent to those shareholders, whose email addresses are registered with the Company/Depository. It is requested to the shareholders who have not yet registered their email addresses, to register their e-mail IDs temporarily in respect of shares held in dematerialized form, with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form through an e-mail to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company, KFin Technologies Pvt. Ltd., Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District Gachibowli, Hyderabad 500 032, Tel: +91 040 67161524, email: investor.ris@kfin.com or to the Company at secretariat@tci.com.

The Notice calling the AGM will also be made available on the website of the Company at www.tci.com, Stock Exchanges at www.bseindia.com and on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) website at www.evotingindia.com.

The Company is providing remote e-voting to all the shareholders to cast their votes on all resolutions set out in the notice of the AGM as well as through e-voting system during the AGM through the platform of CDSL. The Shareholders whose email addresses are not registered with the depositories/Company for obtaining login credentials for e-voting for the resolutions proposed in the notice calling the AGM, are requested to email to the company on secretariat@tci.com. The detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice.

Members are requested to update bank account mandate for receipt of dividend directly in their bank account through their Depository Participant(s) in respect of shares held in dematerialised form and in respect of shares held in physical form to the RTA by providing request letter alongwith Cancelled cheque.

Place: Gurugram
 Date: 17th July, 2020

For Transport Corporation of India Ltd.
 Archana Pandey
 Company Secretary & Compliance Officer

L&T Mutual Fund
 6th Floor, Brindavan, Plot No. 177 C. S. T. Road, Kalina Santacruz (East), Mumbai 400 098
 call 1800 2000 400
 email investor.line@lntmf.co.in
 www.ltfs.com

Notice (No. 18 of F.Y. 2020-21)

Notice for Declaration of Dividend in certain schemes of L&T Mutual Fund:

Notice is hereby given that L&T Mutual Fund Trustee Limited, the Trustees of L&T Mutual Fund ("the Fund"), have approved declaration of dividend (subject to adequacy and availability of distributable surplus) under the dividend options of the below mentioned schemes:

Name of the Scheme	Quantum of Dividend (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)	Net Asset Value ("NAV") as on July 16, 2020 (₹ per unit)
L&T Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Dividend Option	0.10		16.748
L&T Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Dividend Option	0.11	10	18.435
L&T Large and Midcap Fund - Regular Plan - Dividend Option	0.13		21.302
L&T Large and Midcap Fund - Direct Plan - Dividend Option	0.15		24.125

Pursuant to payment of dividend, NAV per unit of the dividend options of the aforesaid schemes will fall to the extent of the payment and statutory levy (if any).

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus and may be lower to the extent of distributable surplus available on the record date.

Past performance of the aforesaid scheme may or may not be sustained in future.

The record date for the purpose of declaration of dividend shall be July 23, 2020 ("the Record date"). The dividend will be paid to those unit holders, whose names appear in the register of unit holders of the aforesaid scheme as at the close of the business hours on the Record Date.

Under the dividend re-investment facility, the dividend declared will be re-invested at the ex-dividend NAV. The payment of dividend shall be subject to Tax Deducted at Source (TDS

Opinion

SATURDAY, JULY 18, 2020

Vaccine talk needs 'cautious optimism'

Covid vaccine progress so far is encouraging, but there are still too many uncertainties that need to be resolved

NEWSPHOTOGRAPHY/GETTY IMAGES
NEWS OF MODERNA INC'S Covid-19 vaccine candidate inducing creation of SARS CoV-2 neutralising antibodies in all trial participants—analysis of Phase 1 clinical trial findings published in the *New England Journal of Medicine* shows that the vaccine is also relatively safe—has sparked some degree of euphoria. Reports in *The Guardian* have also talked about encouraging results (though unconfirmed so far) from the phase one clinical trials of the Oxford University's vaccine candidate. Indeed, the general direction of progress on vaccine candidates has been encouraging so far. Even so, the global community would do well to temper its expectations. It is important to keep in mind Merck CEO Kenneth Frazier's sage words on hype (even if unintentional) around a successful vaccine, especially one touted to become available in the near term, being a "great disservice" to the public. Frazier, in an interview with a Harvard Business School professor, stated that there are many scientific and logistical obstacles that a vaccine candidate must overcome to prove successful. He should know, having been at the helm of a company that has developed many successful vaccines, including one of the few approved against Ebola. To be sure, the urgency in the present instance is ineluctable, and with infrastructure supporting R&D having evolved rapidly over the past few years, it is likely that certain aspects of trials now don't demand the amount of time they did earlier. However, there is also a need to understand that vaccine candidates may face many limitations.

Studies from China, Germany and the UK show that the antibodies Covid-19 patients develop against SARS CoV-2 could be short-lived; indeed, an ongoing ICMR study reports that nearly 25% of the samples of plasma from recovered patients didn't have any antibodies. Apart from the implications for plasma donations for convalescent plasma therapy, this also could be an indication that developing long-term immunity, whether because of infection or vaccine-induced, could be difficult, even with T-lymphocytes (one part of immune system memory) in play. If vaccine trials and other research eventually show this, a one-shot-and-done vaccine would be unlikely, too. And, with rapid mutations—66,000 genomic sequences have been reported so far—vaccine development, boosters included, will be a complicated affair. There are other potential limitations also, which need to be studied over a longer time-frame than what all the 'fast-track vaccine' talk has focussed on. For instance, even though adenovirus vector vaccines (involving weakened viral vectors that act as a carrier for pathogen genes encoding for the latter's proteins, which then induce the body to create corresponding antibodies) are believed to have certain advantages over other vaccines—including DNA vaccines on which these are based—experts are watching if it will also mean if such vaccines are less effective. Neutralising antibodies against human adenoviruses are common—more so in African nations than in Asian or European ones—and there is a need to see how effective vaccines like CanSino Biologics's candidate and Johnson & Johnson's candidate fare eventually. Indeed, as some immunologists have opined, even the site of the administration of such vaccines could determine whether antibodies against the vector are activated and render the vaccine ineffective.

Vaccine talk perhaps needs to bring in a balance between optimism and caution. There are too many uncertainties right now to be talking of launch in a matter of months—or, for that matter, even a near-term deadline. There is also a need to fuel research on other pharmacological interventions—such as antiviral molecules, monoclonal antibodies (new research findings that establish the genetic backbone of antibodies that target the virus's spike protein, the IGHV3-53 gene), new and existing immunomodulatory compounds. The world will do well to echo Anthony Fauci's "cautious optimism" on vaccines in the meanwhile.

Data market in the offing

Non-personal data Bill outlines regulatory vision for this

GIVEN HOW THE government had bungled up the Data Protection and Privacy Rules by giving itself an escape clause—the draft Bill said the government or its agencies couldn't be scrutinised for data collection—the draft Non-Personal Data Bill seems progressive indeed. The Bill, drafted by the Kris Gopalakrishnan committee set up by the government in September last year, deals with the regulation of collection of data and the creation of a data market. If the Bill passes muster with Parliament, India would become one of the first countries to have a data market law in place. If the provisions are not changed, it would also mean that companies (data custodians) will need user (data principal) consent for the collection of even anonymised data, and would need to adhere to strict rules so that data cannot be de-anonymised. However, it is not clear whether companies will be able to deny service sans user consent on data-sharing. While the focus of the draft is data privacy, it also has provisions for the regulation of a data market. A Google or a Facebook cannot have data monopoly, and must share whatever information the government or start-ups deem essential at a reasonable price. Different entities of the government will serve as data trustees, which will then dispense data.

Although a lot of this data sharing happens even now, the processes are complicated, and far too often, obtaining data is difficult. Once the law is in place, companies would be asked to put data in the public domain to support the Indian start-up ecosystem. More important, the government can leverage this data to improve public services. For instance, if Google's mobility trend data is available, then the government can create better traffic management systems. Similarly, if the government can put data in the public domain, companies can leverage this information for better service delivery. The Bill stipulates that both companies and the government will need to pay for data.

The provisions with regard to the data authority—to be set-up by the government for regulation of non-personal data—are a bit ambiguous. If any company refuses to share data, it would be incumbent upon the authority to decide whether data can be shared or not. A Google may not wish to share the information which it considers proprietary, but it will have to if the authority asks it too. Rather than giving the absolute authority to the panel, the government would have done better to lay down clear rules. The government has paved the way for data regulation, and once a market is established, consumers will also be able to benefit from it.

Meat&Methane

Methane emissions have risen drastically, livestock farming and fossil fuels are to blame

THE WORLD CERTAINLY won't get on a path to curb warming by levels targeted in climate deals, conferences and speeches of leaders across the globe if it continues to fail to tackle its methane problem. Methane emissions have increased by 10% over the past two decades, reports *Nature*. Nearly 600 million tonnes of methane were emitted in 2017, the latest year for which data is available. Atmospheric concentration now stands at 2.5 times the pre-industrial levels. What makes methane especially dangerous for climate change is the fact that it can cause a lot of warming over a short period—it has an atmospheric life of about 12 years versus carbon dioxide's ~100 years—given its heat-trapping capacity is 20 times that of CO₂.

While bacterial action in wetlands is responsible for a third of methane emission, the recent rise, scientists say, is not from these. Agriculture and fossil fuels, each accounting for ~25% of the emissions, saw a sharp rise—agricultural emissions, thanks to soaring red meat and dairy consumption, rose by 12% while emissions from fossil fuels increased by 17%. While the world seems inclined to turn away from fossil fuels, livestock farming for meat and dairy could be a different ballgame altogether. There are cultural factors and dietary preferences, apart from livelihoods, associated with the consumption of meat and dairy—getting people to temper consumption could be a politically fraught question. Even though mock-meat, lab-grown meat, plant-based dairy substitutes, etc—thanks in no small measure to the global vegan movement—have become popular, whether a meaningful move away from meat- and dairy-based diets is even possible remains a big question.

● FIGHTING DEPRIVATION

INSTEAD OF MAKING IT UNIVERSAL, MAKE IT AN INCOME SUPPLEMENT FOR MGNREGA-COVERED HOUSEHOLDS, OR A SUPPORT TO PLUG THE LACK OF ROUND-THE-YEAR EMPLOYMENT

Getting basic income support to deliver optimally

THERE IS AN opinion among many policymakers that Universal Basic Income (UBI) should be a supplement to, or replacement of, all social safety nets. The global economic contraction induced by Covid-19 has prompted this thought in India and elsewhere. Supporters of basic income often believe an unconditional safety net can help people out of poverty, by giving them the time to apply for jobs or learn essential new skills. This is seen as increasingly important in the age of automation, which contributes to unemployment. With the coronavirus pandemic exacerbating the weaker sections' financial struggles, the Spanish government has decided to implement what it is calling a national minimum income, ensuring that people in around 1 million low-income households get roughly \$500 a month in income. The plan aims to reach 2.3 million people, and is expected to cost the government about 3 billion euros a year.

The spread of Covid-19 has fundamentally shaken economies, and people are beginning to question existing economic models: This pandemic has highlighted the existing levels of both injustice and inequality worldwide, which continue to increase. Covid has led to lockdown of many economies, national and local, to a contraction in demand and increasing unemployment and salary-cuts. So, bolder steps are needed, not only to protect people from such catastrophe but also to avoid continued recession.

With demand contraction, contract labour, many people who work in the informal sector as well as some formal sector employees are without jobs. This treatment of labour vitiates the social contract between business and labour whose interests are not

RAJARSHI GHOSH
Head, economic affairs and policy,
Indian Chamber of Commerce
Views are personal



separate but aligned. In such a situation would a food safety net, as is being used by India, help? It is a pure grant of five kg of cereals and one kg of lentils per family per month for eight months in 2020. Without doubt, this direct, in-kind transfer of food is useful, but the leakages in the

terms of the number of households covered. Since 2006, it has been expanded to cover all districts in India, providing work to 60 million rural households and 12 crore workers, @ two workers per household today. But there is unevenness in outcomes across the country. MGNREGA

To get basic income support to push demand, the govt could think of giving part of it as tied-spending vouchers, say, for food, healthcare, education, etc. The cash part can also be used by beneficiaries for spending that is not covered by the vouchers

implementation depends on the supply of work, rather than the demand for it. Supply is determined by differences in state capacity and intention, and local power relations. Improving employment outcomes requires understanding the demand-driven aspects of MGNREGA through a focus on local-focussed studies and funding, and tracking of outcomes.

Even so, MGNREGA guarantees just 100 days of work, which can be extended to 150 days in times like these. Round-the-year, uninterrupted jobs are not easily available in Covid

times. Consumption demand remains a constraint. People have not been able to step out and buy; even though restrictions are being gradually lifted, the uncertainty over future income is holding them back. Because of this, as also other com-

panies are not easily available in Covid times. Consumption demand remains a constraint. People have not been able to step out and buy; even though restrictions are being gradually lifted, the uncertainty over future income is holding them back. Because of this, as also other com-

panies are not easily available in Covid times. Consumption demand remains a constraint. People have not been able to step out and buy; even though restrictions are being gradually lifted, the uncertainty over future income is holding them back. Because of this, as also other com-

Cheating in the Covid vaccine race?

If Russia is to reap the diplomatic and political benefits of a home-grown vaccine, it needs such a victory to be credible, at home and abroad

CLARA FERREIRA MARQUES

Bloomberg

MOSCOW RESEARCHERS SAY one of the country's potential coronavirus vaccines has been proven safe in small-scale human trials, and is ready for wider tests. It should be a modest win for a country that has sought for years to restore its Soviet-era reputation for cutting-edge science, and for president Vladimir Putin. Yet, on Thursday, Britain, the US and Canada accused Russia of hacking international research centres that are trying to develop a vaccine. The Kremlin denies any involvement, while the head of the country's sovereign wealth fund called the allegations an attempt to tarnish the Russian research effort. It's still an accusation that jeopardizes a hoped-for inoculation boost for prestige. Old-school vaccine diplomacy might help. Even in the depths of the Cold War, Soviet and US doctors collaborated to battle polio, and later smallpox.

Russia is also not the only nation desperate to arrive at a solution fast and, preferably, first. Yet the pressure there is acute. Putin needs to lift his flagging popularity, despite a plebiscite that this month overwhelmingly approved constitutional changes that could keep him in power until 2036. The necessity has only increased with mass protests in the Far Eastern city of Khabarovsk, after the arrest of the local governor last week.

The Covid-19 outbreak has been intense in Russia, which has the fourth-highest number of cases globally. Mortality rates have been remarkably low, but new cases are still coming in at a rate of well over 6,000 a day. The economy has taken a hit. Yet the vaccine push is just as much about winning back a status tarnished by years of underinvestment, a dramatic brain drain, and allegations last year of plagiarism and other unethical practices that prompted hundreds of academic articles to be retracted.

Even before coronavirus, innovation and science were pillars of the \$400 billion development plan Putin hopes will form his legacy. Unfortunately, time

pressure and flag-waving don't always produce the best results.

For now, what we know of Russia's vaccine effort is encouraging. Sechenov University is testing a vaccine developed by the Gamaleya Institute of Epidemiology and Microbiology in Moscow, and preparing to discharge its last volunteers after the initial phase of the trial. It tracked an immune response and found the prototype to be safe. The military, which conducted a parallel trial, has made similar comments, and released its own volunteers.

Russia is not as far from AstraZeneca Plc and the University of Oxford or Chinese researchers, but it has over a dozen promising vaccine candidates, and Gamaleya's is among the front-runners, along with prototypes developed by the Vector Institute in Siberia, formerly the center of the Soviet biological weapons research.

There is still plenty we won't know, though. Data from the first phase of the Gamaleya trial is not yet public and more testing will be required. The third and final phase, which tests the vaccine's actual effectiveness with a larger cohort, would normally take six months to a year. It isn't even clear whether Russia, no longer a major vaccine exporter, can manufacture enough. Yet this hasn't tempered enthusiasm in state-run media or acts of bravura such as researchers at Gamaleya who voluntarily injected themselves with the untested prototype. Practices such as state-owned Sberbank PJSC recruiting volunteers for the Gamaleya trial among its own employees by appealing to their patriotism, are no less worrying. Or shortcuts elsewhere, as with a vague Moscow study that encouraged doctors to test the anti-malaria

drug hydroxychloroquine. The hacking allegations make it all worse.

If Russia is to reap the diplomatic and political benefits of a home-grown vaccine, it needs such a victory to be credible, at home and abroad. Following international norms and collaborating would be a start. Indeed, Putin may have no choice—large-scale trials may have to be carried out in countries where the infection rate is higher.

It still won't come naturally to a nationalist Putin administration that has long struggled to reconcile aspirations for scientific glory with a determination to tighten control. The Kremlin has sought to oversee contacts with foreign researchers and a number of academics with overseas links have been accused of treason. Other governments will now be extra wary too. Yet history suggests it can be done successfully, with the United States and others. Peter Hotez of the Baylor College of Medicine, who served as science envoy under US president Barack Obama and has written extensively on the issue, points particularly to the cooperation between US doctor Albert Sabin and Soviet virologist Mikhail Chumakov on the oral polio vaccine in the late 1950s. Relations then had thawed a little after the death of Josef Stalin, but they were still tense and competitive: Sputnik was launched in 1957. Both sides wanted to steal technological secrets.

Even so a few years later, there was collaboration again when Soviet scientists pioneered a freeze-drying technique for the smallpox vaccine. Unfortunately, today, the environment may be too toxic.

This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners

LETTERS TO THE EDITOR

Covid-19 and its after-effects

Data collated so far indicate that patients recovered from Covid-19 suffer from its after-effects and show Covid-19 as a debilitating disease. It is too early to tell how severe the after-effects are and how long they linger or last. But discharge from hospital cannot be equated with the restoration of full health for all recovered patients. Testing negative after the infection does not mean full healing and return to pre-infection normalcy for everyone. The quality of life becomes worse than before they got sick. The likely contribution of residual symptoms to long-term or chronic disabilities is one area epidemiologists are studying to gain a better understanding. The correlation between the morbidities and medical complications before and after Covid-19 too merits study. Fatigue, muscle pain, difficult or laboured breathing, fogginess and lack of concentration are found to persist in some recovered Covid-19 patients. Some recovered patients feel discomfort when they perform physical activities like climbing stairs and lifting objects; some even find it hard to chew and swallow food and speak above whispers, probably due to medical interventions including intubation. The multi-organ effect of Covid-19 is now clinically proven. The after-effects can be diverse and vary considerably from person to person. Covid-19 is essentially a severe acute respiratory disease; it damages and scars the lungs. No less serious or significant are mental health issues faced by the recovered patients. The after-effects which are now being established stress the need for continued care and treatment of Covid-19 survivors. Their bearing on the productivity of the recovered patients, family incomes and economies must pale into insignificance beside the fact that they survived the disease. — G David Milton, Maruthancode

● Write to us at feletters@expressindia.com



AMITENDU PALIT

Senior research fellow and research lead (trade and economics), Institute of South Asian Studies, National University of Singapore



ILLUSTRATIONS: ROHNIT PHORE

● SINGAPORE ELECTIONS

Continuity amidst change

Pushing for political change that is supportive of stability while expanding inclusiveness is always welcome for pluralistic societies and countries

Party, obtaining more than 11% of the popular votes. In fact, the current election, in many ways, underscored the growing competition beginning to characterise Singapore politics. Eleven parties were in the fray with some constituencies witnessing three-cornered contests. Demographically, the election

witnessed a significant rise in the number of female candidates, who would now occupy nearly one-third of seats in the Parliament. There has also been a marked rise in the young and first-timers among those elected. It is important to note that the somewhat 'anti-establishment' pattern of

votes and eventual election results, might also reflect the exceptional and unusual conditions under which the elections were held. Economically, Singapore has been hit hard by Covid-19. After two successive quarterly contractions in GDP growth, Singapore is technically in recession, with the overall GDP growth for the current year forecasted to drop to -4% to -7%. As days and weeks pass, the economic fallout of Covid-19 is becoming more prominent, with households and businesses struggling to cope up with lost revenues, disappearing incomes and displaced jobs. Notwithstanding government financial support and stimulus packages amounting to nearly 20% of the GDP, the immediate economic repercussions of Covid-19 are too strong. These might have injected some cynicism and frustrated among a section of voters. Furthermore, the pandemic also accentuates social stress, through greater hardships people and households face, in adjusting to demands of a restrictive 'new normal'. The adjustment becomes more difficult, given the uncertainty over when old habits and practices could revive again.

As the world and the region struggle to overcome Covid-19, the Singapore election conveys important lessons. Foremost among these is the importance of staying committed to established processes. Deferring scheduled activities, particularly those that are national priorities, such as general elections, shouldn't be a default option for countries and governments. It is true that systems and agencies are not prepared everywhere for carrying out elections, notwithstanding Covid-19-like conditions. But to the extent possible, going ahead with such exercises gives countries, and their people, the much-needed confidence to move on with lives and priorities, notwithstanding odds.

The other important takeaway from the Singapore election is the importance of accepting change as constructive. Countries change in several respects, many of which are almost impossible to discern given their gradual nature. Singapore's political character is changing, which is inevitable, as younger people become a larger part of voters, and social media and digital communication come to influence political narratives. Singapore's example shows that while its polity is showing signs of change by acquiring diversity, such change is not disruptive or indicative of instability. The overwhelming preference continues to be towards a political choice favouring stability and strong government. The PAP's victory affirms this in a domestic political space. Pushing for political change that is supportive of stability while expanding inclusiveness is always welcome for pluralistic societies and countries.

Infodemic during a pandemic

SMRITI VERMA
Associate director, Centre for Social and Behaviour Change, Ashoka University

Application of nudges can enhance System 2 thinking

WE HAVE RECOGNISED the spread of fake news as one of the greatest threats in our hyper-connected world. The concerns about misinformation have intensified during Covid-19. But fighting this infodemic requires a joint effort from the individuals and online service providers by increasing content monitoring and self-censorship. HIV/AIDS and TB are examples of how misinformation can have an irreversible impact on disease perception. Despite treatment availability and consistent efforts in dispelling myths, we continue to struggle with stigma and discrimination. Dedicated efforts are, thus, required to dismiss misinformation before it becomes widely acceptable.

Studies show that people find it hard to distinguish true from false online, but at the same time, people are not credulous enough to fall for every piece of information. System and cognitive biases get in the way when consuming information online. Firstly, social media platforms rely on the use of automated algorithms for content management. This creates an echo chamber, and we receive information which confirms our existing belief system. This can lead to confirmation bias; it is when an individual focuses on information that only confirms existing preconceptions and social media algorithms rely heavily on this strategy to show 'relevant' content. Secondly, the very nature of social media allows for quick sharing of information, and even before a piece of information can be labelled as 'false', it has already spread like wildfire. This phenomenon is triggered due to our inherent System 1 thinking. System 1 thinking is fast, intuitive, and an emotional response. System 2 thinking is slower, more deliberative and a logical response. System 2 thinking is needed to stop the spread of infodemic.







These platforms, thus, have a responsibility to ensure credibility. Even before Covid-19, the social media platforms had been under scrutiny to address the spread of fake news. Since Covid-19, several efforts have been made in this endeavour. However, despite these efforts, the problem is not easily surmountable. A combination of automation and human intervention is needed to keep a check on misinformation. The government needs to have legislative regulations, investigative responses and needs to counter the disinformation campaigns. For consumers, mindful sharing and distribution of content are essential. Critical thinking and digital verification skills by citizens can go a long way countering the infodemic. Additionally, application of nudges like 'cool-down period' or 'speed-bumping' into the social media platforms can enhance System 2 thinking. Cool-down period or speed-bumping is a methodology which provides a subtle signal to the consumer that the decision which would be made without pausing and deliberation, would not be the most desirable decision.

As online users, we have a crucial role to play in tackling this infodemic. Access to reliable and accurate information is critical at the best of times. Now, more than ever, we need information we can trust.

DATA DRIVE

A million infections, and 25,000 deaths

ON FRIDAY, INDIA recorded 34,000 new Covid-19 cases, and crossed the one-million mark for overall infections reported. The country now has 25,000 deaths, and is expected to cross Brazil in terms of daily infections soon. India will record 50,000 daily cases by the month-end if the government keeps widening testing. The worrying aspect for India is that despite nearly three months of lockdown, the country hasn't been able to reduce the positivity rate. The positivity rate on Friday, as India conducted 3.3 lakh tests, was 10.5%. Although several state governments have reimposed lockdowns, it remains to be seen whether India will be able to curb infections, especially given the testing strategy is still quite restrictive. As it was highlighted in the case of Delhi, relying largely on rapid antigen tests may be a serious misstep, given the high chances of recording false negatives. India, if it continues to grow at 3.5% daily, will record 1.6 million infections by month-end. The country added the newest one lakh cases in just four days, whereas it took 115 to cross the first one lakh infections. While 3.3 lakh tests are a sea-change from the levels of testing just weeks earlier—the country was testing half of this about a month ago—India's tests per thousand showing is the lowest amongst some of its peers. Brazil is testing 23 people per thousand population, the US is testing 138, whereas India is testing just 9.5.



International

SATURDAY, JULY 18, 2020



ANTI-RACIST COMPANY

Dara Khosrowshahi, Uber CEO

@dkhos

We can't let the issue of racism and systemic inequality fade from our minds or actions. We're committing to be a more actively anti-racist company - you can hold us accountable for every step we take along the way...

SHATTERS OWN DAILY RECORD

US reports over 77000 cases in a day

Number of Covid deaths in 24 hrs rose by 969 — the biggest increase since June 10 — with Florida, South Carolina, Texas reporting their biggest one-day spikes on Thursday

NYT/REUTERS
New York, July 17

THE UNITED STATES shattered its daily record for coronavirus infections on Thursday, reporting more than 77,000 new cases as the number of deaths in a 24-hour period rose by nearly 1,000, according to a Reuters tally. The loss of 969 lives was the biggest increase since June 10, with Florida, South Carolina and Texas all reporting their biggest one-day spikes on Thursday.

More than 1,38,000 Americans have died from Covid-19, a toll that experts warn will likely surge following recent record spikes in case numbers and an alarming rise in hospitalisations in many states.

The hardest-hit areas in Texas and Arizona are running out of places to store bodies as their morgues fill up and are bringing in coolers and refrigerated trailers.

US deaths peaked in April, when the country lost on average 2,000 people a day. Fatalities have steadily fallen, averaging 1,300 a day in May and under 800 a day in June before rising again in July,

Reuters tally

Deaths per day in April

US deaths peaked in the month, when the country lost on average 2,000 people a day

Deaths per day in May & June

Fatalities have steadily fallen, averaging 1,300 a day in May and under 800 a day in June

Cases per day in June & July

In June, cases rose by an average of 28,000 a day. In July, they have risen by an average of 57,625 a day



This was the 11th time in the past month that the record had been broken. The previous single-day record, 68,241 cases, was announced last Friday. (A Reuters file photo of a medical worker in protective equipment at the United Memorial Medical Center's Covid-19 intensive care unit in Houston, Texas)

according to a Reuters tally.

Americans have become increasingly divided on issues such as the reopening of schools and businesses and wearing face masks in public, hindering the fight against the virus. The current tally of 77,217 cases surpasses the previous record set on Friday when cases rose by 69,070. In June, cases rose by an average of 28,000 a day, according to a Reuters tally. In July, they have risen by an average of 57,625 a day.

On Thursday, Texas reported over 15,000 new cases, according to a Reuters tally of county data, while Florida reported nearly 14,000 new cases and California almost 10,000.

Dr Anthony Fauci, the government's top infectious diseases expert, has warned that cases could soon top 1,00,000 a day if Americans do not come together to take steps necessary to halt the spread of the virus.

This was the 11th time in the past

month that the record had been broken. The previous single-day record, 68,241 cases, was announced last Friday. The number of daily cases has more than doubled since June 24, when the country registered 37,014 cases after a lull in the outbreak had kept the previous record, 36,738, standing for two months.

It's not just cases that are breaking records, so are deaths. Florida on Thursday reported 156 new fatalities, its highest number. It was one of 10 states to reach a record for deaths in a single day this week, joining Alabama, Arizona, Hawaii, Idaho, Montana, Oregon, South Carolina, Texas and Utah.

As cases have soared, cities and more than half of the states are issuing mask requirements to try to stop the spread. Governor Asa Hutchinson of Arkansas, a Republican, announced a face covering requirement on Thursday, after previously taking a more hands-off approach. Governor Jared Polis of Colorado, a Democrat, also issued a mask order on Thursday, after questioning whether such a mandate would be enforceable.

Dr Fauci said in an interview on Thursday on Facebook with its chief executive, Mark Zuckerberg, that after its initial peak, the nation never succeeded in driving the virus beneath a plateau of about 20,000 new cases a day.

"What I think we need to do, and my colleagues agree, is we really almost need to regroup, call a timeout — not necessarily lock down again, but say that we've got to do this in a more measured way," Dr Fauci said. "We've got to get our arms around this and we've got to get this controlled."

Netflix promotes content chief to co-CEO; adds 10 million subscribers

ASSOCIATED PRESS
New York, July 17

NETFLIX ADDED A flood of new subscribers amid the coronavirus pandemic and also offered clues to a possible successor for founding CEO Reed Hastings, who on Thursday named the company's chief content officer, Ted Sarandos, as co-CEO.

But it was investor disappointment in the outlook for new subscribers that helped drive down the stock 9% to \$480.70 in after-hours trading.

Sarandos, who joined Netflix over 20 years ago, will also join the Netflix board of directors. "Ted has been my partner for decades. This change makes formal what was already informal — that Ted and I share the leadership of Netflix," said Hastings in a statement. In a post-earnings video conference, Hastings nonetheless said he planned to stay with the company for the next decade and added the setup meant the pair would serve as "full-time" executives, rather than two part-time CEOs splitting the role.

The company picked up 10.1 million worldwide subscribers during the April-June period, more than triple what it usually adds in that period. The increase announced on Thursday with Netflix's second-quarter earnings eclipsed the gain of 8.3 million subscribers projected among analysts polled by FactSet. Netflix ended June with 193 million worldwide subscribers, including 70 million in the US and Canada, its largest geographic market. Nearly 26 million of those subscribers have joined Netflix during the first



Netflix CEO Reed Hastings, left, poses with chief content officer Ted Sarandos at a news conference in Seoul. AP FILE PHOTO

six months of this year — more than double the number compared with last year — as the pandemic curtailed travel and even nights out on the town. The restrictions have turned out to be a boon for Netflix, which also faces a slew of new streaming competitors such as Disney Plus and HBO Max.

Netflix, however, said its subscriber growth had begun to slow following the "initial shock of Covid and social restrictions" after it added just 2 million fewer customers in the past six months as it did for all of 2019. It forecasts just 2.5 million new additions for the current quarter.

The pandemic has shut down Hollywood, limiting the ability of TV and movie studios to produce more entertainment to feed Netflix and other video streaming services. That could limit their appeal if viewers run out of new things to watch.

Goldman predicts US may have a Covid vaccine by end of year

THE FIRST VACCINE for Covid-19 could be available in the US later this year, Goldman Sachs analysts forecast.

The potential for Moderna to file interim results with US regulators from a 30,000-patient trial due to start by July 27 is underappreciated, analysts led by Salveen Richter said. The chances of success in 2020 are enhanced further by four other vaccine programmes slated to enter into the final research phase of testing sometime this summer, according to Goldman.

Those experimental inoculations expected to start large-scale testing this summer are from Pfizer in partnership with BioNtech SE; AstraZeneca with University of Oxford; Inovio Pharmaceuticals and Sinovac Biotech.

How quickly a vaccine could win regulatory approval has been the subject of much debate on Wall Street, especially as analysts weigh the political implications if one were to come before US November elections.

Russian attempts to hack into international research centres that are racing to develop a Covid-19 vaccine threaten to further darken that contest.

Moderna and Pfizer's RNA-based vaccines may be the first to pass regulatory hurdles while appearing the most promising for broad use in a larger population, Richter wrote in a note to Goldman clients. —BLOOMBERG

Quick View

British Airways is grounding its fleet of 747 Jets for good

BRITISH AIRWAYS, THE world's biggest operator of Boeing 747-400s, is retiring its entire fleet of the jumbo jets with immediate effect because of the damage the coronavirus has done to air travel. The carrier's 31 Boeing 747-400 planes could seat 345 passengers in four classes.

BlackRock quarterly profit jumps 21%

BLACKROCK, THE world's largest asset manager, reported a 21% jump in quarterly profit on Friday, as investors poured money into its fixed-income funds and cash management services.

Nestle narrows bidders for Yinlu Foods Unit

Food and beverage companies China Resources Beer, Tingyi Cayman Islands and Dali Foods Group are among suitors selected for the next round of bidding for Nestle's Chinese unit Yinlu Foods Group, sources said.

MAPPING THE VIRUS

Cases top 13.8 million
Deaths top 590,000
Recoveries 7.57 million

- US virus relief set to vanish in series of fiscal cliffs
- Childhood Covid-19 infections mount with schools eyeing openings
- Vaccine hack shows dark side of world desperate for Covid relief
- Singapore tightens rules for some travellers
- EU publishes list of states spared travel ban
- Marinomed drug effective in pre-clinical trials

The European Union is negotiating advance deals for vaccines with companies including Moderna, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNtech and CureVac, Reuters reported. The talks are most advanced with Johnson & Johnson and Sanofi, the news agency said.



Imperial College's Covid-19 vaccine trial will progress to its next stage, the university said in a statement on its website. Some 105 participants between the ages of 18 and 75 will be randomized to receive their first shot of one of three doses of the vaccine at a west London facility, followed by a booster four weeks later.

New York hospitalizations dropped to a four-month low, as fewer than 1% of residents tested Thursday were positive for coronavirus. Governor Andrew Cuomo reported an additional 776 cases, bringing the total to 405,551, the most in the nation.

President Trump's handling of the coronavirus outbreak has the approval of 38% of Americans, down from 46% in May and 51% in March, according to the latest Washington Post-ABC poll. More than half of the public, or 52%, now disapproves "strongly" of Trump's handling of the outbreak.

Prime Minister Boris Johnson relaxed work-from-home guidance, putting him at odds with his top scientific adviser as he seeks to pump life into the economy. Anyone will now be able to use public transport, Johnson said in a televised press conference, marking a change from guidance to avoid it where possible. And from Aug. 31, he said employers will have "more discretion" on bringing staff back into offices.

HSBC sheds top talent as global equities boss leaves

REUTERS
London/Hong Kong, July 17

HSBC'S GLOBALEQUITIES chief Hossein Zaimi is leaving the bank, two sources with direct knowledge of the matter said on Friday, in the latest revamp of the lender's troubled investment banking operations.

Hong-Kong-based Zaimi, who has worked at HSBC for more than 16 years, took up a supplementary position as co-global head of securities financing in March, shortly after the bank unveiled plans to shrink its Global Banking & Markets division and axe tens of thousands of jobs.

Zaimi could not immediately be reached for comment. A spokesman for HSBC declined to comment.

Zaimi's exit is expected to be followed by other departures in Asia in the coming weeks, showing that Chief Executive Noel Quinn's cost-saving drive is extending to some of the bank's most profitable markets.

Until now, the bulk of HSBC's headcount cuts have come in Europe and its global headquarters in London's Canary Wharf.

HSBC had originally postponed restructuring of its 235,000-strong workforce in March, citing the extraordinary circumstances of the COVID-19 pandemic.

On June 16, it told staff it would resume its programme for redundancies as part of a plan to streamline its global footprint, boost earnings and compete more strongly with rivals, many of which have delivered more attractive returns to shareholders in recent years.

Adrian Lewis, the bank's Equity Capital Markets head in EMEA, has also decided to quit to pursue opportunities outside the banking industry, one of the sources said.

Andrew Robinson, head of EMEA equity syndicate, will succeed Lewis and report to Ed Sankey, who took charge of global ECM in June last year.

Lewis' move was first reported by IFR.

Apple to gain a new Chinese iPhone maker during a trade war

DEBBY WU
Taipei, July 17

LUXSHARE PRECISION INDUSTRY is acquiring Wistron Corporation's iPhone production business in China via a \$472-million deal, potentially becoming the first mainland company to win a coveted role assembling Apple's device during US trade tensions.

Taiwan-based Wistron, one of just three contract manufacturers that assemble Apple's iPhones, said Friday it's agreed to sell two subsidiaries in eastern China for 3.3 billion yuan to Luxshare. One of those units, based in the city of Kunshan, is Wistron's sole iPhone manufacturing site, according to people familiar with the company's business. The deal is a win for Luxshare, which produces accessories and components from cables and chargers to antennas but is also the world's biggest manufacturer of Apple's AirPods — a lucrative business that helped



Luxshare Precision Industry is acquiring Wistron Corporation's iPhone production business in China via a \$472-million deal

the company become one of 2019's top Asian stock performers. Apple in turn has sought a mainland Chinese partner in part to broaden local sources during a trade war.

A Wistron representative said the Kunshan site being sold to Luxshare makes

smartphones, notebooks and connected devices, and the company will shift production of some of those products elsewhere in China. She declined to comment on the iPhone business. An Apple representative didn't immediately respond to an emailed request for comment.

Luxshare and other contract manufacturers have long sought to compete in assembling Apple's most profitable device. Wistron is the smallest of three iPhone assemblers, lagging behind Pegatron Corp. and Hon Hai Precision Industry, the company also known as Foxconn. Wistron continues to assemble cheaper iPhones in India.

"With the acquisition of the Wistron's iPhone unit, Luxshare can now become an iPhone assembler," GF Securities analyst Jeff Pu said. "This will first pose a threat to Pegatron's iPhone business in China." The deal is slated to be completed by year's end pending regulatory approval, Wistron said in an emailed statement. —BLOOMBERG

Tesla keeps adding China users with registrations hitting record

VILLE HEISKANEN
Singapore, July 17

TESLA KEPT GAINING users in China last month, with registrations of its electric vehicles jumping to a record in the world's largest market as the coronavirus outbreak receded.

In June, 14,976 China-built Teslas were registered in the country, according to data from state-backed China Automotive Information Net. That's a 32% increase from May and the highest monthly number so far for the carmaker, which is ramping up output after starting deliveries from its Shanghai plant around the beginning of the year.

While the broader Chinese auto market is recovering slowly from a two-year slump, wealthier buyers are drawn to Tesla's brand cachet. The EV market leader's sales now approach a quarter of the total tally for the category, the China Passenger Car Association said this month, making life difficult for a slew of local upstarts trying to get their businesses off the ground. Through June, there were 49,761 Teslas registered in China.



Tesla Gaining Ground Pushes China EV Bubble Toward Bursting

Success in China is crucial to Palo Alto, California-based Tesla's valuation. Its shares have more than tripled this year partly on expectation of rising sales beyond its domestic market. The company displaced Toyota Motor as the world's most valuable automaker this month, highlighting investor enthusiasm for its attempt to transform an industry that's relied on internal-combustion engines for more than a century. —BLOOMBERG

Hackers targeted just 130 people in cyber-attack: Twitter

KURT WAGNER
San Francisco, July 17

TWITTER REVEALED HACKERS targeted just 130 accounts during the cyber-attack this week that compromised some of the world's most recognisable people, though no passwords were stolen.

The US company said the still-unknown perpetrators had gained control of a subset of those accounts and were able to send tweets. Twitter has blocked data downloads from affected accounts as its investigation continues, it said on its online support page.

"We're working with impacted account owners and will continue to do so over the next several days," the company said. "We are continuing to assess whether non-public data related to these accounts was compro-

mised, and will provide updates if we determine that occurred."

Details are trickling out about the hack that affected global political and business leaders, including Democratic presidential candidate Joe Biden, former President Barack Obama and Tesla CEO Elon Musk. Those who gained access to the accounts used them to attempt a bitcoin scam, sending tweets asking for people to give them money in exchange for a bigger payment in return.

Twitter is grappling with the worst security breach in its 14-year history. It's said the hack was part of a "coordinated social engineering attack" that targeted its own employees. That granted hackers access to some of the company's internal systems, and then high-profile user accounts, it said.



Twitter said the still-unknown perpetrators had gained control of a subset of those accounts and were able to send tweets

That forced Twitter to temporarily halt verified accounts from sending any tweets.

Twitter's still probing how the attack was carried out and has not disclosed if any other

information from the accounts -- such as data like private messages -- was compromised. The company's explanation so far has ignited speculation over the identity of the perpetrators and what they were actually targeting in the attack. The scale of the endeavour and its timing — months before the November US elections — have prompted some cybersecurity experts to theorize that the attack masked a more nefarious campaign to seize sensitive data.

Some people who changed their passwords in the past 30 days may still be blocked from accessing their accounts, the company said earlier, but that doesn't mean those accounts were compromised.

"We have no evidence that attackers accessed passwords," Twitter said in an update Thursday. —BLOOMBERG

Motobahn

SATURDAY, JULY 18, 2020



A DESIGN AHEAD OF ITS TIME

Anupam Thareja, Co-Founder, Classic Legends

When we set out to build the Perak, the goal was simple—to create a motorcycle with the right blend of exclusivity, individuality and performance, with a hint of sinister and dark. Built on the idea of India's first factory custom, the Perak is just that.

And the car world is going electric



NISSAN ARIYA ELECTRIC

Nissan's first all-electric crossover SUV will have autonomous driving features. It has an estimated driving range of up to 610 km (based on Japan WLTC cycle) on a full charge. It's unlikely to come to India any time soon.



VW ID.3 ELECTRIC

It will be available in seven models, and is priced between euros 35,000-48,000 (not including subsidies). The driving range is 420-550 km, depending on the model.

GHIBLI HYBRID

It's the first electrified vehicle in Maserati's (Italian supercar company) history. It will be produced in Turin from next September; it is unlikely to come to India.



SPEED DEMON

Why Audi is betting on RS

The German carmaker says it will launch more RS models in India this year

VIKRAM CHAUDHARY

THIS WEEK AUDI India launched a ₹1.94 crore supercar, the RS Sportback. This five-seater coupé-like grand tourer has a 4.0-litre twin-turbo TFSI petrol engine that produces 600 horsepower and delivers 800Nm torque, propelling this monster of a car from 0-100 km/h in just 3.6 seconds. Audi India also said during the launch that the RS 7 Sportback isn't the only RS model scheduled for 2020, implying more such cars will be launched.

But is there market for such expensive supercars during a slowdown, and why is Audi betting big on the RS?

Balbir Singh Dhillon, the head of Audi India, says that the company has seen good demand for its RS models. "This is evident from the 5,000-plus unique interactions, where audiences have interacted with AR and the 360-degree Product Visualizer (on the company website) for the RS 7 Sportback in a span of 24 days since we opened bookings prior to the launch," he says.

Moreover, supercars sales aren't really impacted by slowdowns. In CY 2019, Lamborghini, the Italian supercar maker, for instance, sold roughly one unit every week of the ₹3 crore-plus Urus SUV in India.

Apart from sales, an important function such supercars serve is strengthening the brand. "Performance cars are brand-builders and have been very well received by our customers and potential buyers. These are also a hit with enthusiasts who may not be buyers immediately, but are aspirational," Dhillon adds.



The new range of Range Rover

JLR unveils 2021 Range Rover, Range Rover Sport



FE BUREAU

THIS WEEK TATA Motors-owned luxury carmaker Jaguar Land Rover (JLR) unveiled its Model Year (MY) 2021 Range Rover and Range Rover Sport, including with the new mild-hybrid engines. The range includes the 50th-anniversary special editions. For India, the Range Rover will be available in standard wheelbase (SWB), long wheelbase (LWB) and special edition options.

The special edition models include the Range Rover Fifty, Westminster editions and SVAutobiography Dynamic Black. The Range Rover Fifty will be limited to 1,970 units globally to mark the 1970 birth year of the model. On the Range Rover Fifty, JLR said, "Models like these are designed to celebrate a landmark event. As a business, we need to make a case for the investment behind each and every model we create, whether that be judged against financial or any other relevant criteria. This gives the customer a value-proposition—more content for lower investment on their behalf."

The India-specific MY 21 Range Rover (SWB/LWB) has two engine options: 3.0-litre P400 mild-hybrid petrol engine and 3.0-litre D300 mild-hybrid diesel engine. The derivatives in the SWB are Vogue, Vogue SE and Autobiography, and those in LWB are Vogue, Vogue SE, Autobiography and SVAutobiography. The special editions (only on LWB) include the Westminster, Westminster Black and Range Rover Fifty.

The India-specific MY 21 Range Rover Sport has three engine options: 2.0-litre petrol, 3.0-litre mild-hybrid diesel, and 5.0-litre supercharged petrol (with a power of 575 PS). The prices of all these models will be announced shortly.



The junior Nissan

THIS WEEK Nissan India named its upcoming compact SUV (under 4 metres in length) as Magnite.

A portmanteau of the words 'magnetic' and 'ignite', it will be launched in this financial year (likely early 2021) and will compete against Hyundai Venue, Tata Nexon, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Honda WR-V, among others, so the starting price of the Magnite is likely to be in the range of ₹6-7 lakh, ex-showroom.

—FE BUREAU

Investor

WIPRO RATING: HOLD

Margin expansion highlight of Q1FY21

Growth outlook remains fuzzy; FY21e EPS up c5% given rise in Ebit margin estimate; 'Hold' retained with TP going up to ₹230

WIPRO'S Q1FY21 RESULTS were a further reinforcement of our theory of the operating resilience of the IT sector in a weak demand environment. The company reported more than a 7% decline in revenues for Q1 (not much different from TCS) but still expanded margins significantly by ~150bps q-o-q (IT services). However, its growth outlook remains uncertain, especially in the near term. The strategy of the new CEO is still a work in progress, and we await hearing more on his go-to-market strategy.


The key issue for Wipro remains client-mining, in our view, and the new CEO's strategy to address this weakness will likely be keenly observed. In the near term, management remained confident on margin sustenance but was not committal on a growth recovery (for Q2 or beyond).

Q1FY21 highlights

Margin expansion was led by the nearly 100bps benefit from operational efficiencies (lower variable employees, automation and better utilisation);



Wipro lags peers in client-mining ability, which shows in number of clients with revenues of \$100m-plus; new management team's approach to rectifying this will be key to watch



Source: Company reports; HSBC

favourable currency (nearly 100bps); lower travel costs; and decrease in variable employees. While some costs are likely to bounce back, management seemed confident of maintaining them in a narrow band. Bad debt provisioning and CSR spends were higher in Q1 and should be a tailwind in the coming quarters.

Sequentially, revenues for the Communications (down 16.2% q-o-q, cc) and Consumer business unit (down 12.4%) fell the most; however, they have stabilised in Q2, according to management, along with revenues for the Technology vertical. However, nearly 70% of the remaining business continues to face uncertainty.

The moderation in utilisation levels, increase in variable payouts and investments in growth should limit significant margin expansion from the current levels. Any potential business restructuring by the new CEO could further be a risk to margins in near term. We already factor in a ~30bps y-o-y increase in FY21 margins in a weak demand environment.

Retain Hold but raise TP to ₹230

We increase our Ebit margin estimate for FY21e by 50bps, leading to a rise of c5% to our EPS estimate for FY21e. Wipro has lagged peers in growth for a while, and we await an upgrade to its growth profile before we would expect it to bridge the gap in valuation to peers.

HSBC



STEEL AUTHORITY OF INDIA RATING: REDUCE

Sharp rise in stock price unjustified


Q4 Ebitda slightly below estimate; earnings likely to be under pressure; Reduce retained

STEEL AUTHORITY OF INDIA'S (SAIL'S) Q4FY20 Ebitda (adjusted for one-offs) of ₹16.5 bn fell 25% y-o-y. Key highlights: (i) Ebitda/t (adjusted) at ₹4,420/t was aided by higher realisation; (ii) sales volume fell 9% y-o-y to 3.74mt primarily due to lockdown-related impact; (iii) gross debt rose to a record ₹51.2 bn. We believe the recent sharp uptick in the stock price is unjustified by fundamentals as: (i) Inven-

tory is unlikely to fall owing to limited sales of sub-grade iron ore fines; (ii) debt is estimated to rise to ₹542 bn by FY21-end; (iii) receivables locked up with Indian Railways. Maintain **Reduce** with TP of ₹28 (exit multiple of 0.35x FY22e BV).

Ebitda slightly below estimate: Highlights: (i) Blended realisation of ₹43,304/t (down mere 3% y-o-y) surpassed estimate; (ii) operating expenses

Record-high gross debt is a major concern



Source: Company data, Edelweiss research

midable task as: (i) Sales of sub-grade iron ore fines likely to be spread over four-five years; (ii) receivables expected to be elevated; (iii) high interest cost and capex commitment of ₹40 bn each; (iv) gross debt likely to swell to ₹542 bn in FY21e. Hence, leverage is likely to remain at an elevated level.

Outlook: Challenges persist—SAIL's relative performance is likely to remain subdued compared to peers owing to high-cost structure and lower realisation & volumes. Additionally, high leverage and capex commitments are likely to keep cash flows constrained. The stock is trading at 13.4x FY22e Ebitda. We maintain 'REDUCE/SU'.

EDELWEISS

NEW-AGE JAWA

India's first factory custom bike

Deliveries of the Jawa Perak will start from July 20



VIKRAM CHAUDHARY

IT'S A MOTORCYCLE that reminisces the past, and yet its design is ahead of its time. Classic Legends, which reintroduced the Jawa brand in India in late-2018 and sells the Jawa and the Forty Two motorcycles, will now start the deliveries of the Perak from July 20 onwards.

The Perak gets a bigger engine (334cc) as compared to other two Jawa motorcycles (293cc), and is priced ₹1,94,500, ex-showroom, Delhi. The company is offering special finance schemes with the Perak to make owning one easy. These include 50% off on first three EMIs, a special EMI plan at ₹6,666 per month, and 100% funding and zero down payment options.

Classic Legends says that the time during the lockdown was spent "fruitfully by the Perak product team as they managed to crank up the torque by nearly 2 Nm from its earlier 31 Nm." The Perak now produces 30.64 PS of maximum power and 32.74 Nm of peak torque, breathing out through signature twin Jawa exhausts chopped for the authentic bobber stance.

Higher torque translates to better pulling power, both from standstill and rolling acceleration. The engine is mated to a six-speed gearbox.

The Perak is a bobber, which is a style of a custom motorcycle in which excess bodywork is removed to either make it look unique or enhance its performance. So, as compared to, let's say, the Jawa and the Forty Two, in the Perak the front and rear fenders are smaller, the exhaust pipe chopped, and there is just one seat that kind of hangs/floats in the air, giving it a very distinctive road presence. The company says the Perak is India's first factory custom motorcycle.

Anupam Thareja, co-founder, Classic Legends, said in a press note, "When we set out to build the Perak, the goal was simple—to create a motorcycle with the right blend of exclusivity, individuality and performance, with a hint of sinister and dark. Built on the idea of India's first factory custom, the Perak is just that."



Markets

SATURDAY, JULY 18, 2020

EXPERT VIEW

The near-term outperformance of Infosys has caused the discount of Infosys as compared to TCS to reduce, and the valuation gap could go down to as much as 10% going ahead

— Apurva Prasad, HDFC Securities


Money Matters

G-SEC


The benchmark yield fell 0.009% due to buying support



The rupee ended higher on gains in equities and a weaker dollar



The euro rose against the dollar



Quick View

Federal Bank gets RBI nod for MD & CEO reappointment

FEDERAL BANK ON Friday said it has received the Reserve Bank of India's approval for the reappointment of Shyam Srinivasan as managing director and chief executive officer till September 22, 2021. Srinivasan took charge as MD and CEO of the bank on September 23, 2010. In a regulatory filing, Federal Bank informed the stock exchanges that it received RBI's nod on "July 16, 2020, for the reappointment of Shyam Srinivasan as the MD and CEO of the bank, with effect from September 23, 2020, (the completion of the present term of office) till September 22, 2021 along with remuneration as proposed by the bank".

UCO Bank to focus on agri, MSME lending

UCO BANK HAS redesigned its strategies to align with the government's 'Aatmanirbhar Bharat' initiative, with enhanced focus on lending to retail, agri and MSME sectors amid COVID-19 crisis, according to its annual report. In its 2019-20 annual report, the bank said it is expecting the various technological initiatives for customer convenience to yield "good results" in coming months.

Wild Stock, proprietor banned as investment advisors

SEBI HAS BARRED Wild Stock and its proprietor Sanjeev Singh from carrying out investment advisory activities after finding they were providing unauthorised tips to investors.

Banks boost holdings of corporate notes to record high: RBI data

ANURAG JOSHI
Mumbai, July 17

INDIAN BANKS BOOSTED their holdings of rupee notes from companies to an all-time high recently, in a sign that policy measures aimed at boosting funding to companies during the pandemic are working.

Total holdings of corporate bonds and commercial paper held by local banks surged to a record of almost ₹7 trillion (\$93 billion) in late May, data from the Reserve Bank of India this week show. The central bank extended a \$50 billion emergency credit line to lenders in March to spur them to boost financing to companies squeezed by the pandemic and an economic contraction caused by steps to contain it.

Indian borrowers have been rushing bond deals to market in recent weeks, after government and central bank measures to support companies pushed the average yield on rupee notes to the lowest since

SENSEX SOARS 548 POINTS

RIL, HDFC Bank drive markets

FE BUREAU
Mumbai, July 17

INDIA'S STOCK MARKETS bucked the global trend on Friday and rallied for the second straight session to end the week with gains. Indian equities were helped by the strong upward movement in Reliance Industries and HDFC Bank. The benchmark Sensex rallied 548.46 points or 1.5% to close at 37,020.14. The broader Nifty rose 161.75 points or 1.71% to close at 10,901.7.

After a volatile trading week, the Indian markets ended higher by 1.2% for the fifth straight week. Nifty Bank broke the four-week winning streak and declined by 1.9%. The stock markets, despite the rising coronavirus cases and fresh lockdowns being imposed in several parts of the country, rose on the back of upbeat sentiments in global markets with respect to a Covid-19 vaccine. Sanjeev Zarbade, vice president - private client group, Kotak Securities said, "Hopes of an early launch of Covid-19 vaccine kept global market sentiments positive. Although the Sensex remained volatile, it managed to gain 1.1% in the current week. Rising Covid-19 cases, but better than expected Q1 fiscal year 2021 IT sector results, led by Infosys, buoyed investor sentiment."

The stock markets in Friday's session traded firmly in the green and gained the most in the last hour of trade closing at the high point of the session. Nifty broke the 200 day moving average (DMA) and settled at 10,901.7. Nagaraj Shetti, technical research analyst, HDFC Securities, said, "The breakout of 200 DMA shows that the market is in a strong momentum phase, the markets are euphoric and could reach the 11,100 to 11,250 mark and given the strong momentum that the markets are witnessing it could happen in the next one to two weeks. The broader markets have reduced participating and the upmove has



been led by a few large stocks that have participated continuously."

The stock markets were supported by the gains in the heavyweights Reliance Industries and HDFC Bank. The shares of HDFC Bank rose by 3.84% during Friday's session to close the day at ₹1103.7. The rally in the HDFC Bank stock comes ahead of its Q1 results that the bank will report on Saturday. Financial stocks have been under duress ever since the stock markets crashed in March. The banking stocks have been under pressure and have underperformed the Nifty since April due to the

growing concerns on asset quality, impact of loan moratoriums and economic recession on them.

According to a report by Motilal Oswal Institutional Equities, the banking sector earnings are likely to remain muted due to Covid-19 related lockdown and its impact on growth and asset quality. "While the moratorium or standstill benefits continue, we expect banks to further strengthen their balance sheets by making healthy provisions. Moreover, declining interest rates along with higher liquidity on the balance sheets should keep margins under pressure (nearly 10-20 basis points for private banks)," said Motilal Oswal Institutional Equities in its report.

Foreign Portfolio Investors (FPIs) have remained sellers throughout the month of July pulling out \$569.45 million in total from Indian equities. FPIs on Thursday sold stocks worth \$143.5 million and domestic institutional investors bought stocks worth \$218 million. The markets on Friday saw a turnover worth ₹10.75 lakh crore in futures and options segment against the six month average of ₹14.9 lakh crore, according to NSE data.

Stock markets in Europe were trading flat as the EU summit to discuss the post pandemic recovery fund was underway. Stock markets in Germany and the United Kingdom were up by 0.2% to 0.5%. The bourse in France was down by 0.2%. Dow Jones Mini Futures were up by 121 points at the time of press. Asian markets gained during Friday's session with stock markets in China, Hong Kong and South Korea trading 0.1% to 0.8% higher. The biggest gainers on Nifty were BPCL, ONGC, Bharti Infratel, GAIL and Reliance Industries, up by 12.43%, 5.84%, 4.32%, 4.08%, and 3.94% respectively. The biggest losers were Hindalco, Britannia, Nestle, TCS, and Dr Reddy's Laboratories, which lost 1.9%, 1.86%, 1.47%, 1.2%, and 0.8% respectively. Nifty Midcap and Nifty Smallcap rose by 1.3% each.

BoB raises ₹764 cr by issuing Basel III compliant bonds

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 17

BANK OF BARODA on Friday said it has raised ₹764 crore by issuing Basel III compliant bonds on a private placement basis.

The bank has issued and allotted unsecured rated listed subordinated non-convertible fully paid-up Basel III additional tier 1 perpetual bonds, it said in a regulatory filing. The bond carries coupon rate of 8.25%. Perpetual bonds carry no maturity date and hence may be treated as equity, not as debt.

The public sector bank said the issue of the bond opened on July 15 and closed on the same day, while the allotment was done to a total of 18 allottees on July 17, 2020. To comply with Basel-III Capital Regulations, banks need to improve and strengthen their capital planning processes. These norms are being implemented to mitigate concerns on potential stresses on asset quality and consequential impact on performance and profitability of banks.

Indian banking system has been implementing Basel III standards in phases since April 1, 2013. The banks were expected to fully implement these norms by March 2020.



Policies need to be made to support economy amid Covid: RBI ED

FUTURE ECONOMIC POLICIES need to be tailored towards supporting the economy, depending on how effects of pandemic play out, RBI executive director M Rajeshwar Rao said on Friday. He said the first set of responses from the Reserve Bank of India was to ensure that the markets continue to function and ensure solvency in the financial sector.

Several measures, including reduction in cash reserve ratio, special finance facility, ITR0 and TLTRO were announced, he said at a webinar organised by Assocham.

As a result of various measures, he said, the RBI injected around ₹6.5 lakh crore liquidity in the banking system during the pandemic. Going forward, he said, "We need to see how the impact is going to be there on the economic activities of various players, and once we get a fix on this issue, perhaps the policy responses could be appropriately tailored. We have to see how the situation evolves and based on evolving situation the policies could be suitably modified."

Valuation gap between Infy & TCS narrows after Q1 show

URVASHI VALECHA
Mumbai, July 17

SHARES OF INFOSYS rose 28.3% in just a month, and this rally has narrowed the valuation gap between Infosys and its larger peer TCS. Infosys is now trading at a one-year forward price earnings (PE) multiple of 21.4 times. This is at 21% discount to Tata Consultancy Services (TCS).

Infosys rallied after the company announced its results and the valuations of the company are inching closer to that of TCS, which trades at a forward earnings multiple of 25.9 times. The valuation difference of 21% currently between Infosys and TCS has declined from the premium of 33.3% that TCS commanded in 2019. The discount is currently closer to that seen in 2017. The valuation gap has been reducing for quite some time and according to market experts it is expected to reduce further. Apurva Prasad, institutional research analyst - IT, HDFC Securities said, "The near-term outperformance of Infosys has caused the discount of Infosys as compared to TCS to reduce and the valuation gap could go down to as much as 10% going ahead."

Better than expected numbers of Infosys in the first quarter of the new fiscal were cheered by the stock markets. Infosys reported a sequential decline in revenue of 2% on a constant currency basis. Kotak Institutional Equities, in its report, stated that the reason for outperformance of Infosys in the current quarter could be due to the lower supply side impact of 0.2% of revenues and ramp up of strong new deals won in the fourth quarter of fiscal year 2020. The company's portfolio of banking clients may not have cut spending, better execution and market share gains along with exposure to high growth, hi-tech vertical accounts have also helped the company's performance this quarter, according to a report by Kotak Institutional Equities.



Additionally, the software services major is also reaping benefits of the measures it undertook in the last two years. The company started ramping up its digital capabilities, moved towards automation, improved its operating structure - onshore and offshore, localisation, coupled with large deal renewals have helped the company perform better over a period of time. "In the last two years, Infosys started investing in localisation, which has started to help the company now. Additionally large deal renewals in addition to the largest ever deal with Vanguard, largely stable accounts, improved operational rigour due to improved operating structure - onshore and offshore, automation among others has helped Infosys perform better," said Prasad.

On the other hand, TCS' performance was poor in comparison to Infosys and missed the Street's estimates. Another analyst at a domestic brokerage said, "Infosys has delivered good growth over the last few years except in FY 19 when TCS reported double digit growth, but when it comes to margin management, TCS fares better."

Most market experts and brokerages have raised the target price of Infosys, even though the stock has had a decent rally in the view that there is more potential going ahead. "We raise FY2021-23E EPS by 7-8% and raise our Fair Value to ₹950, valuing the stock at 20 times (~18 times earlier) June 2022E earnings. Buy stays," said Kotak Institutional Equities in its report.

Life insurance firms raise premiums for term plans

FE BUREAU
Mumbai, July 17

SEVERAL LIFE INSURANCE companies have increased premiums for term insurance plans in the past few months. Industry participants expect a further surge in term plan premiums going forward as many insurers are likely to increase the premiums by around 20%.

According to the life insurance industry players, the increase in term plan premiums were changed after increase in re-insurance premiums.

"Many insurance companies have increased the rates in the range of 20-35% since April this year. But many insurers did not increase the rates, and they can increase the rates by 20% in the next few months," said a senior official from the life insurance industry.

The data from Policybazaar website shows that for a 30-year-old with sum assured of ₹1 crore and life cover upto 80 years, the insurers have increased the rates since start of this financial year. Data shows that ICICI Prudential Life Insurance had premium of ₹14,697 in March 2020 which has been increased to ₹20,208 in July. While premium for HDFC Life term plan in July stood at ₹17,563 compared to ₹14,626 in March this year.

Reinsurance companies had announced increase in premium rates because of higher than expected mortality deaths across insurance companies in India. In the past few months investors have been buying term insurance after the rise in the novel coronavirus in India. Term plans are the simplest form of insurance and provides large sum assured with lower premiums compared to endowment plans.

Industry players believe that the



Industry players believe the surge in premiums for term plan is only due to the changes in re-insurance premiums and not because of the ongoing pandemic

surge in premiums for term plan is only due to the changes in re-insurance premiums and not because of the ongoing pandemic. Prashant Tripathy, managing director and CEO at Max Life Insurance says in term plans prices are determined by the mortality experience and premiums were perhaps cheapest in the world.

"There was a need to change the prices and they have not gone up drastically. Even now term plans are extremely affordable. Again, we have to see how Covid-19 impacts the overall claims experience. Having said that I am not expecting the pandemic to make significant impact on claims experience. So I am not anticipating over the short period of time large increase in the term plans at all," said Tripathy.

SBI talent being rewarded beyond banking sector

ANKUR MISHRA
Mumbai, July 17

THE RESERVE BANK OF India may have taken note of the role that the State Bank of India (SBI) played in the revival of troubled Yes Bank at the economic conclave organised by the bank, but the man who spearheaded the investment in Yes Bank, has a new assignment.

FE has learned that Hari Krishna Jena, who was deputy managing director (DMD) at SBI and instrumental in appraising SBI's investment in Yes Bank, will now head Clearing Corporation of India (CCIL).

He will take over as managing director (MD), CCIL from August 1, 2020. Similarly, the board of governors of the New Development Bank (NDB) has appointed former DMD of SBI, Anil Kishora, as vice president of the bank last month.

Jena started his career with SBI as a probationary officer (PO) from the 1985 batch. Apart from various roles taken in the largest public sector bank, Jena was also part of few committees of RBI.

He was a member of working group to review the regulatory guidelines and supervisory framework applicable for core investment companies (CIC).

FE has learned that Hari Krishna Jena, who was deputy managing director at SBI and instrumental in appraising SBI's investment in Yes Bank, will now head Clearing Corporation of India

Likewise, Anil Kishora worked in India's largest bank for about 38 years. Before joining the NDB, he was responsible for managing SBI group's operational, market, credit, cyber, information security and other risks.

Earlier this year in February, Sanjiv Chadha was appointed as managing director (MD) and chief executive officer (CEO) at Bank of Baroda.

Chadha, who was DMD in State Bank of India, was appointed to the new post for a period of three years.

Another SBI official, Hardayal Prasad on Thursday stepped down as the MD and CEO of SBI Cards.

He will cease to be the MD & CEO of the company from July 31. Hardayal Prasad played a key role for the initial public offer (IPO) of SBI Cards and Payment Services. He has not disclosed about his new assignment.

ANALYST CORNER

Retain 'buy' on L&T Technology Services with revised TP of ₹1,826

EDELWEISS SECURITIES

L&T TECHNOLOGY SERVICES (LTTs) reported a dollar revenue drop of 12.5% q-o-q in Q1 FY21 versus our estimate of a 9.5% decline. EBIT margin dipped to 12.1%, much below our estimate of 13.3%. Revenue contraction is attributable to a sharp q-o-q decline of 22.8%/24.2% in the transportation/plant engineering (PE) business overwhelming the robust 9.2% q-o-q growth in medical devices. Management guided for a 9-10% dip in FY21 topline, along with a potential recovery in growth and margins from Q2 itself. This implies a 2% CQGR for the remaining quarters of FY21. While we remain bullish on the long-term prospects of the fast-growing ER&D and believe LTTs is in a pole position to benefit thereof, the current quarter miss leads to a marginal cut of 3.5/2.5% in FY21/22E EPS. Maintain buy with a revised TP of ₹1,826 (versus ₹1,872 earlier; 20x FY22E) at 20x FY22E EPS.

Covid-19 hits plant engineering and transportation hard: The 12.5% q-o-q drop in revenue, although steeper than our estimate, is not scary as the bulk of damage arose from transportation/PE (down ~22.8%/24% q-o-q) — hit hard by the pandemic as factories remained largely closed with

limited activity. While the revenue decline is deeper than our estimate, we reckon the 9-10% decline in guidance for FY21 implies a 2% CQGR for the remaining quarters, which is encouraging.

Rationale for margin miss: Capacity retention for future execution Ebitda margin eroded 260bps q-o-q to 15.9%, largely due to a 670bps q-o-q fall-off in gross margin that was somewhat offset by lower SG&A expenses. The plunge in gross margin is attributable to an almost 800bps q-o-q drop in utilisation, which management attributed to their decision to maintain capacity for future execution.

Outlook and valuation, weak numbers, improving outlook: Uncertainty continues to mar the outlook for ER&D revenue growth, now further undermined by the Covid-19 crisis. We believe unlike IT services wherein higher online activity has been a saviour of demand, ER&D business growth hinges on plant operations and transportation (aviation etc). While the numbers did miss our estimates and a marginal cut in inescapable, we believe bounce-back will be sharper than management guidance, although lockdowns in case of a second wave of the virus remains a key risk. Retain buy/SO with a revised TP of ₹1,826 (earlier ₹1872 20x FY22E).

Yes Bank FPO subscribed 95%, ₹14,267 cr raised

FE BUREAU
Mumbai, July 17

PRIVATE SECTOR LENDER
Yes Bank has managed to raise ₹14,267 crore through its follow-on-public offer (FPO), implying 95% subscription of the issue size of ₹15,000 crore. The issue has achieved the minimum required subscription of 90% of its total size to sail through, the lender said. The institutional investors' portion got oversubscribed by 1.4 times. The non-subscribed portion of the FPO will be allotted to SBI Capital Markets, who had agreed to underwrite Rs 3,000 crore worth of shares at a price equal to the lowest end of the price band. The FPO had price band of ₹12-13 per share. As per market sources, 27 institutions bid for the FPO, including LIC, State Bank of India and Punjab National

Subscription	Amount (₹ cr)	No. of times
Anchor investors	4,098	1.9
Non-Anchor	6,281	0.63
Non institutional investors	1,401	0.47
Retail	2,421	0.33
Employees	65	0.95
Total	14,266	



Bank. The retail portion, however, could only get bids for 47%. Other investors in the offer included IIFL, Edelweiss, Bajaj Allianz, HDFC Life, HDFC MF, Union Bank, Bajaj Holdings and Avendus Wealth Management. The company had earlier raised 14,098 crore from anchor investors at ₹12 per share.

Forex reserves at record \$516 bn

FE BUREAU
Mumbai, June 11

FOREX RESERVES ROSE \$3.1 billion to hit a record high of \$516.36 billion for the week ended July 10, according to the latest data from the Reserve Bank of India (RBI). In the week prior to that, forex reserves stood at \$513.5 billion. Foreign currency assets (FCAs), which form a key component of reserves, rose \$2.372 billion to \$475.635 billion. FCAs are maintained in major currencies like the US dollar, euro, pound sterling and Japanese yen. Movement in the FCA occurs mainly on account of purchase or sale of foreign exchange by the RBI, income arising out of the deployment of foreign exchange reserves, external aid receipts of the government and revaluation of assets.



Gold, another component of reserves, rose by \$712 million to \$34.729 billion. Special drawing rights (SDRs) from the IMF increased \$5 million to \$1.453 billion while reserve position with the IMF increased \$19 million to \$4.545 billion. A BofA Securities report dated July 13 estimates that the RBI should be able to sell \$50 billion of forex to protect the rupee, and even after that the import cover for over 12 months would be retained.

Bharat Bond ETF second series raises ₹10,000 cr


FE BUREAU
New Delhi, July 17

BHARAT BOND EXCHANGE Traded Fund (ETF), a key instrument for central public sector enterprises (CPSEs) to raise debt capital from a larger pool of sources, including retail investors, raised around ₹10,000 crore on Friday. "The second series of Bharat Bond ETF received an outstanding response, over-subscribed more than three times, estimated collection around ₹10,000 crore with wide participation across categories. Final numbers are still being tallied and will be released by Monday," Department of Investment and Public Asset Management secretary Tuhin Kanta Pandey tweeted.



The funds collected will be invested in two new series of AAA-rated CPSE bonds with maturity profile of 5 years and 11 years. From the perspective of investors, the quasi-sovereign nature of the CPSE bonds in the index is an attraction, so are the low entry barrier and expense ratio. In its maiden offer in December last year, Bharat Bond ETF had mobilised Rs 12,400 crore for the CPSEs via two investment options - a short-term instrument for 3 years (Bharat Bond ETF April 2023) and a long-term one for 10 years (Bharat Bond ETF April 2030).

ICICI Lombard reports ₹398-cr net profit in Q1




FE BUREAU
Mumbai, July 17

ICICI LOMBARD GENERAL Insurance reported a net profit of ₹398 crore for the first quarter of the current fiscal, compared with ₹310 crore in the corresponding quarter last year, a rise of 28.5%. Gross direct premiums income (GDPI) came down in Q1, but the company witnessed improved underwriting performance. GDPI of ICICI Lombard General Insurance stood at ₹3,302 crore in Q1, compared with ₹3,487 crore in the same period last year, down 5.3%. However, excluding the crop segment, it decreased to ₹3,274 crore in Q1FY21, compared with ₹3,488 crore in Q1FY20, registering a de-growth of 6.2%.

Covid-19 pandemic. However, the underwriting profit stood at Rs 38.16 crore, compared to an underwriting loss of Rs 44.93 crore for the quarter ended June 2019. According to the filings with the BSE, ICICI Lombard General Insurance has seen underwriting profits in motor and miscellaneous group and corporate segments in first quarter of current fiscal. When claims paid are less than the premium collected, an insurance company reports underwriting profits. The combined ratio of the company stood at 99.7% in Q1, compared to 100.4% in the year-ago period, primarily driven by Covid-19 despite losses incurred due to catastrophic events. "Combined ratio was 98.4% in Q1 FY2021 excluding the impact of cyclone Amphan and Nisarga of Rs 31 crore, compared to 99.7% in Q1 FY2020 excluding the impact of cyclone Fani of ₹16 crore," the release said.

Rupee gains 16 paise to 75.02 vs \$



PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, July 17

THE RUPEE APPRECIATED 16 paise to close at 75.02 against the US dollar on Friday, tracking gains in domestic equities and lower crude oil prices. On the weekly basis, the domestic currency gained 18 paise. At the interbank forex market, the rupee opened on a weak note but soon recouped the losses and finally settled for the day at 75.02 against the US dollar, gaining 16 paise over its previous close. Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, fell 0.29% to 96.06. Brent crude futures, the global oil benchmark, fell 0.55% to \$43.13 per barrel. "Rupee gained this week following weaker dollar and strength in domestic equities. The price action in rupee is mirrored with the risk on sentiments. Spot USD/INR manages to end the week slightly above 75 levels. We could see the level of 74.50 with upside resistance remaining around 75.60," said Devarsh Vakil, deputy head, retail research, HDFC Securities.

'Covid may improve accuracy of Indian earnings analysts'

COVID-19 MAY HELP improve the accuracy of India's analysts, who are guilty of overrating the nation's earnings potential for years, ICICI Securities said. It said the consensus one-year forward forecast for earnings per share on the Fifty 50 has been overestimated by about 20% on an average since FY14. The discrepancy may reduce as a bleak economic outlook in the wake of the virus outbreak is prompting analysts to scale back their predictions, Vinod Karki and Sidharth Gupta of ICICI wrote in a note on Friday. Analysts have slashed their forward earnings estimate for the Nifty for the current fiscal by 30% so far. Similar cuts were seen when optimism turned into fear during the global financial crisis, which led to the estimation error being reduced to zero by 2010, Karki and Gupta noted. The same dynamic could play out amid the pandemic, bringing estimates closer to reality. "Behaviour post GFC indicates estimation error could reduce significantly, assuming the base case of an economic revival in FY22," they wrote.

Companies on the Nifty saw profits slump 53% in the quarter ended March, while the consensus estimate was for a 7.4% gain. **BLOOMBERG**

**GOVERNMENT OF TAMIL NADU
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT**
TENDER NOTICE No.A2/001/2020 Dated: 16.07.2020 (E-TENDER)

1 For full details, visit www.tntenders.gov.in.

2 E-bids are invited by the Project Director, DRDA, Tenkasi under Two Cover System for **Jal Jeevan Mission (2020-21) Providing Functional Household Tap connection and Pipeline extension in CWSS to 31 Habitats in Alangulam Panchayat union in Tenkasi District.**

3 The bid documents can be downloaded free of cost in the website www.tntenders.gov.in from **18.07.2020 to 31.07.2020.**

Last Date and Time and downloading and submission of Bid Documents	31.07.2020 Up to 03.00 pm
Date and Time of online opening of Bid Documents	31.07.2020 at 04.00 pm

DIPR/2669/TENDER/2020 Project Director(I/c), DRDA, Tenkasi

SALE NOTICE
Charbhujia Industries Private Limited (In Liquidation) Liquidator: Mr. Anil Goel
Liquidator Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-I, New Delhi -110048.
Email: assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, anilgoel@aaainsolvency.com
Contact No.: +91 8800865284 (Mr. Puneet Sachdeva/Asif Khan); (011) 4666 4619

E-Auction
Sale of Assets under insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of E-Auction: 01st August, 2020 at 3.00 pm to 5.00 pm
(With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by Charbhujia Industries Private Limited (In Liquidation) forming part of Liquidator's Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai vide order dated 02nd May, 2019 (communicated to the Liquidator on 08th May, 2019). The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform <https://aaa.auctiontiger.net>.

Asset	Block	Floor Price	EMD Amount	Incremental Value
Freehold land and building situated at Plot No. 10 & 11, Reverse Survey no. 187 of Village Vereval, (Gondal Road) Taluka Kotda, Sangani, District Rajkot, Gujarat-360025. Land Admeasuring 2610 Sqm.	A	2.5 Crores	10 Lacs	2 Lacs
Plant & Machinery (Peanut Processing Plant) at Rajkot Premises at plot No. 10 & 11, Reverse Survey no. 187 of Village Vereval, (Gondal Road) Taluka Kotda, Sangani, District Rajkot, Gujarat-360025.	B	1.5 Crores	10 Lacs	2 Lacs
Freehold land and building along with Plant & Machinery situated at Plot No. 10 & 11, Reverse Survey no. 187 of Village Vereval, (Gondal Road) Taluka Kotda, Sangani, District Rajkot, Gujarat-360025.	C	4.0 Crores	20 Lacs	5 Lacs
Land (leasehold) and Building situated at U-103, U-104 & U-105/2, Village Niddh, Taluka Hingna, District Nagpur - 440016, Maharashtra, Land Ad Measuring 2079. (Leasehold with Maharashtra Industrial Development Corporation for 95 years)	D	1.5 Crores	10 Lacs	2 Lacs
Plot no. J-19/2, within the Village Mandwa, Taluka - Hingna, Leasehold Open Land situated at J-19/2, within the Village Mandwa, Taluka - Hingna, District-Nagpur.	E	0.80 Crores	10 Lacs	2 Lacs

- Terms and Condition of the E-Auction are as under**
- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS" "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider MIS E-governance Technologies Limited (Auction Tiger).
 - The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website <https://aaa.auctiontiger.net>. Contact: Mr. Tilak Marathe at +91-635189634/0981200586/84. tilak@auctiontiger.net (support@auctiontiger.net) (On going to the link <https://aaa.auctiontiger.net> interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (i) Company's name (Charbhujia Industries Private Limited), or by (ii) State and property type).
 - The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Puneet Sachdeva/Asif Khan (+91 8800865284).
 - The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent enquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Puneet Sachdeva/Asif Khan (+91 8800865284).
 - The reserve price of the asset would be fixed in consultation with stakeholders' consultation committee and it would be public for all bidders or prospective bidders.
 - The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E-Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail id (5) Landline and Mobile Number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III. The formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 30th July, 2020. Interested bidders will have to upload their KYC documents along with the EMD submission details on <https://aaa.auctiontiger.net> before 5:00 PM of 30th July, 2020.
 - The Name of the Eligible Bidders will be notified by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (<https://aaa.auctiontiger.net>). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders.
 - The bidding will start from a floor price, in case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator.
 - The highest bid received or fetched in the E-Auction would be determined by the liquidator in consultation with the stakeholders and thereafter the liquidator in consultation with the stakeholders will decide on the acceptance or rejection of highest bid in the process.
 - If the H1 bidder is declared as the successful bidder by the liquidator in consultation with stakeholders, it would be communicated to successful bidder through email provided by bidder in the bid form and EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. Thereafter, the Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount - EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.
 - The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction.
 - The E-Auction may be cancelled by the Liquidator at any stage and may utilize this exercise to just explore the correct market price of the Assets on E-Auction.
 - The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/cancel the e-auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
 - After payment of the entire sale consideration, the site certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name.
 - The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder.
 - If in case, not more than one bidder deposits the EMD, then in that case the Liquidator will have the absolute power to cancel the auction process after the consultation with the stakeholders.
 - The interested Bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room") established and maintained by the Company acting through the Liquidator in order to conduct a due diligence of the business and operations of the Company. The interested bidder(s) shall be provided access to the information in the Data Room until the E-Auction Date. The access to, and usage of the information in the Data Room by the interested bidder(s) shall be in accordance with the rules as may be set forth by the Liquidator from time to time.
 - E-auction date & Time: August 01, 2020 from 03.00 p.m. to 05.00 p.m. (with unlimited extension of 5min)
- Sd/-
Anil Goel
Liquidator in the matter of Charbhujia Industries Private Limited
(BBI Regn. No.: BBI/PA-01/JP-001/2017-18/10253)
Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash - I, New Delhi -110048
Email: assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.com, anilgoel@aaainsolvency.com
Contact No.: +91 8800865284 (Mr. Puneet Sachdeva/Asif Khan); 011-4666 4619
- Dated: 18.07.2020
Place: New Delhi

HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED
Registered Office : "Rahejas", 4th Floor, Corner of Main Avenue & V.P. Road, Santacruz (West), Mumbai - 400 054. CIN : L64204MH1959PLC011421
Tel: 91-22-26001306 Fax: 91-22-26001307 Website: www.hathway.com; E-mail : info@hathway.net

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020 (Amount: Rupees in Crores)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2019	June 30, 2020	March 31, 2020	June 30, 2019	March 31, 2019
1	Total Income from Operations	213.64	208.42	191.49	818.03	488.22	514.46	506.68	2,044.14
2	Net Profit / (Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items)	58.35	36.83	29.51	113.70	60.30	55.93	(12.93)	83.61
3	Net Profit / (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional Items)	58.35	36.16	29.51	107.69	80.36	54.21	(1.69)	109.57
4	Net Profit / (Loss) for the Period after Tax	44.37	13.08	19.52	16.64	66.06	49.08	(9.38)	105.47
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period (comprising Profit / (Loss) for the Period after Tax and Other Comprehensive Income (after Tax))	44.24	13.05	19.55	16.68	65.91	49.23	(9.31)	105.45
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- each)	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02
7	Earning Per Share - (basic, diluted and not annualised) (in Rs.)	0.25	0.07	0.11	0.09	0.37	0.28	(0.05)	0.59

Note:-
1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the first quarter/three months ended June 30, 2020 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and www.nseindia.com) and on the Company website (www.hathway.com).

For Hathway Cable and Datacom Limited
Sd/-
Rajan Gupta
Managing Director
DIN:07603128

Place : Mumbai
Date : July 17, 2020

Heritage
HEALTH AND HAPPINESS

HERITAGE FOODS LIMITED
(AN ISO 22000 COMPANY)
CIN: L15209TG1992PLC014332
Regd. Office: # 6-3-541/C, Panjagutta, Hyderabad-500082, Telangana, India
Tel: +91-40-23391221/2, Fax: +91-40-23318090
E-mail: hfl@heritagefoods.in, Visit us at: www.heritagefoods.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

(for Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend of the Company to Investor Education and Protection Fund)

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India as amended from time to time, all dividends remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account are required to be transferred by the Company to the "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) by the Company.

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more by any shareholder(s) shall be transferred by the Company to the IEPF Authority.

In adherence to the requirements set out in the said Rules, the Company has sent individual notices to the concerned shareholders on May 20, 2020 through e-mail and courier, whose dividend are liable to be transferred to IEPF Authority.

The Company has displayed full details of such shareholders on its website i.e. www.heritagefoods.in to verify the details of un-encashed/unclaimed dividends for the FY 2012-13 liable to be transferred to IEPF Authority.

During the period of country wide Lockdown due to spreading of COVID-19, shareholders can send the scan copies of the following documents to the e-mail id's i.e. einward.ris@kfinetech.com and hfl@heritagefoods.in, latest by August 19, 2020 for claiming the unpaid dividend for the financial year 2012-13 and onwards so that the dividend/shares are not transferred to IEPF.

- ID Proof (a self-attested copy of your PAN Card)
- Address Proof (self-attested copy of your Aadhar Card/Passport/Utility Bill (not more than 3 months old))
- Unsigned and cancelled cheque leaf of the bank where you are maintaining your active core banking account so that we can transfer all subsequent dividend directly into your bank account

In case you do not receive your claim for the aforesaid dividends by 19th August, 2020, we shall with a view to comply with the requirements of the said Act and Rules, transfer the un-encashed/unclaimed dividend to IEPF Authority by following the procedures stipulated in the Rules in this regard, without any further notice.

In case the shareholder have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Shares Transfer Agents at Kfin Technologies Private Limited, Mrs. C. SobhaAnand, DGM, (Unit: HERITAGE FOODS LIMITED) Karvy Securities Tower B, Plot No. 21-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel No: 040-67161566, E-Mail: einward.ris@kfinetech.com or the undersigned at the Company's registered office.

For HERITAGE FOODS LIMITED
Sd/-
UMAKANTA BARIK
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: FCS-6317
Place : Hyderabad
Date : 17.07.2020

HDFC MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA
HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments
CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676
Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the declaration of dividend in **HDFC Arbitrage Fund**, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed **Thursday, July 23, 2020** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan / Option	Amount of Dividend (₹ per Unit)*	Face Value (₹ per unit)	NAV as on July 16, 2020 (₹ per unit)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Normal Dividend Option (Payout and Reinvestment)	0.020	10.696	
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly Dividend Option (Payout and Reinvestment)	0.020	10.448	

* The dividend will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Income distribution will be done / Dividend will be paid, net of tax deducted at source (TDS), as applicable, to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund till cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date, subject to realization of cheques / demand drafts). However, in respect of subscriptions for an amount equal to or more than ₹ 2 lakh (at Unit holders' PAN and holding pattern level), the Applicable NAV shall be based on realization of funds as per the provisions of SEBI Circular CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 and No. CIR/IMD/DF/19/2010 dated November 26, 2010, as may be amended from time to time, on uniform cut-off timings for applicability of NAV.

Unit holders who have opted to receive dividend by way of physical instruments may note that the same would be dispatched once the courier / postal services resume and that due to the unprecedented COVID-19 situation as also depending on availability of courier / postal services, there may be a delay in delivery of dividend payment instruments.

With regard to Unit holders of the aforesaid Scheme who have opted for Reinvestment facility under the Dividend Option(s), the dividend due will be reinvested net of TDS, as applicable, by allotting Units for the Income distribution / Dividend amount at the prevailing ex-dividend NAV per Unit on the Record Date.

In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his / her own professional financial / tax advisor.

For HDFC Asset Management Company Limited
Sd/-
Date : July 17, 2020
Authorized Signatory
MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

MoU INKED

Deepening energy ties: India looks to store oil in US reserves

Countries begin collaboration on strategic petroleum reserves

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 17

INDIA IS IN advanced talks to store its crude oil in US strategic petroleum reserves as an insurance against any supply disruption or price spikes, petroleum minister Dharmendra Pradhan said on Friday.

He said the two nations have signed a memorandum of understanding (MoU) to being cooperation on strategic petroleum reserves.

"We are also in an advanced stage of discussions for storing crude oil US strategic petroleum reserves to increase India's strategic oil stockpile," he told reporters after co-chairing the second India-US Strategic Energy Partnership Ministerial with US secretary of energy Dan Brouillette.

The US has 714 million barrels of oil storage capacity in its strategic petroleum reserve (SPR), the world's largest supply of emergency crude oil.

In comparison, India stores 5.33 million tonne (about 38 million barrels) crude oil in underground storages at three locations on the east and west coast, hardly enough to meet its 9.5 days needs.



Petroleum minister Dharmendra Pradhan (L); US energy secretary Dan Brouillette



International Energy Agency (IEA) prescribes its members to have at least 90 days of stock in the strategic reserves.

India has been looking to expand the storage capacity and is also exploring the possibility of hiring storage in the US to stock some oil that can be used in times of extreme price volatility or supply disruption.

"We are beginning to collaborate on strategic petroleum reserves as well and that is an important element of energy security," Brouillette said. "We are collaborating on renewable energy, nuclear energy, energy efficiency in buildings, appliances, and industrial sector."

Stating that the two nations are also looking at cooperation in hydrogen,

he said, "It is a partnership between two great nations...when it comes to relations between the United States and India, economically and energy-wise, best is yet to come."

He said US oil supplies to India have jumped ten-fold to 2,50,000 barrels per day (bpd) between 2017 and 2019.

"Between 2017 and last year, US crude oil exports to India rose by nearly 10-folds to almost 2,50,000 barrels per day. Between March 2016 and May of this year, 68 LNG shipments of over 234 billion cubic feet were exported to India. India is now the single largest importer of US oil in the world," he informed.

The US is India's sixth-largest oil supplier. India began importing crude oil from the US in 2017 as it looked to diversify its import basket beyond the OPEC nations. It bought 1.9 million tonnes (38,000 bpd) of crude oil from the US in 2017-18 and another 6.2 million tonnes (1,24,000 bpd) in 2018-19.

Assembler of iPhones plans first plant in India

DEBBY WU & SARITHA RAI
Taipei/Bengaluru, July 17

APPLE'S ASSEMBLY PARTNER Pegatron is making preparations for its first plant in India, adding to a large influx of foreign tech investments in the country this year.

In June, the government set out a \$6.6-billion plan to woo the world's top smartphone manufacturers, offering financial incentives and ready-to-use manufacturing clusters.

Pegatron is now setting up a local subsidiary and joining fellow Taiwanese electronics assemblers Foxconn and Wistron, who have already been making some iPhone handsets in southern India.

With a number of factories in China, Pegatron is the second-largest iPhone assembler and depends on Apple for more than half of its business. Like its peers, it will set up in south India, according to a person familiar with its plans who asked not to be named.

Foxconn, also known as Hon Hai, and Wistron are looking to expand their operations in the country, and Pegatron's entry can be seen as a defensive move to protect its share of budget iPhone manufacturing, according to Matthew Kanterman of Bloomberg Intelligence.

India has seen a surge of inward investment in recent weeks, with Google, Facebook and others pouring close to \$20 billion into Jio Platforms, billionaire Mukesh Ambani's mobile internet venture. Google has committed to spending \$10 billion over the next five to seven years to hasten India's digital transition and Amazon has said it intends to export \$10 billion of made-in-India goods by 2025. When Jeff Bezos visited the country in January, he said "The 21st century is going to be the Indian century."

—BLOOMBERG

Coal India sees 'uncertain' situation in July-September

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 17

COAL INDIA (CIL), which is already reeling under pandemic stress causing adverse impact on demand and supply of dry fuel, on Friday said the situation will remain uncertain in the July-September period as some states are resorting to fresh lockdowns.

The state-owned miner produced 18.05 million tonne (MT) coal from July 1 to July 16 against 19.61 MT produced in the same period last year. Coal production in some of the major mines is still affected due to high coal stock and less offtake. Pithead stock of CIL as on July 16 is 72.88 MT compared with 33.17 MT during the last year same period, it said.

However, with concentrated efforts, a growth of 16.7% was registered in over-burden (OB) removal during July 1 to July 16 compared with the same period last year.

Due to continuing lockdown and various guidelines issued by central and state governments, normalcy has not been restored yet, affecting coal production and despatch, Coal India said in a filing to the BSE.

CIL produced 51.32 MT of coal from March 15 to March 31.

In view of the fast-spreading coronavirus, the government had announced a nationwide lockdown from March 25, which was further extended in phases.

Despatch of coal was adversely affected in the last week of March resulting into mounting coal stock at pithead. Coal stock as on March 31 was 74.629 MT, compared with 54.155 MT on March 31, 2019.

Restriction imposed on movement of vehicles badly affected supply of explosives in the mines.

Further, disruption in movement affected availability of manpower, spares parts for heavy earth moving machinery (HEMM) which impacted the production at the mines, it said.

Coal India had produced 121.01 MT of coal during April 1-June 30, compared with 136.94 MT during the same period last year.

The continued lockdown during this period (April 1-June 30) had an adverse impact on



CIL introduces exclusive auction for coal importers

COAL INDIA (CIL) on Friday said it has introduced a new category of spot e-auction for importers only and aimed at replacing 150 million tonne of the fuel sourced from abroad with domestic supply.

The coal procured under the "special spot e-auction scheme 2020 for import substitution" will be for use within the country.

The miner said the new programme is an addition to its existing four categories of e-auctions.

—PTI

coal dispatch from CIL.

With decrease in power demand by about 30% and shut down of many industries in non-power sector due to lockdown, the offtake of CIL decreased to 120.62 MT compared with 153.49 MT during the same period last year.

Pithead stock on May 31 reached up to 78.093 MT during this period (April 1-June 30), it said, adding that the stock at power plants also remained high during this period. Supply of explosives was affected due to restriction in inter-state movement.

Contractual as well as departmental production during this period (April 1-June 30) was affected due to shortage of manpower due to restriction in movement.



NOTICE CUM ADDENDUM

All unitholders are hereby informed about the changes in the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) of **Tata Banking and Financial Services Fund, Tata Digital India Fund, Tata Ethical Fund, Tata Focused Equity Fund, Tata India Consumer Fund, Tata India Pharma & Healthcare Fund, Tata Infrastructure Fund, Tata Resources & Energy Fund and Tata Quant Fund** regarding introduction of withdrawal facility of upto 12% of original cost of investment, w.e.f. 20th July 2020.

- Unitholders will have the facility to withdraw maximum upto 12% of original cost of investment without an exit load on First in First Out Basis in the above-mentioned schemes.
- In case the withdrawal amount is beyond 12% of original cost of investment then the normal exit load as stated in SID of respective schemes will be applicable on the amount greater than 12%.

Revised Exit Load from the effective date	Revised Exit Load Structure (% of NAV)
1) Redemption/Switch-out/SWP/STP on or before expiry of 365 days from the date of allotment: If the withdrawal amount or switched out amount is not more than 12% of the original cost of investment.	NIL
2) Redemption/Switch-out/SWP/STP on or before expiry of 365 days from the date of allotment: If the withdrawal amount or switched out amount is more than 12% of the original cost of investment.	1%
3) Redemption/Switch-out/SWP/STP after expiry of 365 days from the date of allotment.	NIL

The above revision in exit load will be applicable on the following:

- Investments made in the above-mentioned scheme(s) on or after the effective date.
- New Systematic Investment Plan (SIP) / Systematic Transfer Plan (STP) registered on or after the effective date.

- Notes:**
- The above revision will be implemented prospectively & shall remain in force till further notice.
 - This notice cum addendum will form an integral part of the SID & KIM of the schemes.
 - All other terms & conditions of the SID/ KIM read with other addendums including the Risk-o-meters of the schemes remain unchanged.

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document.



A WINNING RELATIONSHIP

Shriram Transport Finance Company Limited

Shriram Transport Finance Company Limited ("Company"), a public limited company was incorporated under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated June 30, 1979, issued by the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu (registered as a deposit taking Non-Banking Financial Company within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)). For details regarding change in the registered office, please see "History and Corporate Structure" on page 92 of the LOF.

Corporate Identification Number: L65191TN1979PLC007874

Registered Office: Mookambika Complex, 3rd Floor, No. 4, Lady Desika Road, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu- 600 004 Tel No: +91 44 2499 0356; **Corporate Office:** Woodhardt Towers, West Wing, Level-3, C-2, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel No: + 91 22 4095 9595; **Website:** www.stfc.in **Compliance Officer and Contact Person:** Mr. Vivek Madhukar Achwal, E-mail: stfcricomp@stfc.in

Corrigendum - Notice to Investors:

This corrigendum is with respect to the letter of offer dated July 7, 2020 ("LoF"). Please note: On page 415 of the LoF, point 16 shall stand substituted as follows: "Any approval obtained from the RBI, as required, where a successful Application will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Eligible Equity Shareholder (along with persons acting in concert) in our Company, to exceed applicable limits prescribed by the RBI or under FEMA. In terms of applicable RBI guidelines, prior approval of the RBI is required for acquisition of 26% or more of the issued and paid-up share capital of the Company. Eligible Equity Shareholders must send a copy of the approval from any regulatory authority, as may be required, or obtained from the RBI to the Registrars at <https://rights.kfintech.com/shriram> or stfc.rights@kfintech.com." On page 416 of the LoF, point (w) shall stand substituted as follows: "Applicants must submit a copy of the approval obtained from any regulatory authority, as may be required, with the Application and send a copy of such approval to the Registrars at <https://rights.kfintech.com/shriram> or stfc.rights@kfintech.com, in case the Application and the resultant Rights Equity Shares will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Applicant (along with persons acting in concert) in our Company, to be in excess of applicable limits prescribed by the RBI or under FEMA. In terms of applicable RBI guidelines, prior approval of the RBI is required for acquisition of 26% or more of the issued and paid-up share capital of the Company." Accordingly, the LoF, the Abridged Letter of Offer, Application Form and communication and advertisements issued by or on behalf of the Company in relation to the Issue stand amended to the extent of and should be read with the above.

All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated July 7, 2020, read with this corrigendum (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, and SEBI.

For Shriram Transport Finance Company Limited

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Vivek Madhukar Achwal
Company Secretary and Compliance Officer

Shriram Transport Finance Company Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated July 7, 2020 with SEBI and the Stock Exchanges (read with this corrigendum). The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and the website of the Global Co-ordinators and Lead Managers, i.e. ICICI Securities Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets India Private Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited and J.P. Morgan India Private Limited at www.icicisecurities.com; www.bnpparibas.co.in; www.online.citibank.co.in/html/citigroupglobalscreen1.htm; www.credit-suisse.com; at <https://www.business.hsbc.co.in/en/genre/po-open-offer-and-buyback>; and www.jpml.com, respectively; and the Joint Lead Managers, i.e. Axis Capital Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in; and www.sbcaps.com, respectively and on the R-WAP. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 15 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold in "offshore transactions" outside the United States in compliance with Regulation S under the U. S. Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.

Adfactors 131

केनरा बँक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking



H.O., 112, J C ROAD, BENGALURU - 560 002

NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Monday, the 10th August, 2020 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** in compliance with general Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To raise capital by further issue of equity shares / preference shares or other securities either by way of Follow-on Public Offer, Rights Issue, Private Placement, Qualified Institutional Placement or any other mode approved by GOI / RBI.

In compliance with the aforementioned circulars, electronic copies of the Annual Report 2019-20 along with Notice of 18th AGM have been sent to all shareholders whose email IDs are registered with respective Depository Participant, Registrar and Transfer Agent (RTA). A copy of same shall also be available on Bank's Website www.canarabank.com, websites of Stock Exchange (BSE / NSE) and on website of e-voting agency <https://evoting.karvy.com>. The Head Office is deemed to be the venue of the Annual General Meeting.

CLOSURE OF BOOKS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, the 4th August, 2020 to Monday, the 10th August 2020 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

CUT-OFF DATE

The Cut-off Date for reckoning Shareholders' Rights for e-voting and to participate in AGM through VC / OAVM is Monday, the 3rd August 2020. Shareholders holding Share either in physical form or dematerialised form as on cut-off date are eligible to cast their vote electronically (Remote e-Voting) on the above mentioned agenda.

REMOTE E-VOTING

The remote e-Voting Portal will commence at 09:00 AM on Thursday, the 6th August, 2020 and will remain open for voting till 5.00 PM on Sunday, the 9th August 2020. Remote e-Voting Portal will be disabled after 05:00 PM on 9th August 2020.

E-VOTING

The Eligible Shareholders present at the 18th AGM through VC / OAVM facility and have not cast their votes on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the 18th AGM.

NOTES

- Shareholders acquiring Shares after the dispatch of Notice of 18th Annual General Meeting and holding shares as on cut-off date may obtain login ID and Password for evoting / participating in AGM by sending request at evoting@karvy.com.
- Shareholders who have cast their vote through remote e-voting shall be eligible to attend the 18th AGM but shall not be eligible to cast their vote again through e-voting at 18th AGM.
- Only Persons whose names are recorded in the Register of Shareholders or Register of Beneficial Owners maintained by depositories as on cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting / e-voting and participate in the 18th AGM.
- The procedure for remote e-voting for shareholders holding shares in Physical form and dematerialised form is provided in Notice of 18th AGM. The details will also be made available on the website of the Bank: www.canarabank.com.
- Shareholders who have not registered their mail address are requested to register the same with respective Depository Participants and members holding shares in physical form are requested to update the email ID with Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e., KFin Technologies Private Limited at inward.ris@kfintech.com to receive copies of Annual Report 2019-20, Notice of AGM, Instructions for remote evoting, Instructions for participating in the 18th AGM through VC / OAVM and Passwords for login.
- Shareholders who have not registered their mail address may temporarily register the same by clicking the link https://ris.kfintech.com/email_registration/.
- Shareholders who have forgotten their log-in Credentials may contact RTA (KFin Technologies Private Limited) at inward.ris@kfintech.com to retrieve / reset their login credentials.
- In case of any queries/technical assistance related to e-voting or participating in 18th AGM through VC / OAVM, shareholder members may refer FAQs for members and e-voting user manual for Members available at our RTA (KFin Technologies Private Limited) website or call at 040-67162222 or toll free No. 1800 345 4001 or contact Mr. S V Raju, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited at following address :
KFin Technologies Pvt. Ltd. (Unit : Canara Bank), Selenium Tower B, Plot No. 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, HYDERABAD-500 032.
- The aggregate results of remote evoting and evoting at AGM shall be made available within 24 hours of the AGM at Bank's website, website of Stock Exchanges (BSE / NSE) and website of KFin Technologies Private Limited.

By Order of the Board of Directors

L V Prabhakar

MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru

Date : 17.07.2020

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

CIN: L65921WB1993PLC060507
Regd. Office: Gajraj Chambers, 2B, 2nd Floor, 86 B/2, Topasia Road, Kolkata - 700046 (West Bengal)
Email id: compliancesdf@somdattfin.com; Website: www.somdattfin.com

CORRIGENDUM TO ANNUAL REPORT 2019-2020

We wish to inform you that in the Annual Report 2019-20 of the Company, emailed to the shareholders on 16th July, 2020 and uploaded on BSE Website on 16th July, 2020, on page no. 62, the extreme right column under the head "Other Equity", pertaining to "As at March 31, 2018" has been inadvertently missed out to be printed.

	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
19. Other Equity			
(i) Reserve fund in terms of section 45-IC(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934			
Balance at the beginning of the year	19,822,152	19,469,557	19,387,229
Addition during the year	118,135	352,595	82,328
Balance at the end of the year	19,940,287	19,822,152	19,469,557
(ii) Retained Earnings			
Balance at the beginning of the year	23,184,707	21,851,664	23,840,928
Transfer from statement of Profit and Loss	590,675	1,685,638	411,638
Dividend paid	-	-	-
Adjustment on account of transition to Ind AS	-	-	338,790
	2,37,75,382	2,35,37,302	2,45,91,356
(iii) Appropriations:			
Provision for earlier years	-	-	(2,657,364)
Transfer to reserve fund in terms of section 45-IC(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934	(118,135)	(352,595)	(82,328)
Total Appropriations	(118,135)	(352,595)	(2,739,692)
Balance at the end of the year	23,657,247	23,184,707	21,851,664
Total Other Equity	43,597,534	43,006,859	41,321,221

Accordingly, all the concerned shareholders, stock exchanges, depositories, share transfer agent, agencies appointed for e-voting, other authorities, regulators and all other concerned persons are requested to take note of the above correction.

This corrigendum should be read in conjunction with the Annual Report 2019-20. The Revised and updated Annual Report for FY 2019-20 is available and can be downloaded from www.somdattfin.com, www.evoting.nsdl.com or www.rcmcdelhi.com/dropbox/SDFC_AR2020.pdf

For SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED
Place : Kolkata
Date : 17.07.2020
Sandip Kumar Chaubey
Company Secretary

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BRICK EAGLE AFFORDABLE HOUSING ADVISORY LLP

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Debtor	BRICK EAGLE AFFORDABLE HOUSING ADVISORY LLP
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	12/06/2013
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Mumbai
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	AAB-5796
5. Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Unit No. B-12-13, 2nd Floor, Art Guild House, Phoenix Market City, LBS Road, Kurla(W), Mumbai - 400070
6. Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	15/07/2020
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	11/01/2021
8. Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Anshul Pathania Reg. No.: IBB/IPA-001/1P-001529/2019-2020/12461
9. Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	901, Sunset Heights, Hatiskar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Email : anshul.pathania@gmail.com
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	901, Sunset Heights, Hatiskar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Email : cripbeaha@gmail.com
11. Last date for submission of claims	29/07/2020
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (8A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not Applicable as per information available to the IRP.
13. Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in class (three names for each class)	Not Applicable as per information available to the IRP.
14. (a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: 901, Sunset Heights, Hatiskar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the BRICK EAGLE AFFORDABLE HOUSING ADVISORY LLP on 15/07/2020.

The creditors of BRICK EAGLE AFFORDABLE HOUSING ADVISORY LLP, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 29 July 202

TCL Developers Ltd.

TCL Developers Limited
CIN: L70102TG2008PLC059173

Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 3rd Floor, 1-8-271, to 273, Ashoka Bhoopal Chambers, S.P. Road, Secunderabad - 500 003 (TG)
Corp. Office: TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122 001, Haryana
Tel: +91 124 2381603-07
E-mail: secretarial@tcldevelopers.com **Website:** www.tcldevelopers.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 12th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 12th August, 2020 at 5:00 PM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 05, 2020 to transact the businesses set out in the notice calling the AGM. Members participating through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In line with the aforesaid circulars and as intimated earlier via newspaper publication dated 30th June, 2020, the Notice calling the AGM is being sent to the shareholders, whose email addresses are registered with the Company/Depository. It is requested to the shareholders who have not yet registered their email addresses, to register their e-mail IDs thereupon in respect of shares held in dematerialized form, with the Depository through their Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company, KFin Technologies Pvt. Ltd., Selenium Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District Gachibowli, Hyderabad 500 032, Tel:+91 040 67161524, email: einward.ris@kfintech.com or to the Company at secretarial@tcldevelopers.com.

The Notice calling the AGM will also be made available on the website of the Company at www.tcldevelopers.com, Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) website at www.evotingindia.com. The Company is providing remote e-voting to all the shareholders to cast their votes on all resolutions set out in the notice of the AGM as well as through e-voting system during the AGM through the platform of CDSL. The Shareholders whose email addresses are not registered with the depositories/Company for obtaining login credentials for e-voting for the resolutions proposed in the notice calling the AGM, are requested to email to the company on secretarial@tcldevelopers.com. The detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice. Members are requested to update bank account mandate for receipt of dividend directly in their bank account through their Depository Participant(s) in respect of shares held in dematerialized form and in respect of shares held in physical form to the RTA by providing request letter alongwith Cancelled cheque.

For TCL Developers Limited
Saloni Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 17th July, 2020

MANALI PETROCHEMICALS

Manali Petrochemicals Limited
Registered Office: SPC ICOSI, Sec 10A, Mount Road, Gurugram, Haryana - 124 001
CIN: L24254TN1989PLC013087. Tel: 044-2235 1098
Email: companysecretary@manaliagro.com
Website: www.manaliagro.com

NOTICE

Request has been received for issue of Duplicate Share Certificates in lieu of Certificate reported lost and not traceable as per details given: Folio No. B0095118, Name of the Shareholder: Sterling Stockbrokers Pvt. Ltd., Certificate No. 26563, Distinctive No. 33435597-33436046, No. of Shares: 450. Objections if any to the above shall be lodged with the Company within 15 days failing which Company will proceed to issue the duplicate share certificates.

For Manali Petrochemicals Limited
R. Kothandaraman
Company Secretary

Date: 17.07.2020
Place: Chennai

SAREGAMA INDIA LIMITED

CIN: L22213WB1946PLC014346
Regd. Office: 33, Jessore Road, Dum Dum, Kolkata - 700028.
Tel: 033-2551 2984/4773.
E-mail: co.sec@saregama.com,
Web: www.saregama.com

INITIATION REGARDING 73rd ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

In view of the continuing restrictions on the movement of people at several places in the country, due to outbreak of COVID-19, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), has allowed the Companies to conduct the AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) during the calendar year 2020. In accordance with, the said circulars of MCA, SEBI and applicable provisions of the Act and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), the 73rd AGM of the Company shall be conducted through VC/ OAVM on August 11, 2020 at 11.00 A.M. (I.S.T.).

In compliance of the above circulars, the Company shall send electronic copies of Annual Report alongwith the Notice of AGM to those shareholders whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant. The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20, will be available on the website of the Company at www.saregama.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering email address:
Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at co.sec@saregama.com along with the scanned copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (e.g.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. In case of any queries / difficulties in registering the e-mail address, Members may write to co.sec@saregama.com. Along with the above details, for registering the Bank Account details:
• Name and Branch of the Bank;
• Bank Account Type;
• Bank Account Number;
• MICR Code;
• IFSC Code and
• Scan copy of the cancelled cheque bearing all the above details for authentication.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants.
Manner of casting through e-voting:
Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the notice of AGM through remote e-voting system. The detailed procedure and instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM shall be provided in the notice of AGM.

By Order of the Board
Kampana Khetan
Company Secretary
Membership No. A-35161

Dated: July 16, 2020
Place: Mumbai

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375
Regd. Off: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: 011-46781000, Fax: 011-46150275/576
www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the board of directors of the Company shall meet on Wednesday, the 29th July, 2020, to consider and approve, inter-alia, the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

Further details are available at www.marutisuzuki.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Maruti Suzuki India Limited
Sanjeev Grover
Vice President and
Company Secretary

New Delhi
17th July, 2020

TCL Developers Ltd.

Transport Corporation of India Ltd.
CIN: L70109TG1995PLC019116
Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 3rd Floor, 1-8-271 to 273, Ashoka Bhoopal Chambers, S.P. Road, Secunderabad - 500 003 (TG)
Corp. Office: TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122 001, Haryana
Tel: +91 124 2381603-07
E-mail: secretarial@tcl.com **Web:** www.tcl.com

NOTICE

Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on **Wednesday, 12th August, 2020** to inter-alia consider and approve the unaudited Financial Results for the 1st Quarter ended on 30th June, 2020.

The said notice may be accessed on Company's website: www.tcl.com and on Stock Exchanges' website: www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By Order of Board of Directors
For Transport Corporation of India Ltd.
Archana Pandey
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 17th July, 2020

TCL Developers Ltd.

TCL Developers Limited
CIN: L70102TG2008PLC059173

Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 3rd Floor, 1-8-271, to 273, Ashoka Bhoopal Chambers, S.P. Road, Secunderabad - 500 003 (TG)
Corp. Office: TCI House, 69 Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122 001, Haryana
Tel: +91 124 2381603-07
E-mail: secretarial@tcldevelopers.com **Website:** www.tcldevelopers.com

NOTICE

Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on **Wednesday, August 12, 2020** to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial Results for the 1st Quarter ending on 30th June, 2020.

The said notice may be accessed on Company's website: www.tcldevelopers.com and on Stock Exchanges' website: www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By Order of Board of Directors
For TCL Developers Limited
Saloni Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 17th July, 2020

SMS LIFESCENCES INDIA LIMITED

CIN: L74930TG2008PLC050223
Regd. office: Plot No. 18/II, Road No. 71, Jubilee Hills, Opp. Bharatya Vidyapeeth Public School Hyderabad - 500096
Website: www.smlife.in | Email: co@smilife.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR UPDATION OF EMAIL ID

Pursuant to the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company will send the Annual Report(s), Notice(s) and other communications only through electronic mode to those shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company (es@smilife.in) or Company's Registrar & Transfer Agent, M/s. Aarthi Communication Private Limited (info@arthiconsultants.com). In case, any further clarification is sought then please feel free to contact us at 040-66288888.

For SMS Lifescences India Ltd
Sd/-
Trupti Ranjan Mohanty
Company Secretary

This Notice may also be accessed on www.smlife.in, www.bseindia.com & www.nseindia.com

K G DENIM LIMITED

CIN: L17115TZ1992PLC003798
Regd. Office: Then Thirumalai, Jadayampalayam, Coimbatore - 641 302.
Phone : 04254-235240 Fax : 04254-235400
Website: www.kgdenim.com E-mail Id: cskgd@kgdenim.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 29th July, 2020 at 11.30 a.m. at Sri Kannapiran Mills premises, Sowripalayam, Coimbatore - 641 026, inter-alia, to consider and to take on record the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year ended 31st March, 2020.

Details are available at: Company website : www.kgdenim.com
Stock Exchange Website : www.bseindia.com

For K G DENIM LIMITED
KG BAALAKRISHNAN
EXECUTIVE CHAIRMAN

Coimbatore
16.07.2020

THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED

(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana.

e-Procurement TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit <https://tender.telangana.gov.in> or - <https://www.sclmines.com>

NIT/Enquiry No. - Description/Subject - Last date and time for Submission of bid(s)

E122000136 - Crushing of Coal by Mobile/Semi-mobile Crusher for an output size of (-) 200 mm (all dimensions), including provision, installation, operation and maintenance of 4 Nos. of not less than 400 TPH capacity Mobile/Semi-mobile crushing units with feeding and loading of coal into trucks deployed by SCCL at coal stock yards of SCCL projects each at JVR OCP2, RG OC3, GDK-5 OCP & KTK OC3 for a period of 36 months - **31/07/2020 - 17:00 hrs.**

E172000115 - Procurement of cartridges for HP 501 DN, 226 DN, 1536, 1606, 3015 DN Printers and HP 500 PS Plotter on Rate contract basis for 2 years - **3/8/2020 - 17:00 hrs.**

E072000133 - Procurement of Ex K burn Make intrinsically safe Non contact voltage detector - **4/8/2020 - 17:00 hrs.**

E091900470 - Supply of Uniform material for S and PC personnel - **5/8/2020 - 17:00 hrs.**

E042000123 - Procurement of Transformer Oil New on RC basis for a period of 2 years to use in all Areas of SCCL - **13/08/2020 - 17:00 hrs.**

NIT No., Date - Name of the work - ECV- Last date & time for Submission of bids

CW/KGM/e-11/2020-21, Dt. 10-07-2020 - Tender for M & R works for Section No.4K/A1 area, i.e., MA and NB Type Quarters including KCOA Club at Ganeshpuram area, Kothagudem Corporate for the year 2020-21 - **Rs. 38,91,455/- up to 04:00 PM on 27.07.2020.**

CW/KGM/e-12/2020-21, Dt. 13-07-2020 - Tender for Special repairs including retrofitting works to damaged surface of RCC structures of S.C. Women's Degree College building at Kothagudem Corporate, Bhadradi Kothagudem Dist., T.S - **Rs. 39,64,258/- up to 04:00 PM on 29.07.2020.**

GM (MP) - Chief (Civil)

PR/2020-21/MP/CVL/CTL/36

बी ई एम एल BEML LIMITED

A Govt. of India Schedule A Company, Under Ministry of Defence
CIN: L35202KA1964GOI001530

Regd. Office: 'BEML Soudha', No.23/1, 4th Main Road, S.R. Nagar, Bengaluru - 560 027, Ph: (080) 22963142
E-mail: cs@beml.co.in, Web-site: www.bemlindia.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

This NOTICE is published pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2017 ("IEPF Rules") as notified by the Ministry of Corporate Affairs and as amended from time to time, the Company is required to transfer the shares in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Hence, the amount of Dividend for the year 2012-13 declared by the Company on 13.09.2013 remaining unpaid / unclaimed for a period of 7 consecutive years will become due for credit to IEPF Authority on 19.10.2020 together with corresponding shares. Shareholders who have not claimed their dividends for the FY 2012-13 and onwards are requested to claim their dividends expeditiously by 09.10.2020. Further, the list of shareholders whose dividend(s) are not encashed and due for transfer to IEPF is displayed on the website of the Company at www.bemlindia.in

Further, the Company has sent individual communication to the shareholders concerned whose shares are liable to be transferred to IEPF. In case the Company or the Registrar & Share Transfer Agent, M/s KFin Technologies Private Limited (RTA), does not receive any communication from the shareholders concerned by 09.10.2020, the Company shall, with a view to complying with the requirements as set out in the IEPF Rules, transfer the shares to IEPF and no claim shall thereafter lie against the Company. However, those shareholders can claim back the shares along with unclaimed dividend from IEPF Authority after following due procedure prescribed in the said Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF authority, may note that the Company would issue the Duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority as per rules and upon such issue, original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

For further information / clarification in this regard, the shareholders may contact the RTA at: M/s KFin Technologies Private Ltd., Karvy Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032; Tel: 040-67161526; E-mail : nageswara.raop@kfintech.com, einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

For BEML LIMITED
Sd/
S V Ravi Sekhar Rao
Company Secretary & Compliance Officer

18.07.2020
Bengaluru

TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800
Registered Office: Belgharia, Kolkata 700 056
Ph: (033) 2569 1500, Fax: (033) 2541 2448
Email: texinfra_cs@texmaco.in, website: www.texinfra.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as notified by the Ministry of Corporate Affairs.

In accordance with the various requirements as set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders whose equity shares, in respect of which dividend has remain unclaimed for seven consecutive years since 2012-13, shall be transferred by the Company in the name of IEPF on or after 19th October, 2020.

The Company has also uploaded the details of such shareholders and equity shares due for transfer to the IEPF Account on its website at http://www.texinfra.in/pdf/TexInfra_IEPF.pdf. The Shareholders are requested to verify the details of the un-encashed dividends and the equity shares liable to be transferred to the IEPF Account and the affected Shareholders may lodge the request for payment of unclaimed dividend to Registrar & Share Transfer Agent (RTA) / the Company by 30th September, 2020.

Shareholders may please note that both the unclaimed dividend and the equity shares transferred to the IEPF Account including all corporate benefits accruing on such equity shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure as set out in the Rules.

The concerned shareholders, holding equity shares in physical form and whose equity shares are liable to be transferred to the IEPF Account, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of such equity shares in the name of IEPF as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which is registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The Shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares in the name of IEPF pursuant to the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of equity shares and related dividend amount transferred to the IEPF Account.

In case of any queries, shareholders may contact the Company's RTA - M/s KFin Technologies Private Limited, Unit: Texmaco Infrastructure & Holdings Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad: 500032, Toll free no: 1800-3454-001, Email: einward.ris@kfintech.com.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited
Sd/-
K K Rajgaria
CFO

Place: Kolkata
Date: 18th July, 2020

PRISM JOHNSON LIMITED

CIN : L26942TG1992PLC014033

Registered Office : 305, Laxmi Niwas Apartments, Ameerpet, Hyderabad - 500 016
Phone : +91-40-23400218 ; Fax : +91-40-23402249
e-mail : investor@prismjohnson.in ; website : www.prismjohnson.in
Corporate Office : Rahejas, Main Avenue, V. P. Road, Santacruz (West), Mumbai - 400 054

NOTICE TO MEMBERS OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 28th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on August 14, 2020 at 10.30 a.m. through Video Conference/Other Audio Visual Means ('VC') pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and SEBI Circular dated May 12, 2020, without the physical presence of the Members at a common venue.

The Members are hereby informed that the Notice of the AGM and the Annual Report for the year ended March 31, 2020 shall be sent only through email to all those Members who have registered the same with the Company or with their respective Depository Participant ('DP') in accordance with the aforesaid Circulars. Members can participate in the AGM only through VC. The instructions to join the VC facility are given in the Notice of the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.prismjohnson.in and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com.

Hence, the Company requests all the shareholders who have not yet registered their email addresses or have not updated their email addresses with the Company to register the same within 3 days of service of this public advertisement.

Members holding shares in physical form may register their email address and mobile number with the Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ('KFin') by sending email at einward.ris@kfintech.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate for receiving the Annual Report, AGM Notice and the e-voting instructions or register their e-mail address with KFin by clicking on https://ris.kfintech.com/email_registration/

Members holding shares in demat form are requested to update their email address with their DP.

By order of the Board of Directors,
For Prism Johnson Limited
Aneeta S. Kulkarni
Company Secretary

Date : July 17, 2020
Place : Mumbai

PRISM CEMENT

JOHNSON

RMC

BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED

(Corporate Identity Number: L15412WB1918PLC002964)
Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017
Tel: +91 33 22872439/2057, +91 80 37687100; Fax: +91 33 22872501, +91 80 37687486
Website: www.britannia.co.in; E-mail id: investorrelations@britindia.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30 June 2020			
Particulars	(₹ in Crores)		
	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2020	Quarter ended 30.06.2019
Total revenue from operations	3,420.67	11,599.55	2,700.35
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	737.14	1,861.31	407.25
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	737.05	1,844.30	391.64
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	542.68	1,393.60	248.64
Total comprehensive income for the period [Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	541.89	1,398.72	248.13
Equity share capital	24.06	24.05	24.03
Other equity		4,378.78	
Earnings per share (face value of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) -			
(a) Basic (₹)	22.69	58.35	10.45
(b) Diluted (₹)	22.69	58.34	10.44

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30 June 2020			
Particulars	(₹ in Crores)		
	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2020	Quarter ended 30.06.2019
Total revenue from operations	3,219.88	10,986.68	2,579.46
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	697.12	1,889.26	408.14
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	697.12	1,908.26	392.14
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	515.87	1,484.30	250.21
Total comprehensive income for the period [Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	515.76	1,479.71	250.11
Equity share capital	24.06	24.05	24.03
Other equity		4,250.60	
Earnings per share (face value of ₹ 1 each) (for continuing and discontinued operations) -			
(a) Basic (₹)	21.45	61.75	10.41
(b) Diluted (₹)	21.45	61.73	10.41

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020 is available on the website of the Stock Exchanges - www.bseindia.com and www.nseindia.com and is also available on the Company's website - www.britannia.co.in.
- The unaudited financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ("The Act") read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The operating segment of the Company is identified to be "Foods", as the Chief Operating Decision Maker reviews business performance at an overall company level as one segment. Therefore, the disclosure as per Regulation 33(1)(e) read with Clause (L) of Schedule IV of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is not applicable to the Company.
- The above unaudited consolidated and standalone financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board on 16 July 2020 and approved by the Board of Directors on 17 July 2020.
- On 12 June 2020, 83,334 equity shares having a face value of ₹ 1 each were allotted to the Managing Director of the Company under the Employee Stock Option Scheme (ESOS) at an exercise price of ₹ 1,766.65 per share.
- The Statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

Regd. Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi - 110027. Landline: (91)-11-45613585 • CIN: L74899DL1995PLC064005

PUBLIC NOTICE

EOI FOR VERIFICATION OF INVENTORY
Growthways Trading Private Limited is under CIRP, IBC, 2016 invites Expression of Interest (EOI) for verification of Inventory Godown situated at Faridabad.

India Shelter

Regd. Office:-Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002. Branch Office :1st Floor, SCO 15, Ambala Road, Zirakpur - 140603

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LIMITED

Regd. & H.O. 46, Dohil Chambers 4th Floor, Nehru Place, New Delhi 110 019. Ph: 91-11-46579476. E-mail: admin@everesttools.com

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office:Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana. Corporate Office: 2, Pak Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2012-13 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Table with 2 columns: Particulars of Transfer to IEPF, Due Date of Transfer to IEPF. Row 1: Unclaimed Dividend FY 2012-13 (Final), October 21, 2020

Tata Capital Financial Services Limited

POSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 22nd November, 2019 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

Loan Accounts No. 6314829, 5528649, & 6314535 Date of Possession : 14th July, 2020
Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s): 1. ANURAG NAGPAL, E-71, BLOCK-E, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015, 2. MONET NAGPAL, E-71, BLOCK-E, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015, 3. MIS KVM STEEL (P) LTD, REPRESENTED BY ITS DIRECTOR ANURAG NAGPAL, Y-153, LOHA MANDI NARAINA, NEW DELHI-110028, & 4. MIS KVM STEEL (P) LTD, REPRESENTED BY ITS DIRECTOR MONET NAGPAL, Y-153, LOHA MANDI NARAINA, NEW DELHI-110028

Table with 4 columns: Name of the Borrower/Guarantor, Description of the Charged/Mortgaged Property, Date of Demand Notice, Date of Symbolic Possession. Includes details for Rajan and Satish Kumar.

Place : Zirakpur, Date : 18.07.2020 For India Shelter Corporation Finance Limited (Authorized Officer)

FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. VINAY RAMA (+91 7988605030) &MR. AJAY GUPTA (+91 790826375)

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

Table with 7 columns: SR. No., NAME OF BOARD/CORP./AUTH, NAME OF WORK/NOTICE TENDER, OPENING DATE, AMOUNT / EMD, WEBSITE OF THE BOARD CORP./AUTH, MODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL. Includes tenders for sugar mill, pesticide, and metro development.

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

AXIS BANK Sale Notice for Sale Immovable Property

Retail Assets Center : 1st Floor, G-45, B, Sector-4, Gomi Nagar Extension Lucknow-226010. Corporate Office : 3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025

Table with 3 columns: Account Number, Location / Details of the Immovable Property and the plant and machinery, Encumbrances, if any known to the Bank. Includes account number PHR00802406277.

Date : 18.07.2020, Place : Lucknow (Authorized Officer), AXIS BANK LTD.

State Bank of India

Stressed Assets Recovery Branch, State Bank of India, 154A, Park Road, Connaught Place, New Delhi-110005. Tel: 011-28752163

S.R. Industries Limited

Regd. Off: E-217, Industrial Area, Phase-6B, Mohali, Punjab - 160071. Website: www.sriind.com

NHPC Limited

Regd. Office : NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003(Haryana) CIN: L40101HR1975G0032564

NOTICE TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Pursuant to provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("IEPF Rules"), as amended, notice is hereby given that all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, shall be transferred by the Company in the name of IEPF.

In compliance to requirements, as set out in NSDL-16 digit DPID + CLID) (b) Name of Shareholder (c) Self attested scanned copy of Client master or copy of Consolidated Account statement (d) Self attested scanned copy of PAN card (e) Self attested scanned copy of Aadhar Card by email to compliance.officer@shrirampistons.com.

Shareholders are advised to claim the unclaimed dividend amount starting from the year 2012-13 onwards by sending a formal letter mentioning beneficiary account no. or folio no. along with self-attested copy of PAN Card and address proof immediately to KFin Technologies Pvt. Ltd., Registrar and Share Transfer Agent of the Company.

COMPANY NOTICE SHIRAM PISTONS & RINGS LTD.

Regd. Office : 3rd Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001

Notice is hereby given that : 1. The 56th Annual general Meeting of the Company ("56th AGM") will be held on Tuesday, 11th August, 2020 at 5:00 PM IST through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC/ OAVM") facility to transact the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular").

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

BRANCH : NISHATGANJ, LUCKNOW

POSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank, Branch Nishatganj, Lucknow UNDER SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13 read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices as detailed here in below calling upon the Borrower/ Guarantor to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

Table with 4 columns: S. No., Name & Address of the Account/ Borrower/ Guarantor, Description of the charged/ mortgaged property (all the part & parcel of the property consisting of), Date of Demand Notice, Dt. of Possession, Amt. Outstanding. Includes details for Sri Uma Singh Pal and M/s T.S. Motors India Pvt. Ltd.

Date-16.07.2020, Place- Lucknow (Authorized Officer)

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that our client, M/s. Muthoot Finance Ltd. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi - 682018, Kerala, India CIN: L65910KL1997PLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 31.12.2018), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate.

PATBACK BUSINESS LIMITED

Regd. Off: Shop No.325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is to be held on Wednesday, July 22, 2020 at the registered office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended 30 June 2020 and any other business with permission of Chair if any.

Form No. INC-25A

Advertisement for Conversion of Public Company into a Private Company

SUNIL KUMAR AGRAWAL

Regd. Office: 17, 20/20, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085. Ph: 91-11-26111111. Email: sunil@skg.com



VLS FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065, Ph: 91(11) 46656666
 Fax: 91(11) 46656699 CIN: L65910DL1986PLC023129, Email: vls@vlsfinance.com; Website: www.vlsfinance.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
	Quarter Ended		Year Ended		31.03.2020	Quarter Ended		Year Ended		31.03.2020
	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020		31.03.2019	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	
Revenue from continuing operations	4,151.07	544.97	801.43	(54.51)	1,355.04	4,821.20	584.80	764.88	775.94	1,521.85
Net Profit/(Loss) for the period before tax (Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	3,785.89	(1,579.69)	(206.60)	(1,228.01)	(1,114.29)	4,433.82	(1,588.08)	(393.01)	(482.56)	(1,306.89)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	3,785.89	(1,579.69)	(206.60)	(1,228.01)	(1,114.29)	4,433.82	(1,588.08)	(393.01)	(482.56)	(1,306.89)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	7,683.55	(1,658.98)	39.13	3,248.76	(162.17)	8,273.54	(1,677.91)	(215.31)	3,925.08	(418.03)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	7,683.55	(1,658.98)	39.13	3,248.76	(162.17)	8,273.54	(1,677.91)	(215.31)	3,925.08	(418.03)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	7,683.55	(1,658.98)	39.13	3,248.76	(162.17)	8,273.54	(1,677.91)	(215.31)	3,925.08	(418.03)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period)	4,107.64	8,385.21	2,311.92	18,685.98	3,126.75	8,290.79	19,969.72	5,951.67	47,145.58	11,325.10
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share)	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42
Reserves excluding Revaluation reserves as per Balance Sheet as on March 31, 2020				85,311.03	67,097.48				171,536.36	124,863.21
Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/- each)	(**)	(**)	(**)			(**)	(**)	(**)		
-Basic (not annualised) (**)	19.87	(4.29)	0.10	8.40	(0.42)	21.40	(4.34)	(0.56)	10.15	(1.08)
-Diluted (not annualised) (**)	19.87	(4.29)	0.10	8.40	(0.42)	21.40	(4.34)	(0.56)	10.15	(1.08)
Earning Per Share (after Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)			(**)	(**)	(**)		
-Basic (not annualised) (**)	19.87	(4.29)	0.10	8.40	(0.42)	21.40	(4.34)	(0.56)	10.15	(1.08)
-Diluted (not annualised) (**)	19.87	(4.29)	0.10	8.40	(0.42)	21.40	(4.34)	(0.56)	10.15	(1.08)

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/Annual financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd. (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). The specified items of the standard financial results of the Company for the quarter and for the year ended March 31, 2020 are given above.
 2. The Company has adopted Indian accounting standards (IND AS) with effect from 1 April, 2019 and consequently, these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in 'IND AS 34-interim Financial Reporting' prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. The date of transition to Ind AS is 1 April, 2018 and the impact of transition has been accounted for in opening reserves and the comparative period results disclosed here are restated accordingly.
 3. The Board of Directors have recommended dividend of Rs.1.50/-per equity share on Face Value of Rs.10/- per share for the financial year ended on March 31, 2020 subject to approval of the members at the ensuing Annual General Meeting.
 4. The figures for the quarter ended 31st March, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures up to third quarter of the relevant financial year.
 5. Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period classification.

Place: New Delhi
 Date: 16-07-2020

By order of the Board
 for VLS Finance Limited
S.K. AGARWAL
 Managing Director
 DIN:00106763

बैंक ऑफ बड़ोदा BANK OF BARODA

Branch:- Stressed Assets Recovery Branch, Agra
POSSESSION NOTICE (for immovable property under Rule 8(1))
 The Authorized Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortgagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrowers/guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.

Name of the Borrowers /Guarantors	Details of the Mortgaged Property	Date of Demand notice	Date of possession	Amt. Due as per demand Notice
M/S Kadamb Industries, Proprietor- Mr. Deepak Kumar.	All that part & parcel of equitably mortgaged of Residential property being land & building constructed on Plot no. 125, part of khasra no.179, New Raj Nagar Shahdara, Mauza Chalesar, Teh. Etmadpur, Dist- Agra (Uttar Pradesh) Area Admeasuring 170.60 Sq. Mtr or 204.05 Sq. Yards standing in the Name of Mr. Deepak Kumar S/o Mr. Kishan Lal and Mrs. Sunita W/o Mr. Deepak Kumar. Bounded As: East: 16 Ft Wide Road, West: Plot Others, North: Remaining Part of Plot of Rajesh Agarwal, South: Road 12 Ft Wide.	04.01.2020	13.07.2020	Rs. 18,03,436.00 + Interest from 01.01.2020 & other expenses

Date:- 18.07.2020 Place:- Agra Authorised Officer

J&K Bank
 Serving To Empower
 The Jammu And Kashmir Bank
 Central Stationary Department
 Nowgam, Bye-Pass, Srinagar
 J&K 190 015.

Notice for e-Tender (e-NIT)
 for
Supply of Printer Stationery Items
 Tender Notice along with Complete tender document outlining the minimum requirements can be downloaded from the Bank's e-Tendering Service Provider portal <https://eauction.auction-tiger.net> from July 18, 2020 16.00 Hrs onwards. Notice of the Tender and Tender Document can also be downloaded from Bank's Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids is August 12, 2020, 17.00 Hrs.

PUBLIC NOTICE
 All concerned may take notice that a meeting of the Board of Directors of Himani Resorts Private Limited, The Mall, Solan (HP) shall be held on Friday, the 24th day of July, 2020 at 11:00 AM at 355, BRS Nagar, Ludhiana, Punjab. The notice alongwith agenda have been despatched to all the directors of the company at their given address(es).
FOR HIMANI RESORTS PRIVATE LIMITED
 sd/- (Dinesh Gupta)
 MANAGING DIRECTOR
 Place: Solan Date: 17 July, 2020

S. E. RAILWAY – TENDER
 e-Tenders against Open Tenders are invited by the DR/ENGG/CKP S. E. Railway for & on behalf of the President of India for the following works. Manual offers are not allowed against this tender and any such manual offer received shall be ignored. SI. No. & Tender Notice No.: Name of Work, Tender Value; EMD : (1) CKP-SOUTH-20-21-4, dated : 17.07.2020; Placement of 10T & 1T capacity truck for carrying Railway materials of South Eastern Railway, Chakradharpur Division under the jurisdiction of SSE (P. way)/DPS under Sr. DEN (South)/CKP for the 03 (three) years; ₹ 18,15,388.08; ₹ 36,300/- (2) CKP-SOUTH-20-21-5, dated : 17.07.2020; Through sleeper renewal (Primary) of existing PSC-60 kg sleeper (1660 Nos/Km) with new PSC-60 Kg sleeper (1660 Nos/Km wider base PSC sleeper) with elastic fastening including deep screening/raising of ballast cushion to the standard of 35 cm for 37.50 km in between section NOMB-BYX, BJMD-GX & PDPH-BSPX, CKP Division under jurisdiction of Sr DEN (South)/CKP; ₹ 4,71,01,626.13; ₹ 3,85,500/- Cost of Tender Form : ₹ 2,000/- for sl. no. 1 and ₹ 10,000/- for sl. no. 2. Date of Opening: 07.08.2020 for both. The tender can be viewed at website <http://www.ireps.gov.in>. The tenders/bidders must have Class-III Digital Signature Certificate & must be registered in IREPS Portal. Only registered tender/bidder can participate on e-tendering. All relevant paper must be uploaded at the time of participating in e-tendering. (PR-160)

PUBLIC NOTICE
 The general public is hereby informed that Mr. Ajay Aggarwal and Mrs. Rachana Aggarwal have filed a court case/Company Petition before the National Company Law Tribunal against the company named Himani Resorts Private Limited, The Mall, Solan (HP). Therefore, all concerned are hereby cautioned not to deal with or enter into any business transaction / contracts with Mr. Ajay Aggarwal and Mrs. Rachana Aggarwal in case both of them or any one of them represent as the Director(s) of Himani Resorts Private Limited. In case any member(s) of the general public deals/execute any documents / contracts with these persons qua the company (Himani Resorts Private Limited), he or she will do so at their own cost and risk. Notice is further given that the company has never appointed Mr. Rajender Sharma as its director or additional director.
FOR HIMANI RESORTS PRIVATE LIMITED
 sd/- (Dinesh Gupta)
 MANAGING DIRECTOR
 Place: Solan Date: 17 July, 2020

UCO BANK
 (A Coop. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE: H-46, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001
POSSESSION NOTICE (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) whereas the undersigned being the Authorized Officer of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 18.02.2020, calling upon the Borrowers: M/s. FLAXEN EXIM PRIVATE LIMITED and Guarantor: M/s. Energetic Traders Pvt. Ltd., Rajbeer Singh Wadhawan, Sandeep Singh Taryal, Inderpal Singh and Nirupama Wadhawan, Tarantal Wadhawan and Anjan Wadhawan, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.76,40,782.85 (Rupees Seventy Six Lakhs Forty Thousand Seven Hundred Eighty Two and Paise Eighty Five Only) as on 31.01.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01.02.2020. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 14th Day of July of the Year 2020. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, for an amount of Rs.76,40,782.85 (Rupees Seventy Six Lakhs Forty Thousand Seven Hundred Eighty Two and Paise Eighty Five Only) as on 31.01.2020 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01.02.2020. **The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.**
DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY
 (1) Ground Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
 (2) 1st Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
 (3) Entire Terrace over and above 2nd Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Bounded by:
 North: Plot No.23 South: Plot No.25
 East: Street No.D-1 (45 Feet Wide)
 West: 15 Feet Service Road
PLACE: NEW DELHI Authorised Officer,
DATE: 14.07.2020 UCO BANK

UCO BANK
 (A Coop. of India Undertaking)
BRANCH OFFICE: H-46, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001
POSSESSION NOTICE (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) whereas the undersigned being the Authorized Officer of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 18.02.2020, calling upon the Borrowers: M/s. FLAXEN EXIM PRIVATE LIMITED and Guarantor: M/s. Energetic Traders Pvt. Ltd., Rajbeer Singh Wadhawan, Sandeep Singh Taryal, Inderpal Singh and Nirupama Wadhawan, Tarantal Wadhawan and Anjan Wadhawan, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.76,40,782.85 (Rupees Seventy Six Lakhs Forty Thousand Seven Hundred Eighty Two and Paise Eighty Five Only) as on 31.01.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01.02.2020. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 14th Day of July of the Year 2020. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, for an amount of Rs.76,40,782.85 (Rupees Seventy Six Lakhs Forty Thousand Seven Hundred Eighty Two and Paise Eighty Five Only) as on 31.01.2020 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01.02.2020. **The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.**
DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY
 (1) Ground Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
 (2) 1st Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
 (3) Entire Terrace over and above 2nd Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Bounded by:
 North: Plot No.23 South: Plot No.25
 East: Street No.D-1 (45 Feet Wide)
 West: 15 Feet Service Road
PLACE: NEW DELHI Authorised Officer,
DATE: 14.07.2020 UCO BANK

BASANT INDIA LIMITED
 R.O. 912 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road , New Delhi 110001
 Email Id: basant.india@gmail.com | Website: www.basantindia.in
 Tel. No. 011-237165341 | CIN: U51909DL1985PLC021396

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 25th July, 2020 at 3.00 p. m. at its Registered office situated at 912, Indra Prakash Building, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001, inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial results for the quarter and year ended 31st March, 2020 in accordance with the Regulation 33 of the Listing Regulation.
For Basant India Limited
 Sudhanshu Sekhar Nayak
 Company Secretary

ORIENT BELL LIMITED
 CIN: L14101UP1977PLC021546
 Regd. Off.- 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205 Dist. Bulandshahr, U.P. Corp. Off.- Iris House, 16, Business Center, Nangal Raya, New Delhi - 110046
 Tel.- +91-11-47119100, Email Id: investor@orientbell.com
 Website: www.orientbell.com

INFORMATION REGARDING 43rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)
 In Compliance with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), and Securities and Exchange Board of India (SEBI), Notice is hereby given that:
 1. The 43rd AGM (Annual General Meeting) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 13th day of August, 2020 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and 20/2020 dated 5th May, 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice.
 2. Company's Registered office i.e. 8, Industrial Area, Sikandrabad-203 205, Distt. Bulandshahr (U.P.) will be considered as venue for the purpose of the AGM.
 3. In compliance with relevant Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent electronically to those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.orientbell.com as well as on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
 4. The Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 07th August, 2020 to 13th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the Shareholders attending the AGM.
 5. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting by electronic means through NSDL Platform and the businesses may be transacted through such voting. It may be noted as under:
 a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 06th August, 2020, may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.
 Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 06th August, 2020, may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or admin@mcsregistrars.com by mentioning his/her Folio No./ DP ID and Client ID. However, if he/she is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use existing user ID and password for casting the vote.
 b) The remote e-voting period commences on Monday, 10th August, 2020 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 12th August, 2020 at 05:00 P.M.(IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
 c) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
 d) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VCOAVM but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.
 e) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting.
 6. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available during the AGM and the Members participating in the AGM through VCOAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting.
 7. The Board has appointed Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary as Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during the meeting in a fair and transparent manner.
 8. Members holding shares in physical form or Demat form and have not registered their e-mail addresses, may procure User-ID and Password in the following manner for casting their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting:
 a) In case shares are held in physical mode, by writing to the Company with details of Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) at investor@orientbell.com.
 b) In case shares are held in demat mode, by writing to the Company with details of DP-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) at investor@orientbell.com.
 9. Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address and mobile number by communicating/writing to the Company at investor@orientbell.com or to Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited, F-85, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi- 110 020. Tel. No. 011-41406149 at admin@mcsregistrars.com and the members who are holding shares in demat form, can update their email address and mobile numbers with their respective Depository Participants.
 10. For any queries, members may contact the undersigned at +91-11-47119100 or may write to the undersigned at investor@orientbell.com or send their queries to the Corporate Office address at Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110046.
For Orient Bell Limited
 Sd/-
 Yogesh Mendiratta
 Company Secretary & Head-Legal

CAN FIN HOMES LTD.
 SCO - 34 & 35, 1st Floor, Above Canara Bank, Sector-10A, Gurgaon
 Ph: 0124-2370035, 2370760, CIN No. L85110KA1987PLC008699

APPENDIX- IV A
[See proviso to rule 8 (6)]
Sale notice for sale of immovable properties
 SALE NOTICE for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002
 NOTICE is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., Gurgaon Branch, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 22.08.2020, for recovery of Rs. 32,11,023 (Rupees Thirty Two Lakh eleven thousand and twenty three only) due to Can Fin Homes Ltd. from Chanda Devi & Ashok Rajbhar (Borrowers) and Rajesh Kumar Singh s/o Keshav Singh (Guarantors), as on 08.05.2019, together with further interest and other charges thereon. The reserve price will be Rs. 37,00,000 (Rupees Thirty seven lakh only) and the earnest money deposit will be Rs.3,70,000 (Rupees Three Lakh Seventy Thousand Only)
Schedule of the property
 (HOUSE NO 1565/77, KH NO-1142/4365/3217791-66 TA 11448/79/7, BLOCK-G, RAJENDERAPARK, GURGAON)
 The detailed terms and conditions of the sale are provided in the official website of Can Fin Homes Ltd., (www.canfinhomes.com). Please refer to the following link <https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx>
 Date:17.07.2020 Sd/- Authorized Officer,
 Place : Gurgaon Can Fin Homes Ltd.

THE DELHI STATE COOPERATIVE BANK LTD.
 (A SCHEDULED BANK)
 Head Office : 31, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110 002

ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	(Amount in Rupees)	
	Current Year As at 31.03.20	Previous Year As at 31.03.19
CAPITAL AND LIABILITIES		
Share Capital	167,465,870.00	151,246,560.00
Reserve Fund and Other Reserves	2,962,880,310.38	2,731,171,114.83
Deposits & Other Accounts	12,204,943,087.64	11,857,784,470.68
Borrowings	-	24,858,328.00
Bills for Collection Being Bills Receivable (as per contra)	1,142,615.70	1,033,678.70
Overdue Interest Reserve	390,488,850.95	423,547,044.94
Other Liabilities, Provisions & Interest Payable	450,821,084.93	455,887,374.88
Branch Adjustment	-	2,223,735.41
Profit & Loss A/c	222,832,830.75	238,113,998.79
TOTAL	16,400,574,650.35	15,883,642,570.82
ASSETS		
Cash & Balance with RBI, SBI, SCBs & CCBs	441,851,233.45	536,820,946.30
Balance with Other Banks	-	-
Money at Call & Short Notice	4,560,835,919.86	3,999,366,280.66
Investments	2,374,980,000.00	2,632,130,000.00
Advances (Net of NPA Provision)	8,188,097,203.52	7,894,832,226.02
Branch Adjustment	-	-
Fixed Assets	187,066,519.61	191,923,701.75
Interest Recoverable	390,488,850.95	423,547,044.94
Bills Receivable Being Bills for Collection (as per contra)	1,142,615.70	1,033,678.70
Other Assets	242,092,311.73	184,292,294.73
Deferred Revenue Expenditure	14,019,995.53	17,472,662.31

Sebi puts in place system to give exit option to dissenting unit holders of REITs, InvITs

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 17

MARKETS REGULATOR SEBI on Friday came out with a mechanism to provide exit option to dissenting unit holders of emerging investment vehicles REITs and InvITs.

Sebi said the acquirer will facilitate tendering of units by the unitholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism for the purpose of takeover, buy-back and delisting in case of equity listed companies.

An acquirer providing exit option to dissenting unitholders of REITs (Real Estate Investment Trusts) and InvITs (Infrastructure Investment Trusts)

needs to appoint one or more merchant bankers as lead manager(s) for the exit offer, Sebi said in two separate circulars.

The acquirer through the lead manager will give a public notice to stock exchange(s) and investment manager regarding his intention of providing exit option to dissenting unit holders.

Upon receipt of public notice, investment manager will immediately but not later than 24 hours provide the list of dissenting unit holders to the lead manager.

Sebi said the acquirer, through the lead manager, will send the Letter of Offer (LoF) to all dissenting unit holders within three days of

public notice and file a copy of the same with the stock exchanges.

Further, the lead manager will exercise due diligence with regard to all information and disclosures contained in the LoF. Thereafter, the stock exchanges will disseminate the LoF on its website as soon as it receives the same.

No can touch even an inch of India's land: Rajnath, hopes talks will resolve border standoff with China

PRESS TRUST OF INDIA Lukung (Ladakh), July 17

ON A VISIT to Ladakh, defence minister Rajnath Singh on Friday hoped the ongoing talks would resolve the border standoff with China but said he cannot guarantee the extent of success, and asserted that no power in the world can touch even an inch of India's land.

ITBP jawans at a forward post in Lukung, Singh said if there is an attempt to hurt the self-respect of India, then it will not be tolerated and will be given a "befitting reply".

"Whatever progress has been made in the talks, there should be a resolution of the matter. But to what extent it will be resolved, I cannot guarantee. However, I would like to assure that no power in the world can touch even one

inch of India's land, nobody can occupy it," the defence minister said at the post located on the banks of the Pangong Tso lake in eastern Ladakh.

Indian and Chinese troops are locked in a bitter standoff in multiple locations in eastern Ladakh for over eight weeks since May 5. The tension escalated manifold after the violent clashes in Galwan Valley.

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE						
Sr. No.	NAME OF BOARD/CORP./AUTH	NAME OF WORK NOTICE TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE (TIME)	AMOUNT / END (APPROX.) IN RUPEES	WEBSITE OF THE BOARD CORP./AUTH	MODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/EMAIL
1	HC SONPAT	SUPPLY AND FIXING OF SPRUCE TREE GUARD IN VARIOUS PLACE IN SONPAT.	OPENING CLOSING DATE 30.07.2020	11.04 LACS	https://etenders.hry.nic.in	sonpatnct@gmail.com
2	MUNICIPAL COMMITTEE GANAJUR	DRAIN CONNECTION TO SEWER LINE (IN COMPLIANCE OF NGT INSTRUCTIONS) MC GANAJUR. + 1 OTHER WORK	CLOSING DATE 29.07.2020	74 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9973262330 Pr.vij102@gmail.com
3	MUNICIPAL COMMITTEE, NANGAL CHOUDHARY	CONST. OF ROAD FROM H/O SANJAY TO H/O NANGI SHARMA WARD NO.3 + 1 OTHER WORK	CLOSING DATE 29.07.2020	20.87 LACS	https://www.etenders.hry.nic.in	secymnch@gmail.com 01799-231400
4	HISABIL, PIPRI (ROR)	CONSTRUCTION OF PUBLIC TOILET IN NEW GRAIN MARKET PIPRIKOLA, + 1 OTHER WORK	CLOSING DATE 04.08.2020	10.97 LACS	https://etenders.hry.nic.in	(samk12019@gmail.com)
5	MUNICIPAL CORPORATION GURUGRAM	CONSTRUCTION OF CIVIL WORK, ELECTRIC WORK, PLUMBING WORKS LT. ATUL KATARIA GOVT. GIRLS SCHOOL IN VILLAGE GURUGRAM, WARD NO.8, 202M-12, GURUGRAM, + 4 OTHER WORKS	CLOSING DATE 14.07.2020	END 9.48 LACS	https://etenders.hry.nic.in	MCG.es2@mcg.gov.in
6	HYPNL	PAINTING OF UN-GALVANIZED TOWERS OF 66 KV D/C JORDAN YNR LINE INCLUDING LABOUR & MATERIAL	CLOSING DATE 27.07.2020	3.80 LACS	https://www.hypn.org.in	0172-2583789 prof@hypn.org.in
7	MUNICIPAL COMMITTEE, LADWA	CONST. OF STREET FROM HINDU ROAD TO H/O SUNITA DEVI IN WARD NO. 7, LADWA + 12 OTHER WORKS	CLOSING DATE 27.07.2020	60,000/-	www.etenders.hry.nic.in	MUNICIPAL ENGINEER
8	HYPNL, PANCHKULA	66KV GIS SUBSTATION PHASE-1, UDYOG VIHAR, GURUGRAM WITH LLD OF ONE CIRCUIT OF 66KV DUNDAHERA Ph-2V - SEC-23A D/C LINE AT PROPOSED 66KV S/STN UDYOG VIHAR PH-1 (GIS) HESIDE GURUGRAM THROUGH UNDERGROUND CABLE & CORE OF SIZE 1200MM ² BY HYPNL AND CREATION OF DOUBLE CIRCUIT UNDERGROUND XLPE CABLE OF SIZE 1200MM ² (8 SINGLE CORE CABLE) FROM 220KV S/STN SEC-20 TO HESIDE PHASE-1 UDYOG VIHAR (GIS)	CLOSING DATE 31.08.2020	END 29 LACS	https://www.hypn.org.in	0172-2583789 prof@hypn.org.in
9	HYPNL, PANCHKULA	CONVERSION OF PART SECTION OF 66KV D/C DELHE-GURUGRAM LINE FROM OVERHEAD TO UNDERGROUND FROM T.L. NO. 112 TO T.L. NO. 116 IN NEW ALIGNMENT PASSING THROUGH H/S ATUL KATARIA SCHOOL AND SHREE MATTA SHEETLA NELA GROUND GURUGRAM	CLOSING DATE 26.08.2020	END 5.13 LACS	https://www.hypn.org.in	0172-2583789 prof@hypn.org.in
10	HARYANA SEEDS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED	INSURANCE OF STOCKS AND FIXED ASSETS OF THE CORPORATION	CLOSING DATE 17.07.2020	-	https://etenders.hry.nic.in	9417669911 hsd3@hry.nic.in
11	THE SHAHAB COOP. SUGAR MILLS LTD., SHAHABAD (M), DISTT. KURUKSHETRA, (HR.)	SUPPLY, ERECTION AND COMMISSIONING OF REQUIRED MATERIAL TO SATISFACTORY SPH LEVEL AS PER NORMS (AND DOWN BY REDUCTION OF OUR EXISTING ESP EQUIPMENTS AT 125 TON BOILER OF STISON, INDIA MAKE	CLOSING DATE 17.07.2020	AS PER TENDER	www.etenders.hry.nic.in	9997702826 scmscp@gmail.com
12	MUNICIPAL COMMITTEE KALAYAT	RFP FOR DOOR TO DOOR COLLECTION, SEGREGATION, TRANSPORTATION AS WELL AS PROCESSING OF WASTE. 2020 HRJY 136296	CLOSING DATE 31.07.2020	96000/-	https://etenders.hry.nic.in	secretarymckalayast@gmail.com
13	THE SIRSA DIST. COOP. MILK PROD. UNION LTD.,	HIRING OF VEHICLES FOR THE ARMY CANTT. & OTHER INSTITUTIONS HESAR FOR SUPPLY OF MILK & MILK PRODUCTS	CLOSING DATE 20.07.2020	50000/-	https://etenders.hry.nic.in or vladinda.org.in	01666-2245050 wassrs@gmail.com
14	HISABROD, KARNAL	SPECIAL REPAIR OF VARIOUS LINK ROADS IN THE NOTIFIED AREA OF MARKET COMMITTEE (NARI TARAGRI AND NOLKHERI UNDER WORK PLAN 2020-21 (PHASE-I) GROUP-1 ROAD ID H-3904, 3933, 4034, 4054, 4065, 4066 + 3 OTHER WORKS	CLOSING DATE 05.08.2020	17.29 LACS	https://etenders.hry.nic.in	1842220964
15	H.S.A.M. BOARD, FANPAT	SPECIAL REPAIR OF VARIOUS LINK ROADS IN FANPAT DIVISION UNDER WORK PLAN 2020-21 GROUP-I (ROAD ID: 4070, 3467, 3471, 4732) + 3 OTHER WORKS	CLOSING DATE 06.08.2020	END 7.94 LACS	https://etenders.hry.nic.in	0180-2661236 asmpg2019.namb@gmail.com

PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED			
Regd. Office : L-7, Menz. Floor, Green Park Extension, South Delhi - 110016 CIN - L65910DL1988PLC03799, Email : purshottaminvestofin@gmail.com Tel : 011-46067802, Website : www.purshottaminvestofin.in			
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 th JUNE, 2020 (Rs. In Lacs except EPS)			
S. No.	Particulars	Quarter Ended	Year Ended
		30.06.2020 UNAUDITED	31.03.2020 UNAUDITED
1	Total Income from Operation (Net)	105.68	1,299.16
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	60.25	30.38
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	60.25	30.38
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	60.25	22.64
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	60.25	14.94
6	Paid-up Equity Share Capital	628.36	628.36
7	Reserves (excluding Revaluation reserve as Shown in the Balance Sheet of previous year)	2,338.34	2,375.71
7	Earnings Per Share (EPS) (in Rs.) Basic and Diluted EPS	0.96	0.240

ITIs to relax admission criterion due to partial cancellation of class 12 exams: HRD minister PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, July 17

THE INDIAN INSTITUTE of Technology (IIT) have decided to relax admission criterion this year in view of partial cancellation of class 12 exams by various boards, Union HRD minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank' announced on Friday.

"Due to the partial cancellation of class XII exams by several boards, Joint Admission Board (JAB) has decided to relax the eligibility criterion for JEE (Advanced) 2020 qualified candidates this time.

"Qualified candidates who have passed class XII examinations will now be eligible for admissions irrespective of marks obtained," the minister said in a series of tweets.

For admissions to IITs, apart from qualifying the JEE (Advanced), the eligibility was to secure either minimum score of 75% marks in class 12 board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations, they tweeted.

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 04.08.2020, for recovery of below mentioned due to the Secured Creditor from respective Borrowers, Sureties. (For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website i.e. www.canarabank.in)

Sr. No.	Name of the Borrowers/Sureties	Due Amount	Description of Property/ies	Reserve Price	EMD	Branch Name Address/Contact
1.	Borrower/s:- 1. M/s Shiv Shakti Construction and Builders, H. No. 2435, Devi Chaat Wail Gali, Ghokha More Distt - Ghaziabad. 2. Sri Anand Kumar, H.No. 355, Gali No. 4, New Daulat Pura, Jai Prakash Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001.	Rs. 41,61,702.14 (Rupees Forty One Lakhs Sixty One Thousand Seven Hundred Two and Paise Fourteen Only) as on 30/06/2020 is due along with interest and cost etc.	Plot no. 144, Radhey Shyam Vihar III on part of Kharsa no. 591, Village Basantpur Sainitali, Delhi - Meerut Road, Ghaziabad, U.P. 201206 with area 144.36 sq. mtr.	Rs. 24,30,000/- (Twenty Four Lakh Thirty Thousand only)	Rs. 2,43,000/- (Two Lakh Forty Three Thousand only)	Branch Trade Tax, Ghaziabad Ph. 0120 - 2780091

Date: 17.07.2020 Regional Office Ghaziabad Authorised Officer, Canara Bank

E-AUCTION SALE NOTICE

ANNEXURE-E SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES "APPENDIX-IV-A [SEE PROVISIO TO RULE 6(2) & 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Mortgagee(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of dues in below mentioned account(s). The details of Borrower(s) / Mortgagee(s) / Guarantor(s) / Secured Asset(s) / Dues / Reserve Price / E-Auction Date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below:-

Sr. No.	Branch	Name & Address of Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagee(s)	Description of the Movable / Immovable Property with known encumbrances, if any	Total Dues	Date & Time of E-Auction	Reserve Price		Status of Possession (Constructive / Physical)	Property Inspection Date & Time	Name of the contact person and contact number
						EMD	Bid Increase Amount			
1.	SCPB-34, Chandigarh (A-1) (A-1)	Borrower(s):- Goel Marbles Pvt. Ltd., Rapur Khanda, Near Airport Chowk, Ambala Highway, Chandigarh. Guarantor(s):- Mrs. Navita Goel W/o Sh. Anuj Goel, Mr. Anuj Goel, Both are the Directors of the Company.	Land and Building measuring area 1005 sq. yards situated at Khawat No. 243, Khawat No. 402, Khawat No. 115/21(1-0), Bewala Road, Village Saldpara, Derabassi, District Mohali, Punjab-140027.	Rs. 1,08,72,408.56 and interest thereon.	10.08.2020 from 01:00 P.M. to 03:00 P.M.	Rs. 78.07 Lacs Rs. 7.99 Lacs Rs. 25,000/-	Physical Possession	27.07.2020 & 28.07.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M.	Chief Manager, Mob.: 7579043901	
2.	Bank of Baroda, Jagadhri Branch, Haryana	Borrower(s):- (1) Mr. Sham Sunder S/o Ram Singh (2) Mrs. Kamlesh Rani W/o Shri Sham Sunder. Property stands in the name of Mrs. Kamlesh Rani W/o Shri Sham Sunder AND Guarantor(s):- Sh. Neeraj S/o Sh. Jai Parkash.	EM of Residential property situated at House on part of Plot No. 1, Property No. No. 328C478J242, measuring 108.33 Sq. Yards bearing property ID No. 328C478J242, situated at, Waska Mauja, Chandpur Mousama, Veena Nagar, Yamunanagar, Tehsil Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar, Purchased vide Regd Sale Deed No. 3256 dated 25.06.2016 in the name of Mrs. Kamlesh Rani W/o Shri Sham Sunder.	Rs. 22,51,610.25 plus unapplied interest and other charges w.e.f. 01.07.2019.	10.08.2020 from 01:00 P.M. to 03:00 P.M.	Rs. 16,75,000/- Rs. 1,57,500/- Rs. 20,000/-	Physical Possession	27.07.2020 & 28.07.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M.	[Auth. Officer] M: 9726126040 Ph.: 01732 - 223611	
3.	Yamuna Nagar Branch	M/s Vishnu Industries (Borrower) Balwinder Kumar S/o Shri Manohar Lal (Partner & Mortgagee), Mr. Sandeep Gaba S/o Shri Om Prakash Gaba (Partner), Mr. Ankur Behl S/o Shri Rakesh Behl (Partner). Guarantor(s):- Property stands in the name of Balwinder Kumar S/o Shri Manohar Lal.	(1) Land measuring 00K-16M situated at Mouja Miyampur, H.B. No. 51, Tehsil Bhisapur, Distt. Yamunanagar, Purchased vide Regd. Sale Deed No. 1794 dated 04.09.2013 read with mutation No. 799 & Jamabandi for the year 2012-2013, details under:- (a) Land measuring 00K-01M being 11273 share out of land measuring 13K-13M comprising in Khawat No. 42/99 Khatauni No. 71 to 74 & 76 Kharsa No. 26/10/22, 10/3, 25/5/22, 10/4, 11/4, 25/5/22, 26/11/1, 11/3, 26/11/2. (b) Land measuring 00K-10M comprising in Khawat No. 47/142 Khatauni No. 83 & 84 Kharsa No. 32/18/1 Min. 32/18/1 Min (c) Land measuring 00K-12M being 12/152 share out of land measuring 07K-12M comprising in Khawat No. 55/50 Khatauni No. 94 Kharsa No. 15/21. (2) Land measuring 00K-16M situated at Mouja Miyampur, H.B. No. 51, Tehsil Bhisapur, Distt. Yamunanagar, purchased vide Regd. Sale deed No. 1792 dated 04/09/2013 read with mutation No. 797 & Jamabandi for the year 2012-2013, detail as under:- (a) Land measuring 00K-04M being 7/259 share out of land measuring 06K-05M comprising in Khawat No. 43/40 Min Khatauni No. 77 & 78 Kharsa No. 32/19 Min. 32/19 Min (b) Land measuring 00K-03M being 7/293 share out of land measuring 0K-13M comprising in Khawat No. 44/40 Khatauni No. 79 & 80 Kharsa No. 32/12 Min. 32/12 Min. (c) Land measuring 00K-03M being 5/266 share out of land measuring 08K-00M comprising in Khawat No. 45/41 Min Khatauni No. 81 Kharsa No. 32/2. (d) Land measuring 00K-02M being 3/296 share out of land measuring 06K-16M comprising in Khawat No. 46/41 Min Khatauni No. 82 Kharsa No. 32/3. (e) Land measuring 00K-04M being 4/110 share out of land measuring 05K-10M comprising in Khawat No. 47/142 Khatauni No. 83 & 84 Kharsa No. 32/18/1 Min. (3) Land measuring 02K-06M situated at Mouja Miyampur, H.B. No. 51, Tehsil Bhisapur, and Distt. Yamunanagar, purchased vide Regd. Sale deed No. 1793 dated 04/09/2013 read with mutation No. 800 & Jamabandi for the year 2012-2013, detail as under:- (a) Land measuring 01K-02M being 22/150 share out of land measuring 00K-00M comprising in Khawat No. 45/41 Min Khatauni No. 81 Kharsa No. 32/2. (b) Land measuring 01K-04M being 24/136 share out of land measuring 06K-16M comprising in Khawat No. 46/41 Min Khatauni No. 82 Kharsa No. 32/3. TOTAL AREA [a+b+c] 02K-18M, self occupied, Agriculture being used for Industrial Purposes, Bounded: East by: Road, West by: Naha; North by: Gohar; South by: Yasan.	Rs. 33,46,320.50 + interest and charges with effect from 01.09.2019	10.08.2020 from 01:00 P.M. to 03:00 P.M.	Rs. 8,55,000/- Rs. 85,500/- Rs. 10,000/-	Physical Possession	27.07.2020 & 28.07.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M.	Chief Manager, Yamunanagar Branch, Mob.: 8389009332 Ph.: 01732-229711 / 229511	
4.	BOB (VBI) Nari ChintpurniUna	Borrower(s):- M/s Satyam Prasad Bhandar Prop. Amit Kalia, Nari chintpurni, Near Gopi Hospital Road, Tehsil Bharwain, District Una, Pin-177110 (2) Shri Amit Kalia (Borrower & Prop.) S/o Late Sh. Bharat Bhusan Kalia Prop. Satyam Prasad Bhandar R/o VPO Nari Chintpurni, Sub Tehsil Bharwain, Tehsil Amb, District Una Pin-177110	Registered Mortgage of Hotel Land and Building situated at village Mahal Nari, Sub Tehsil Bharwain & District Una (H.P.) in ownership of Amit Kalia is having total land measuring 00-05-59 (j) Land measuring 00-05-56 hec, being 3287/25200 share out of land measuring 00-42-85 hec comprised in Khawat No. 367 Khatauni No. 474, Kharsa No. 3291, Khasa-1 (8) Land measuring 00-00-43 hec, comprised in Khawat No. 135, Khatauni Number 106, Kharsa no. 357/13529/3303 Khasa-1. As entered in Jamabandi: 2009-2010 situated in Mahal Nari, Tehsil Amb, District Una, (H.P.) Pin-177110 with Super structure thereon if any, North: Open Land of Owner; South: BT Road & Shop; East: Open Land of Sh. Raghu S/o Late Sh. Chandu Ram; West: House of Late Sh. Anant Ram. Guarantor:- Shri Ankur Kalia S/o Late Sh. Bharat Bhusan Kalia, R/o VPO Nari Chintpurni Sub Tehsil Bharwain, Tehsil Amb, District Una, Pin-177110.	Rs. 2,16,36,853.71 as on 31.01.2019 + Interest & Other Charges w.e.f. 01.02.2019	10.08.2020 from 01:00 P.M. to 03:00 P.M.	Rs. 2,50,45,400/- Rs. 25,04,540/- Rs. 50,000/-	Physical Possession	27.07.2020 & 28.07.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M.	Branch Manager, Mob.: 9517703136, Ph.: 01976-235501	
5.	Near Rotary Chowk, Una, H.P.	Borrower(s):- M/s Chinmaslika Wholesale Store, through its Prop. Mr. Ankur Kalia S/o Late Sh. Bharat Bhusan Kalia. Guarantor(s):- (1) Mr. Amit Kalia S/o Late Sh. Bharat Bhusan Kalia (2) Mr. Ganesh Dutt S/o Baldev Prakash.	Registered mortgage of land measuring 00-01-74 Hec. being 24292/377020 share out of land measuring 00-26-93 Hec. bearing Khawat No. 364, Khatauni No. 471, Kharsa No. 3270 Khasa-1 as entered in Jamabandi for the year 2009-2010 situated in Village Nari Sub-Tehsil Bharwain, District Una, H.P.	Rs. 25,23,168/- plus unapplied interest and other charges w.e.f. 31.01.2019.	24.08.2020 from 01:00 P.M. to 03:00 P.M.	Rs. 9,81,350/- Rs. 98,135/- Rs. 10,000/-	Physical Possession	18.08.2020 & 19.08.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M.	Branch Manager, Mob.: 7832360167 Ph. 01976-225114	
6.	BOB (A-Dena) Bank, Sector 17, Panchkula	Borrower(s):- Mr. Rahul S/o Krishan Gopal & Sunita (Deceased) W/o Rahul, H. No. 12, Arandeep Nagar, Bainsid Purjag Farm, Issanpur Road, Derabassi, SAS Nagar, Mohali.	EM of Residential Property H. No. 12, measuring 100 Sq. Yards bearing Khawat/ Khatauni No. 18/19 comprised under Kharsa No. 1023/210-19, 3/3(2)-18), 8/1(2)-10) Khasa 3, Total Lands 7 Bigha 7 Bows share to the extent 40/2940 = 22'40" A-1/2=100 Sq. Yards. H. No. 12, situated at Arandeep Nagar, Derabassi, Distt. SAS Nagar, Mohali.	Rs. 19,82,414/- plus unapplied interest and other charges w.e.f. 01.10.2018.	24.08.2020 from 01:00 P.M. to 03:00 P.M.	Rs. 17,93,000/- Rs. 1,79,000/- Rs. 25,000/-	Physical Possession	17.08.2020 & 18.08.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M.	AGN, Mob.: 8553846416, Manager Mob. 9779379599	

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibap.in. IT MAY BE TREATED AS STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE FOR SR. NO. 5 & 6 UNDER THE SARFAESI ACT 2002 Date: 17.07.2020 Place: Chandigarh AUTHORISED OFFICER

यूको बैंक UCO BANK
(ए. गो. ऑफ़ इंडिया अंडरटैकिंग)
BRANCH OFFICE: H-46, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001
POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 19.02.2020, calling upon the Borrowers: M/s. SEAWON CLOTHING PRIVATE LIMITED, and Guarantor: M/s. Energetic Traders Pvt. Ltd., Rajbeer Singh Wadhawan, Sandeep Singh Taryal, Inderpal Singh and Nirupama Wadhawan, Taranpal Wadhawan and Anjan Wadhawan, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.71,83,014.15 (Rupees Seventy One Lakh Eighty Three Thousand Fourteen and Paise Fifteen Only) as on 31.01.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01.02.2020. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 14th Day of July of the Year 2020. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, for an amount of Rs.71,83,014.15 (Rupees Seventy One Lakh Eighty Three Thousand Fourteen and Paise Fifteen Only) as on 31.01.2020 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01.02.2020. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY
(1) Ground Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
(2) 1st Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
(3) Entire Terrace over and above 2nd Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Bounded by:
North: Plot No.23 South: Plot No.25
East: Street No.D-1 (45 Feet Wide)
West: 15 Feet Service Road
PLACE: NEW DELHI
DATE: 14.07.2020
Authorised Officer, UCO BANK

यूको बैंक UCO BANK
(ए. गो. ऑफ़ इंडिया अंडरटैकिंग)
BRANCH OFFICE: H-46, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001
POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 19.02.2020, calling upon the Borrowers: M/s. FINEST FIT IMPEX PVT. LTD., and Guarantor: M/s. Energetic Traders Pvt. Ltd., Mr. Taranpal Wadhawan, Aditya Talwar, Inderpal Singh and Nirupama Wadhawan, Taranpal Wadhawan and Anjan Wadhawan, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.1,49,62,155.66 (Rupees One Crore Forty Nine Lakhs Sixty Two Thousand One Hundred Fifty Five and Paise Sixty Six Only) as on 31.01.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01.11.2019. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 14th Day of July of the Year 2020. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, for an amount of Rs.1,49,62,155.66 (Rupees One Crore Forty Nine Lakhs Sixty Two Thousand One Hundred Fifty Five and Paise Sixty Six Only) as on 31.01.2020 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01.11.2019. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY
(1) Ground Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
(2) 1st Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
(3) Entire Terrace over and above 2nd Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Bounded by:
North: Plot No.23 South: Plot No.25
East: Street No.D-1 (45 Feet Wide) West: 15 Feet Service Road
PLACE: NEW DELHI
DATE

IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Recovery Section, Circle Office: Mandi (H.P.) PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES

LAST DATE & TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS HARD COPY TO THE AUTHORISED OFFICER 07.08.2020 UP TO 4.00 PM BY DEMAND DRAFT Sale of immovable/ MOVABLE property lies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Whereas, the Authorized Officer of Punjab National Bank has taken possession of the following properties pursuant to the notice issued under Section 13(2) read with Rule 6(2)(v) 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realize the Bank's dues by sale of the said properties. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal (https://tender.pnbnet.in:84431). Bid will be free to bid for eligible cases.

Table with 10 columns: S. No., Name of Branch & Account, Name of the owner of the Property, Details Of Property, Demand Notice Date/Outstanding Amount/ Date Of Possession, Reserve Price, EMD (10% of Reserve Price), Bid Increase Amount, Date/Time of auction, Dues Payable to Local Bodies (State/Central Govt.).

TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE:

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: I. The properties are being sold on AS IS WHERE IS BASIS and AS IS WHAT IS BASIS. II. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herewith have been stated to the best of the information of the Authorized Officer, but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in the particulars. III. The secured asset will not be sold below the reserve price. IV. The auction sale will be "online through e-auction" portal (https://tender.pnbnet.in:84431). V. The bidders are also advised to go through the portal (https://tender.pnbnet.in:84431) for detailed terms and conditions for e-auction sale before submitting their bids and taking part in the e-auction sale proceedings and to contact Sh. LIPENDER MUMAR, Chief Manager, The Authorized Officer, Punjab National Bank (Mobile No: 91055-43001). VI. The interested bidders shall deposit the EMD by way of Demand Draft bearing "The Authorized Officer, Punjab National Bank" BY 21.03.2020. The draft should not be of a Cooperative Bank. Date and time of inspection of properties are free before date of auction except bank holiday from 11.00AM to 4.00PM WITH PROCH PERFORMANCE OF BRANCH HEAD, Branch Office, Mandi, Bargar, Arvi Singh. VII. The bidders shall submit 1) Proof of deposit of EMD i.e Demand Draft in original ("Where payment by way of draft is stipulated for). 2) ID Proof, Invited, Scanned copies of PAN card etc. 3) Proof of residential address. 4) Bidder's Name (s) / Mobile No. / Contact No(s) / Address (s) / E-mail Address (s) / Bidder's A/C details for on-line refund of EMD, if any. 5. The bidders other than individuals also submit proper mandate for e-bidding. Bidder is to submit these documents through e-mail to the Authorized Officer/Nodal Officer at e-mail address: punjabncb@punjabncb.com and also to submit self-attested, hard copies of these documents (Demand Draft in original) to the Authorized Officer, of the Branch address mentioned herewith in the envelope super writing as "Bid in the A/C No. VIII. The interested bidders are required to obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from Sh. Manoj Kumar Thakur (Mobile No. 9816602819), Circle Office, Mandi. The login ID and Password would be sent through e-mail address as provided by the Bidder. In case bidder has not received the same, he should contact the aforesaid official. IX. Only those bidders holding valid user ID & Password and confirmed payment of EMD through Demand Draft, ("Where payment by way of draft is stipulated for) shall be eligible to participate in the online auction. X. The Authorized Officer reserves the right to accept or reject all bids, if not found acceptable or to postpone/cancel the auction or to vary the terms of the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. XI. The bidders shall improve their offer in multiples of Rupees as mentioned above in column Bid Increase Amount. In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. XII. Auction would commence at the reserve price and bidders shall improve their offer as stated herewith. On closure of "on line auction", the highest bidder shall be declared as successful bidder and such sale shall be subject to confirmation by the Secured Creditor. XIII. The successful bidder shall have to deposit 25% of the bid amount immediately or not later than next working day to the account mentioned at S. No. 'i' above or by Demand Draft and the earned money shall be adjusted towards 25% of the bidable amount. In case of default in payment of the remaining 25% of the bid amount within the prescribed period, the amount deposited will be forfeited and the secured asset will be resold. XIV. The successful bidder shall be required to deposit the balance 75% of the bid amount on or before 15th day from the date of confirmation of sale. XV. In case of default in payment of the remaining 75% of the bid amount within the prescribed period, the amount deposited will be forfeited and the debiting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. XVI. If the dues of the bank together with all costs, charges and expenses incurred by bank or part thereof as may be acceptable to the bank are tendered by the borrower/s or guarantor/s at any time or before the date fixed for sale, the sale of asset may be cancelled. XVII. All Statutory Local/State/Central Govt. duties and charges (other than registration charges, stamp duty, taxes etc.) shall have to be borne by the purchaser. XVIII. The sale certificate shall be issued in the same name in which the bid is submitted. XIX. The bidders who do not have access to the internet but interested in participating in the e-auction, they can contact: Sh. Manoj Kumar Thakur (Mobile No. 9816602819), PNB, Circle Office, Mandi (H.P.). XX. Any other encumbrances known to the Bank are not known. The Authorized Officer of the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to the Government or anyone else in respect of properties E-Auctioned. The intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory taxes, arrears of property tax, electricity dues etc. XXI. The bidder should ensure proper internet connectivity, power back-up etc. The Bank shall not be liable for any disruption due to internet failure, power failure or technical reasons or reasons/contingencies affecting the e-auctions. STATUTORY 30 DAYS NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 The borrower/guarantors are hereby notified by the outstanding Amount as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the property will be auctioned and balance dues, if any will be recovered with interest and cost.

Date : 18.07.2020 Place : MANDI Authorized Officer, Punjab National Bank Circle Office Mandi.

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड THDC INDIA LIMITED (सेबी-क निम्नी रत्न, सरकारी स्वाम्य) (Schedule-A Mini Ratna, Government PSU) ASH DYKE PACKAGE FOR KHURJA SUPER THERMAL POWER PROJECT (2x660 MW) LOCATED AT VILLAGE DUSHAHARA, TEHSIL KHURJA, DISTT. BULANDSHEHAR, STATE OF UTTAR PRADESH Invitation for Bids (IFB)/Notice Inviting Tenders (NIT) (Domestic Competitive Bidding) IFB Number 2020_THDC_570433 Date: 11.07.2020 Bidding Document no. (if any): THDC/RKSH/CC-9915-374, Name of Package/Work: Ash Dyke Package; Type of Bidding: E-tendering/ Single Stage Two Envelope; Bidding Document Download: From 11.07.2020 to 26.08.2020 upto 15:00 hrs (IST); Receipt of Techno-Commercial and Price Bids: 26.08.2020 upto 15:00 hrs (IST); Date and Time of opening of Techno-Commercial Bids: 27.08.2020 at 15:00 hrs (IST); Date and Time of opening of Price Bids: Shall be intimated separately. Contact Details: GM (Corporate Contracts), THDC India Ltd., Pragati Bhawan, By-Pass Road, Pragatipuram, Rishikesh-249201. Tel: 0135-2431461/2473229/2473407, Email: corcontract@thdc.co.in THDC Website: www.thdc.co.in e-procurement Website: https://www.eprocure.gov.in Registered Office: BHAGIRATHI BHAWAN, (TOP TERRACE), BHAGIRATHIPURAM, TEHRI GARHWAL-249001. CIN: U45203UR1988GI009822

FEDERAL BANK Your Perfect Banking Partner Regd. Office: Alwaye, Kerala

SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE ASSETS

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable Vehicle hypothecated/charged to the Federal Bank Ltd (Secured Creditor), the physical possession taken on 19.03.2020 by the Authorised Officer of The Federal Bank Ltd (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 25.08.2020, for recovery of Rs.6,12,776/- (Rs.Six Lakh Twelve Thousand Seven Hundred Seventy Six Only) plus costs and other charges due to The Federal Bank Ltd (Secured Creditor) as on the aforesaid date of sale from MR. SATNAM SINGH, S/O. MR. PAKHER SINGH, residing at Village Maheru, Pandori Khas, Nakodar (District Jalandhar) (Punjab) PinCode-144040. The reserve price is Rs.4,55,000/- (Rs. Four lakhs Fifty Five Thousand Only) and the earnest money deposit is Rs. 45,500/- (Rs.Forty Five Thousand and Five Hundred only) which is 10% of the Reserve Price.Bids below the Reserve Price will be rejected immediately.Thus bids to be submitted should be above the Reserve Price.

Hypothecation of Hyundai Verna SX 1.6 CRDI BSIV, Pure White Car, Chasis No. MALCU41ULHM227797'D, Engine No. - D4FBHM287266, Registration No. PB08DT4100.

The vehicle will be sold by e-Auction through the bank's approved service provider M/s 4 Closure under the supervision of the Authorised Officer of Federal Bank. E-Auction tender document containing e-auction bid form, declaration, general terms and conditions of online auction sale are available in website: https://www.bankauctions.in. The prospective bidders may avail online training on e-auction from M/s 4 Closure, Hyderabad helpline No. & email ID: 0814200062/65/66 & email - info@bankauctions.in and Vikas Kumar-08142000809, 08076427383 & email - vikas@bankauctions.in. Bids in the prescribed form given in the Tender document shall be submitted "online" through the portal https://www.bankauctions.in. Bids submitted otherwise shall not be eligible for consideration. The EMD shall be remitted through Demand Draft, EFT/NEFT/RTGS to the Bank Account 20590051030003, IFSC FDRL0002059. The EMD to be paid is 10% of the Reserve Price of the Vehicle which is refundable if the tender is not accepted. Last date and time for deposit of Bid along with EMD is 24.08.2020 upto 5:00 P.M. Any Bid submitted after the said period will not be entertained. The details of the Vehicle, date of inspection of the Vehicle, terms and conditions whereby the sale will be guided can be obtained from Branch Manager at Branch Nakodar Vishal Tower, Noormahal Road, Nakodar, Jalandhar Dist, Punjab 144040& at NDLLCRD Division, 2/2, Federal Towers, Upper Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 between 12 PM and 4 PM on any working day except Second and Forth Saturday upto 24.08.2020. The detailed terms and conditions pertaining to auction of the Vehicle is displayed in the branch premises at Branch Nakodar at Vishal Tower, Noormahal Road, Nakodar, Jalandhar Dist, Punjab 144040& at NDLLCRD Division, 2/2, Federal Towers, Upper Ground Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008. Interested persons may contact the Branch Head, Nakodar, Federal Bank on Mob No : 855888720 & Office No - 01821225065 & LCRD / NDL Head Mob no - 9818646777 & Office No : 011-40733980, 40733978, 011-49847491, RCM Mobile No: 7009569557, 8127511900. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the following websites: 1.https://www.bankauctions.in 2.https://www.federalbank.co.in Date : 18.07.2020 For The Federal Bank Ltd Place : JALANDHAR, PUNJAB (Authorized Officer under SARFAESI Act)

यूको बैंक UCO BANK (भारत सरकार का उपकरण) (A Govt. of India Undertaking) BRANCH OFFICE: H-46, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001 POSSESSION NOTICE (Under rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002) Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 19.02.2020, calling upon the Borrowers: M/s. WADHAWAN FABRICS PVT. LTD. and Guarantor: M/s. Energetic Traders Pvt.Ltd., Mr. Taranpal Wadhawan, Inderpal Singh and Nirupama Wadhawan, Taranpal Wadhawan and Anjan Wadhawan, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.1,31,65,443.97 (Rupees One Crore Thirty One Lakh Sixty Five Thousand Four Hundred Forty Three and Paise Ninety Seven Only) as on 31.01.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01.11.2019. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 14th Day of July of the Year 2020. The borrower / guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, H-46, Connaught Place, New Delhi Branch, for an amount of Rs.1,31,65,443.97 (Rupees One Crore Thirty One Lakh Sixty Five Thousand Four Hundred Forty Three and Paise Ninety Seven Only) as on 31.01.2020 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01.11.2019. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY (1) Ground Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. (2) 1st Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. (3) Entire Terrace over and above 2nd Floor, D-1/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057. Bounded by: North: Plot No.23 South: Plot No.25 East: Street No.12 (45 Feet Wide West: 15 Feet Service Road PLACE: NEW DELHI Authorized Officer, UCO BANK DATE: 14.07.2020

vedanta transforming elements EXPRESSION OF INTEREST (EOI) Vedanta Limited (Formerly known as Sesa Sterile Ltd./Sesa Coal Ltd.) a subsidiary of Vedanta Resources plc is a global, diversified natural resources company with business operations in India, South Africa, Australia, Ireland, Namibia, Liberia and Sri Lanka. Vedanta is a leading producer of oil & gas, zinc, lead, silver, copper, iron ore, Aluminium and commercial power. Ref: VGCBC/EOI/1/2020 Date: 18-07-2020 Vizag General Cargo Berth Private Limited (VGCBL), a Vedanta group company operating a Mechanized Import/Coal Handling Terminal at Visakhapatnam Port. Expression of interest invited from reputed and experienced suppliers and service providers for the following: 1. Competent business partner with relevant experience for end to end complete operation & Maintenance (O&M) of 10.18 MTPA Mechanized Coal handling terminal. The job includes (in brief) • O&M of equipments like ship unloaders, stacker cum reclaimers, conveyors, roller silo loading system for wagon loading, rail track and dust suppressing systems etc. • Mechanized clearing of berth, vessel hatches & inside premises at coal terminal by using mobile material handling equipment, tarpaulin covering on coal heaps & rail wagons. • Security, facility management, CMA and vessel draft survey services for efficient functioning of VGCBL. 2. Handling and Transportation of bulk cargo within a distance of 2-6 kms within port premises using material handling equipment like Dumpers, Pay loaders, Excavators etc. 3. Stevedoring services like Bulk Cargo discharging from vessel to wharf and shifting cargo to plots within port area, High stacking, loading into wagons and trucks for dispatch to customers. 4. Design, Supply & Installation of bulk material handling equipment like link conveyors, wheel / chain mounted stacker cum reclaimers, equipment for high stacking, loading into wagons & trucks etc. 5. Redesigning and re-conditioning of silo surge hopper 6. Service provider for structural work, civil work & tarpaulin covering of wagons. 7. Supply of bulk material handling equipments like Steel Cord and Nylon Conveyor belts, Tarpaulin, and spares etc. Reputed & experienced parties are invited to send their EOI within 7 days from the date of this publication to vgcbl.eoirsponses@vedanta.co.in The EOI should accompany the list of major customers including major orders along with safety records & financials of last 3 years. For any clarifications call +917798951049 Vizakhapatnam Office: Administrative Building, Eastern Stock Yard, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam-530 035, Andhra Pradesh.

यूनियन बैंक Union Bank of India REGIONAL OFFICE, Delhi (South) 6th Floor, Connectus Tower, Unit 602A, Tower II, Airport Metro Express Line, Ajmeri Gate, Opp. New Delhi Railway Station, New Delhi - 110001, Tel-011-23218529 SALE NOTICE for sale of Movable / Immovable properties

यूनियन बैंक Union Bank of India REGIONAL OFFICE, Delhi (South) 6th Floor, Connectus Tower, Unit 602A, Tower II, Airport Metro Express Line, Ajmeri Gate, Opp. New Delhi Railway Station, New Delhi - 110001, Tel-011-23218529 SALE NOTICE for sale of Movable / Immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable / Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Guarantors that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on 18.08.2020 for recovery of the dues mentioned below due to the Union Bank of India (Secured Creditor) from the below mentioned Borrowers and Guarantors. The reserve price, earnest money deposit and other details are as mentioned below

Table with 10 columns: S. No., Property No., Name of the Branch Authorised Officer & Contact No., Name & address of Borrower, Name of address of Guarantor, Description of the Movable / Immovable property put for auction, Constructive or Physical Possession taken, Dues to be recovered from Borrower/ Guarantor (Rs.), Reserve Price (Rs.), Date and Time of Auction, Date & Time of inspection of property.

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in Union Bank of India Secured Creditor's website i.e., www.unionbankofindia.co.in E-auction Agent Details: M/s 4CLOSURE, website www.bankauctions.in Helpline No. 0814200062/66 (M) Tel: 040-23836405 Contact person Mr. Vikas-8142000809 E-mail-vikas@bankauctions.in & info@bankauctions.in This notice also be treated as notice u/r 8(6) & proviso u/r 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date. Last date of submission of bid : 18-08-2020 by 5PM

HUNT FOR VICE-PRESIDENT FACE

Now, Joe Biden facing pressure within party

Biden says he is committed to choosing a woman for the job he held under Prez Obama

REUTERS July 17

DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATE Joe Biden is facing pressure from contending groups inside his party as he prepares to interview a shortlist of women for the most important hire of his political career: his running mate.

Biden, who committed to choosing a woman for the job he held for eight years under President Barack Obama, said this week he expected the background vetting process to conclude around July 24. He would then interview each finalist before making a decision, expected by early August.

The selection of the vice presidential candidate has taken on outside importance this year, reflecting the desperation to defeat Republican President Donald Trump among Democrats, who have agonized over which candidate would give Biden the biggest boost in the Nov. 3 election.

Biden leads in national and

battleground-state opinion polls as voters fault Trump for his handling of the coronavirus pandemic, the subsequent economic recession and race relations.

Adding to the weight of Biden's choice, he would be 78 at his January inauguration, making him the oldest U.S. president and setting up his vice president as an early front-runner for the 2024 race should he serve only one term.

"There's a lot of attention on this for a number of reasons, not least of which that Vice President Biden is 77 years old," former Senate Majority Leader Harry Reid said.

Reid, who has had several conversations about the topic with Biden, said the list narrowed in recent weeks but remained fairly large.

The women under serious consideration include Senators Kamala Harris, Elizabeth Warren and Tammy Duckworth; U.S. Representatives Val Demings and Karen Bass; former U.S. national security adviser Susan Rice; New Mexico Governor Michelle Lujan Grisham; and Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms, according to interviews with Democratic officials.

Harris cemented herself early as a favorite after dropping her presidential bid, particularly among top

fundraisers, who have Biden's ear and tend to be more centrist. Online betting site PredictIt puts her odds of being picked at 41%, far higher than any of the other candidates on the list.

The Biden campaign declined to comment on the search.

In making his choice, Biden has to balance many factors, including ideology, race and ethnicity, as well as candi-



Former Vice-President Joe Biden talks with Senators Elizabeth Warren (C) & Kamala Harris (R) after the conclusion of the 2020 Democratic US presidential debate in Houston

dates' ability to raise money, create enthusiasm and fulfill the traditional vice presidential "attack dog" role by going after Trump.

Alex Heckler, a member of Biden's national finance committee who backs Harris as running mate, said the ideal candidate given Trump's "bogus" allegations about Biden's lack of mental stamina would be someone who could attack Trump's shortcomings and be

qualified to serve as president if needed.

Perhaps the biggest question facing Biden is whether to select a Black woman following national protests over racial injustice following the police killing of George Floyd, an African American, in Minneapolis. Warren is the only white candidate on the shortlist, which includes five Black women as well as Grisham, who is Latina, and Duckworth, who

is an Asian American.

"As I am witnessing what is happening in this country right now, I am more convinced than ever that Joe Biden needs a Black woman as his vice presidential candidate," said LaTosha Brown, a co-founder of the advocacy group Black Voters Matter.

Leah Daughtry, a Democratic official who ran the 2008 convention that nominated Obama, the country's first Black president, has also lobbied Biden and top campaign officials like Anita Dunn to pick a Black woman.

"Nominating a Black woman will get you the enthusiasm that Joe Biden is going to need to run a successful race in this pandemic environment," she said.

Some progressive Black advocates pointed to Warren's attention to racial inequity in crafting her policy platform as a presidential contender, while noting that Harris' background as a prosecutor in California and Demings' as a police chief in Florida might make them less appealing to activists.

"Representation is important; it's just not sufficient," said Maurice Mitchell of the liberal Working Families Party. Mitchell said he planned to make the case for Warren directly to Biden or his senior aides during a sit-down soon.

China says it's not trying to replace US, won't be bullied

ASSOCIATED PRESS Beijing

CHINA ISN'T SEEKING to confront or replace the United States as the world's top technological power, but will fight back against "malicious slander" and attacks from Washington, a foreign ministry spokesperson said Friday, responding to a litany of recent accusations from the Trump administration.

Hua Chunying said China's chief concern was improving the livelihoods of its citizens and maintaining global peace and stability, despite what critics say is an increasingly aggressive foreign policy that looks to expand Chinese influence in the military, technology, economic and other spheres.

"As an independent sovereign state, China has the right to safeguard its own sovereignty, security and development interests, to defend the achievements made by the Chinese people with hard work, to refuse any bullying and injustice against China, and to fight back against malicious slander and attacks by the U.S. against China," Hua told reporters at a daily briefing.

Her comments came in response to a speech Thursday by Attorney General William Barr in which he cautioned American business leaders against promoting policies favorable to Beijing.

Hua asserted that China at the beginning of the coronavirus pandemic had not only dominated the market on protective gear, exposing American dependence on Beijing, but had also hoarded supplies and blocked producers from exporting them to countries in need.

Barr also accused hackers linked to the Chinese government of targeting American universities and businesses to steal research related to coronavirus vaccine development, leveling the allegation against Beijing hours after Western agencies made similar claims against Russia.



Numerous Trump allies have issued strongly worded messages over China in recent days, coming at a time when bilateral relations have fallen to their lowest point in decades over issues from accusations of technology theft to China's claims in the South China Sea

"The People's Republic of China is now engaged in an economic blitzkrieg — an aggressive, orchestrated, whole-of-government (indeed, whole-of-society) campaign to seize the commanding heights of the global economy and to surpass the United States as the world's preeminent technological superpower," Barr said.

Numerous Trump allies have issued strongly worded messages over China in recent days, coming at a time when bilateral relations have fallen to their lowest point in decades over issues from accusations of technology theft to China's claims in the South China Sea.

Hua dismissed Barr's accusations of cybertheft related to vaccine development as "absurd."

"Because everyone knows that China is in a leading position in the research and development of new coronavirus vaccines, we have first-class scientific research personnel, and we do not need to gain a leading position with theft," Hua said. Chinese companies have moved swiftly to develop a coronavirus vaccine, as countries compete for prestige.

Amazon, Apple hire one of big tech's most prominent US critics

BLOOMBERG July 17

FIONA SCOTT MORTON is widely recognized as a top antitrust expert, known for her warnings that American tech giants are stifling competition and innovation.

Yet Scott Morton, a Yale University economist and former Justice Department official, is also advising two of the biggest names in tech -- Amazon.com Inc. and Apple Inc. -- as they confront federal antitrust investigations.

She didn't disclose those relationships in papers she recently co-authored outlining how the U.S. could bring antitrust cases against Alphabet Inc.'s Google and Facebook Inc.

Scott Morton, hailed in a 2019 article in the New Republic as an "antitrust crusader," said she began consulting for Amazon in the last year, while her work for Apple dates back several years. She said she usually discloses her clients when speaking at conferences. The lack of disclosure on the Google and Facebook papers, she said, shouldn't be an issue because Apple and Amazon didn't pay her to write them. What's more, she added, those papers didn't focus on either Apple or Amazon.

"I work for companies that I'm comfortable are not breaking the law," she said in an interview. "So you're articulating what is making the market work well and how the company's conduct is pro-competitive or efficient."

As antitrust probes intensify, the potential for conflicts could multiply as regulators and companies hire experts who can play a crucial role in shaping cases involving claims of anti-competitive behavior.

Amazon, Apple, Facebook and Google are all grappling with federal investigations. A Justice Department lawsuit against Google is likely to come this summer. The heads of all four companies are set to testify July 27 before a House panel. Facebook and Google also face state probes.

Scott Morton, who served in the Justice Department's antitrust division from May 2011 to December 2012, said that consulting is important to her research and teaching, and that she only takes on clients when she thinks a company isn't violating antitrust laws. She declined to give details about her work.

Amazon confirmed Scott Morton is working for the company but declined further

VW sees China recovery picking up pace

BLOOMBERG Singapore/Frankfurt, July 17

VOLKSWAGEN AG EXPECTS second-half sales in China to approach the year-earlier level as premium brands such as Audi and Porsche lead a recovery from the coronavirus pandemic.

In the first half, the automaker sold about 1.59 million vehicles across all its brands in China, down 17% from a year earlier, Stephan Wollenstein, VW's China chief, said Friday at a media briefing in Beijing. The industry's total sales shrank by 22%, helping market leader VW boost its share to about 20%, he said.

"We saw the premium market in China was recovering much faster than the normal market," Wollenstein said. "We saw really strong sales of Audi, Porsche and Bentley. We expect that the second half is almost of a level of last year."

VW's sprawling manufacturing network in China gradually resumed output in recent weeks, while the coronavirus continued to spread across other regions. Even with demand picking up from the



depths seen early this year, the China Association of Automobile Manufacturers forecasts a 10% to 20% decline in vehicle sales this year to the lowest level since 2014.

The automaker's global deliveries slumped 27% in the first half to 3.89 million cars, trucks and motorbikes, and by almost 18% in June to 804,100 vehicles, VW said in a statement Friday. Porsche managed to limit its sales drop to 12% in the first six months, but the main VW passenger-car brand, Audi and Skoda all suffered declines of more than 20%.

The German manufacturer is optimistic about electric-vehicle demand in China even as sales have fallen after the

government reduced subsidies last year, Wollenstein said. While many EV startups have gone out of business, others, such as Tesla, are performing better.

Total industry sales of EVs in China are expected to be about 1 million units this year, similar to the 2019 level, Wollenstein said. VW is sticking to its plan to sell 1 million to 1.5 million EVs by 2025 and increase its revenue from the business to 20% to 25% of its total in China, he said.

Amazon, Apple hire one of big tech's key US critics

FIONA SCOTT MORTON is widely recognized as a top antitrust expert, known for her warnings that American tech giants are stifling competition and innovation.

Yet Scott Morton, a Yale University economist and former Justice Department official, is also advising two of the biggest names in tech -- Amazon.com Inc. and Apple Inc. -- as they confront federal antitrust investigations.

She didn't disclose those relationships in papers she recently co-authored outlining how the U.S. could bring antitrust cases against Alphabet Inc.'s Google and Facebook.

Scott Morton, hailed in a 2019 article in the New Republic as an "antitrust crusader," said she began consulting for Amazon in the last year, while her work for Apple dates back several years. She said she usually discloses her clients when speaking at conferences. The

lack of disclosure on the Google and Facebook papers, she said, shouldn't be an issue because Apple and Amazon didn't pay her to write them. What's more, she added, those papers didn't focus on either Apple or Amazon.

"I work for companies that I'm comfortable are not breaking the law," she said in an interview. "So you're articulating what is making the market work well and how the company's conduct is pro-competitive or efficient."

—BLOOMBERG

AP HIGH GRADE STEEL LTD.
10th Floor, APHSL Towers, Mangalagiri, Guntur Dist. AP - 522533
Date: 17.07.2020

REQUEST FOR PROPOSAL FOR SELECTION OF TECHNOLOGY CONSULTANT

APHSL through this RFP intends to invite proposals from well qualified and well reputed Consultants for Providing Technology Consultancy Services to support APHSL, in setting-up of an Integrated Steel Plant at YSR Kadapa District, A.P.

The RFP document can be downloaded from Website <http://www.aphighgradesteel.com/tenders.php> from 18.07.2020 for further details may contact Mr Balaram Bandi, Director-Projects, Mob No: +91 99490 06631

Sd/- Managing Director, APHSL

INTEC CAPITAL LIMITED
Publication Demand Notice

NOTICE UNDER SEC. 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

Sent on 10.06.2020 by Speed Post to (1) MIS ISHWAR CHAND AGRO PRIVATE LIMITED (BORROWER) Represented through its Proprietor Mr. ISHWAR CHAND TYAGI AT-KHASRANO, 693-694 VILLAGE & POST MORTA, GHAZIABAD (U.P.) - 201003. (2) ISHWAR CHAND TYAGI (CO-BORROWER/MORTGAGOR) THROUGH LEGAL HEIRS AT- KC-105 KAWI NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201001 ALSO AT- PLOT NO.2, VILLAGE MORTA, KHASRA NO.1193, PRAGNA JALALABAD, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH (3) RAJ KUMARI (CO-BORROWER) AT- KC-105 KAWI NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201001

SUBJECT: Loan Account No. UNGH403415-16005884 dated 31.07.2015 with Intec Capital Limited, 708, Marjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi-110019.

You, committed default in repayment of loans, and a sum of Rs. 2,30,70,182/- (Rupees Two Crore Thirty Lakh Seventy Thousand One Hundred Eighty Two Only) is outstanding as on 31.05.2020. The Intec Capital Limited issued notice under sec. 13(2) of the Act on 10.06.2020 calling upon you to repay the outstanding amount of Rs. 2,30,70,182/- (Rupees Two Crore Thirty Lakh Seventy Thousand One Hundred Eighty Two Only) as on 31.05.2020.

You are called upon to pay Rs. 2,30,70,182/- (Rupees Two Crore Thirty Lakh Seventy Thousand One Hundred Eighty Two Only) within 60 days from the date of this notice failing which Intec Capital Limited will be constrained to exercise its rights of enforcement of security interest as against the Secured Assets given in the Schedule hereunder. This notice is without prejudice to any other right remedy available to the Intec Capital Limited.

SCHEDULE: The specific details of the assets in which security interest is created are enumerated hereunder:

MORTGAGED ASSETS: PROPERTY BEARING NO.2 (MEASURING 510 SQ.YDS) OUT OF KHASRA NO.1193, SITUATED IN VILLAGE MORTA, PARAGANA - JALALABAD TEHSIL & DISTRICT - GHAZIABAD AND CONSTRUCTION BUILDING THEREON EXISTING AND FUTURE

Date: 10.07.2020 AUTHORIZED OFFICER, INTEC CAPITAL LTD.
Place: New Delhi

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED
Head Office: Level -3, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051; Tel: 022 4241 0400, 022 4060 3100; Website: www.shriramhousing.in; Registered Office: Office No. 123, Angappa Naicken Street, Chennai - 600 001; Branch Office: SCO-13, 4th Floor, Shangahi Tower, Feroze Gandhi Market, Ludhiana, Punjab 141001

APPENDIX-IV-A [SEE PROVISION TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/charged to The Shriram Housing Finance Limited, The Physical possession of which have been taken by the Authorized Officer of Shriram Housing Finance Limited, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis in e-auction on dated 05.08.2020 between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. for recovery of the balance due to The Shriram Housing Finance Limited from the Borrowers And Guarantors, as mentioned in the table. Details of Borrowers and Guarantors, amount due, Short Description of the immovable property and encumbrances known thereon, possession type, reserve price and earnest money deposit & increment are also given as:

Name of Borrowers/Co-Borrowers/ Guarantors/Mortgagers	Date & Amount of 13(2) Demand Notice	Description of Property	Encumbrances known	Reserve Price (Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (Rs.) & Bid Increment	Earnest Money Deposit Details (EMD) Details	Date & Time of Auction	Contact Person and Inspection date
Mr. Dinesh Kumar Gupta S/o Ram Avtar Gupta And Mrs. Asha Joti All R/o H.No-421, Ward No-10, Street No-2, Sanjay Gandhi Colony, Ludhiana.	28.01.2019 Rs.9,58,389/- (Rupees Nine Lakh Fifty Eight Thousand Three Hundred Eighty Nine Only)	All that piece and parcel of house property being H.No/Plot No 673, measuring 100 sq.yds.comprising in Khasra No.35/8,situated in village Bhamian Kalan,Taj Pur Road, Tehsil & Distt Ludhiana, Punjab Bounded As Under: Towards East- Neighbour 45',Towards West- Neighbour 45', Towards South- Street 20', Towards North- Neighbour 20'.	Not Known	Rs.6,50,000/- (Rs. Six Lakh Fifty Thousand Only)	Rs.65,000/- (Rupees Sixty Five Thousand Only) Bid Increment Rs.10,000/- and in such multiples.	EMD amount to be deposited by way of RTGS/ NEFT to the account details mentioned herein below: BANK NAME- AXIS BANK LIMITED BRANCH- BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI BANK ACCOUNT No- Current Account No. 911020013220315 IFSC CODE - UTIB0000230	5th Aug. 2020 Time: 11.00 a.m. to 01.00 p.m.	Bhupinder Kumar +91-9803044032 Ramnik Singh Bhullar 9888886616 Property Inspection Date: 27th July 2020 Time 11.00 a.m. to 04.00 p.m.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link <http://shriramhousing.in/e-auction-Residential.php> provided in the Shriram Housing Finance Limited website.
Place : Ludhiana
Date : 18.07.2020

Sd/- Authorized Officer
Shriram Housing Finance Limited

HDFC MUTUAL FUND
BHAROSA APNO KA
HDFC Asset Management Company Limited
A Joint Venture with Standard Life Investments
CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676
Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the declaration of dividend in **HDFC Arbitrage Fund**, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed **Thursday, July 23, 2020** (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan / Option	Amount of Dividend (₹ per Unit)*	Face Value (₹ per unit)	NAV as on July 16, 2020 (₹ per unit)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Normal Dividend Option (Payout and Reinvestment)	0.020	10.00	10.696
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly Dividend Option (Payout and Reinvestment)	0.020		10.448

* The dividend will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Income distribution will be done / Dividend will be paid, net of tax deducted at source (TDS), as applicable, to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund till cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date, subject to realization of cheques / demand drafts). However, in respect of subscriptions for an amount equal to or more than ₹ 2 lakh (at Unit holders' PAN and holding pattern level), the Applicable NAV shall be based on realization of funds as per the provisions of SEBI Circular CIR/MD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 and No. CIR/MD/DF/19/2010 dated November 26, 2010, as may be amended from time to time, on uniform cut-off timings for applicability of NAV.

Unit holders who have opted to receive dividend by way of physical instruments may note that the same would be dispatched once the courier / postal services resume and that due to the unprecedented COVID-19 situation as also depending on availability of courier / postal services, there may be a delay in delivery of dividend payment instruments.

With regard to Unit holders of the aforesaid Scheme who have opted for Reinvestment facility under the Dividend Option(s), the dividend due will be reinvested net of TDS, as applicable, by allotting Units for the Income distribution / Dividend amount at the prevailing ex-dividend NAV per Unit on the Record Date.

In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his / her own professional financial / tax advisor.

Place : Mumbai
Date : July 17, 2020

For HDFC Asset Management Company Limited
Sd/-
Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

जानसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

जैश का पाकिस्तानी कमांडर समेत तीन आतंकवादी ढेर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए और सेना के तीन जवान घायल हो गए।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के नगनाद इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान जैश-ए-

शुक्रवार ढेर रात मिली खबर में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पाक सेना की भारी गोलीबारी में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
-विस्तृत खबर पेज 11 पर

मोहम्मद कमांडर वालिद भाई के तौर पर की गई है। वह पाकिस्तान का रहने वाला है। अन्य की पहचान जारी है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए और तीन जवान घायल हो गए। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है और उनके संगठन का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ बाकी पेज 8 पर

राजस्थान में ऑडियो टेप पर गरमाई सियासत

दो एफआइआर दर्ज, कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय मंत्री शेखावत का इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश का कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल (एसओजी) ने शुक्रवार को दो प्राथमिकियों दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एसओजी ने कथित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि प्राथमिकी में 'गजेंद्र सिंह' नामक व्यक्ति की पहचान किसी मंत्री के रूप में दर्ज नहीं है। इसके अलावा एसओजी ने कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन के खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्राथमिकी की खबरों के बाद कहा कि ऑडियो टेप में मेरी आवाज नहीं है। किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। उधर, एसओजी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में 'गजेंद्र सिंह' नामक व्यक्ति की पहचान किसी मंत्री के रूप में दर्ज नहीं है।

जैन को गिरफ्तार भी कर लिया है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र



बागी विधायकों से पूछताछ करने मानेसर पहुंचे जांच दल को हरियाणा पुलिस ने रोका, फिर दी इजाजत मानेसर पहुंची राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल की टीम।

पायलट मामले में सुनवाई सोमवार तक के लिए टली

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ असंतुष्ट विधायकों की याचिका पर सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी। इससे सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों

को जारी अयोग्यता नोटिसों पर स्पीकर की किसी कार्रवाई से शुक्रवार को चार दिनों के लिए राहत मिल गई। असंतुष्ट विधायकों की याचिका की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने शुक्रवार शाम मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी और इसकी अगली सुनवाई के लिए सोमवार सुबह 10 बजे का समय बाकी पेज 8 पर

भीमासुर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

संरा की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन

हमने कोरोना से जंग को जन अभियान बनाया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (यूएनइसीओएसओसी) के 75वें सत्र में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने कोरोना के दौर में 150 देशों को मदद दी। सार्क कोविड फंड बनाया। हमने सरकार की कोशिशों को जनता के साथ जोड़ा और कोरोना के खिलाफ जंग को जनता का अभियान बना दिया। यूएनइसीओएसओसी की ओर से हर साल यह सत्र आयोजित किया जाता है। इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ ही निजी क्षेत्र, जन भागीदारी संस्थाएं और शिक्षा क्षेत्र के



संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के 75वें सत्र को शुक्रवार को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

नरेंद्र मोदी ने कहा

150 देशों की मदद की, सार्क कोविड फंड बनाया

इस साल हमने संरा की 75वीं वर्षगांठ मनाई। भारत 50 संस्थापक सदस्यों में से है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे। आज संरा 193 देशों को साथ लाया है। इसके साथ ही संरा से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। कई चुनौतियां भी हैं।

प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सालगिरह पर संबोधित किया था। इससे पहले 2016 में इस परिषद की 70वीं वीडियो कांफ्रेंस बाकी पेज 8 पर

लद्दाख पहुंचे रक्षामंत्री ने भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता पर कहा

गारंटी नहीं कि बातचीत से कितनी कामयाबी मिलेगी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

लद्दाख की यात्रा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि चीन के साथ चल रही बातचीत से सीमा गतिरोध का हल निकल जाएगा, लेकिन वह इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही रक्षामंत्री ने जोर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच भी जमीन नहीं ले सकती। राजनाथ सिंह ने लद्दाख के बाकी पेज 8 पर



चीन से तनातनी के बीच सैन्य तैयारियों का जायजा लेने लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ एक अग्रिम मोर्चे पर। साथ ही सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे।

चीन के साथ अब अधिक बराबरी पर होती है बात : जयशंकर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार के दौरान अमेरिका, यूरोप सहित प्रमुख ताकतों के साथ हमारा महत्वपूर्ण गठजोड़ मजबूत हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हम राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात बाकी पेज 8 पर

तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 34956 मामले

अमेरिका में एक दिन में रेकार्ड 70 हजार लोग संक्रमित

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रसार की गति हर दिन तेज होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चौबीस घंटे के दौरान कोरोना मरीजों के मरने वालों और संक्रमितों की संख्या में रेकार्ड बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में संक्रमितों की संख्या में 34,956 और मृतकों की संख्या में 687 की वृद्धि हुई है। इसके चलते संक्रमितों कुल की संख्या 10,03,832 और मृतकों की कुल संख्या 25,602 तक पहुंच गई है। चौबीस घंटे के दौरान 22,942 मरीज ठीक हुए हैं जिसके चलते स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 6,65,756 हो गई है। अभी 342,473 मरीजों का इलाज जारी है।

अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 70 हजार नए मामले सामने आए जो एक नया रेकार्ड है। महज तीन हफ्ते पहले तक देश में रोजाना 40 हजार मामले सामने आ रहे थे। फ्लोरिडा, टेक्सास और साउथ कैरोलिना में गुरुवार को 19 लोगों की बाकी पेज 8 पर

कुलभूषण जाधव को फिर मिलेगी राजनयिक पहुंच

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 17 जुलाई।

भारत की तीव्र आपत्ति के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फिर राजनयिक पहुंच देने का एलान किया है। भारत की शर्त मान ली है। भारतीय राजनयिकों को जाधव के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबर दी है कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए मुलाकात के लिए तीसरी बार राजनयिक पहुंच (कार्डेसलर एक्सेस) की इजाजत दी गई है। भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आज दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को तीसरा कार्डेसलर एक्सेस दे दिया है। इससे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल पर भी कहा था कि भारत चाहे तो कुलभूषण से मिल ले। इससे पहले राजनयिक पहुंच मिलने के बाद गुरुवार को भारतीय राजनयिक अपने वकील के साथ जाधव से मिलने पहुंचे थे। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव और बाकी पेज 8 पर

इंसाफ नहीं मिलने से परेशान हो कर उठाया कदम लखनऊ में मां-बेटी ने खुद को लगाई आग

लखनऊ, 17 जुलाई (जनसत्ता)।

न्याय के लिए थाने से लेकर एसपी अमेटी और आइजी के दफतर तक गुहार लगाने के बाद आजिज आ कर मां-बेटी ने शुक्रवार को लोकभवन के सामने केरोसिन डाल कर खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से जली मां बेटी को हजरतगंज पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। साफिया 90 फीसद तक झुलस गई हैं जबकि बेटी गुड़िया 40 से 45 फीसद तक जली हैं।

गंभीर रूप से जली मां बेटी को हजरतगंज पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। साफिया 90 फीसद तक झुलस गई हैं जबकि बेटी गुड़िया 40 से 45 फीसद तक जली हैं।

कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस के मुताबिक नाली के विवाद में मां और बेटी पुलिस के आला अधिकारियों के दफतरों के चक्कर लगाती रहीं लेकिन उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिला। निराश होकर दोनों ने लोकभवन के सामने खुद को केरोसिन डाल कर आग के हवाले कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित मां-बेटी अयोध्या मंडल के ही अमेटी जिले के जामो की रहने वाली हैं। आत्मदाह की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने जल रही मां-बेटी को कंबल से ढक कर आग पर काबू पाया। दोनों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुखद यह रहा कि विधानसभा के सामने खड़े सुरक्षाकर्मी मां बेटी को आग की लपटों में घिरा देखते रहे लेकिन उन्होंने आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं की। महिला साफिया ने वहां के एक स्थानीय माफिया और स्थानीय निवासी इस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भी मिशन में लाल ग्रह अभियान प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया 'लांग मार्च-5 रॉकेट'

दूसरों का अमंगल कर मंगल जाने के फेर में चीन

बेजिंग, 17 जुलाई (एपी)।

चीन ने अपने प्रथम मंगल अभियान के तहत एक 'रोवर' भेजने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच अपनी तैयारी जारी रखी है और इसके लिए 'लांग मार्च-5 रॉकेट' को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया है। 'तियानवेन-1' नाम से चीन का यह मंगल अभियान 'लाल ग्रह' (मंगल) के लिए आगामी तीन अभियानों में एक है, जिनमें एक अमेरिका का और एक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का मिशन है। लांग मार्च-5 रॉकेट चीन का सर्वाधिक भार वाहक प्रक्षेपण यान है और इसका तीन बार प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन इस पर कभी पैलोट नहीं था। चीन का प्रथम मंगल अभियान बताए जा रहे 'तियानवेन-1' का उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने के लिए लाल ग्रह पर एक रोवर उतारना है। मंगल ग्रह के लिए चीन ने अंतिम प्रयास रुक के सहयोग से किया था, जो 2011 में नाकाम रहा था।

चीन के इस अभियान को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बादजुड़ इस अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि यूरोप और रूस ने मंगल पर इस साल की गर्मियों में रोवर भेजने की अपनी योजनाएं स्थगित कर दी हैं। चीन का प्रथम मंगल अभियान बताए जा रहे 'तियानवेन-1' का उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने के लिए लाल ग्रह पर एक रोवर उतारना है। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के हवाले से सरकारी मीडिया की ओर से जारी खबरों के मुताबिक रॉकेट

जुलाई या अगस्त के अंत में हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप में स्थित वेंचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया जाने वाला है।



चीन के इस अभियान को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। कोरोना महामारी फैलने के बादजुड़ इस अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं, जबकि यूरोप और रूस ने मंगल पर इस साल की गर्मियों में रोवर भेजने की अपनी योजनाएं स्थगित कर दी हैं। चीन का प्रथम मंगल अभियान बताए जा रहे 'तियानवेन-1' का उद्देश्य वैज्ञानिक आंकड़े जुटाने के लिए लाल ग्रह पर एक रोवर उतारना है। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के हवाले से सरकारी मीडिया की ओर से जारी खबरों के मुताबिक रॉकेट

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is notified that I, Lubna Sadaf W/O-Asim Ahmed Khan R/O-3899,3rd-Floor, Khirki-Tafazul Hussain,Kalan Mahal,Darya Ganj,Delhi-110002,1 Am Correcting My Name Of My Son's Passport Lubna Sadaf Khan To Lubna Sadaf. Hereafter Lubna Sadaf will Be Correct Name For His Future,Purposes.

0040542126-5

I, Wasiullah s/o Motiur rehman R/o-H-780, Khadda Colony, JaiPur Extn.,Part-2, BadarPur, Delhi-110044, have changed my name to Mohd Wasiullah Permanently.

0040542114-5

I, Vishal Saxena S/o Kailash Kumar Saxena R/O Flat.No-202, KH.No.506, Village Bijwasan Delhi-110061 changed my name to Vishal Kumar Saxena.

0040542126-3

I, Veena Ganjoo W/o Amit Kaul R/O C-89, Sector-52, Noida, G.B.Nagar, U.P.-201301, Have changed my name to Veena Kaul Permanently.

0040542106-1

I, Umesh Kumar s/o Harsawrup R/O-J-4/37D, First-Floor, Flat.No-B-2, Khirki-Extn., Malviya-Nagar, Delhi-110017,have changed my name to Umesh Vats Permanently.

0040542114-7

I, Umera Alimuddin Syed, W/o AlimuddinKarimuddin Syed, R/O 1206, Tower-28, 12thFloor, Lotus Boulevard, Noida Sector-100, Gautam BudhNagar, U.P.-201301 have changed my name fromUmera Syed to Umera Alimuddin Syed for all purposes.

0070708885-1

I, Suman Kumar S/o Sitaram Sharma R/O/H KH.No.12/23/1, Ground-Floor Village Shahbad Daulatpur PrakashVihar Part-2, Sahibabad Delhi-110042, have changed my name to Sudarshan Sharma.

0040542130-3

I, Sonu Kasana s/o Vedpal Kasana R/O-F-94, Chhuriya Mohalla, Tekhand-Village, Okhla, Ph-1,Delhi-110020 have changed my name to Sonu Permanently.

0040542114-6

I, Sindhu John D/o Onnunny John W/o Crise Jacob, R/O-Flat.No.29, Ground-Floor, Lilac-A-2, South-City-2, Sector-49, Gurugram (Haryana)-122018, have changed my name to Sindhu Crise Jacob, for all purposes.

0040542114-8

I, SONI KUMARI,W/O-NO-14672061/1 C/FN MANISH KUMAR,VILL-SANT KABIR NAGAR,P/O JADHUA, TEH-HAJIPUR,DIST-VAISHALI BIHAR-844102,MY ACTUAL-DOB,JS 02/02/1995

INSTEAD,OF,02/02/1994,VIDE-AFFIDAVIT DATE,15-JUL 2020,BEFORE MADAN LAL GUPTA,(DELHI).

0040542126-10

I, SARALA DEVI,W/O,OF JC-771663F,NB SUB RAJ SINGH R/O-VILL&PO GUDHANA,DIST-GURUGRAM,(HR)MY,ACTUAL DOB,JS 5,MY-1976,INSTEAD 17-JUL 1977,VIDE,AFFIDAVIT DATED,15JUL 2020,BEFORE MADAN LAL GUPTA,(DELHI).

0040542126-10

I, RAVI S/O JAI SINGH R/O B-4/6, DDU COMPLEX,HARI NAGAR,DELHI-110064. HAVE CHANGED MY NAME TO RAVI RAJPUT.

0040542130-1

I, RAHUL KIRAR S/O SANT RAM R/O-R-9 SHOP, MARKET.NO.2, RAGHUBIR-NAGAR, DELHI-27, have changed my name to RAHUL.

0040542114-4

I Raju Ram S/o Kumbha Ram R/O Aagore Chohtan Barmer, Rajasthan-344702, have changed my name to Rajiv Bhakar

0070708833-1

I, Pankhuri D/O-Mansi Goyal Singh and Puran Singh, R/O-House.No.D-11/2, 2nd-Floor,DLF-Exclusive Floors, DLF-5,Gurugram, Haryana-122009, have changed my name,from Pankhuri Goyal to Pankhuri, for all, future purpose.

0040542130-6

I, NEELAM RANI W/O DEVENDRA SINGH, R/O-RZ-7C/211-212, J-BLOCK, GALI. NO-3, WEST-SAGARPUR, DELHI-110046, have changed my name to NEELAM SINGH.

0040542114-3

I, Mishika Dhingra D/o Gurmeet Singh Dhingra R/O-C-114, Ground-Floor, Kirtinagar, N.Delhi-15 have changed my name to Mishika Kaur Dhingra.

0040542126-1

I Anil kumar s/o sh ved Prakash Bhardwaj r/o 38, Navjivan vihar ,Malviya Nagar, New delhi -110017 changed my name to Anil Bhardwaj

0050166629-1

I Anjali Aash Anjali Kanojia D/O, Sanjay R/O 5510, B-block, Street No. 115/18, Near Gurudwara, Sant Nagar, Burari, New Delhi- 110084 have changed my name to Anjali for all purposes.

0040542110-1

व्यक्तिगत

I, Md Hasnain S/o Anwar Ali R/o Mohammadpur Pojha, PO-Babhnath, Bhagwanpur, Vaishali, Bihar-844114, that name of my father and mother has been wrongly written as Md Anwar and Samsa Khatoun respectively in my Educational Documents. The actual name of my father and mother is Anwar Ali and Bibi Salma Respectively

0070708845-1

I, Madhu Bala, W/O-Shri Deepak Rikhi, R/O-B-6/27, Second-Floor, Sector-15, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Madhu Rikhi.

0040542126-7

I, Gurjit Kaur Sachdeva W/o Gurcharan Singh R/O Flat.No.28-C NP-Block Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Gurjeet kaur.

0040542126-4

I, Gaurav Sharma S/o.Shri Sushil Kumar Sharma, R/o.H.No.327, Sector-28, Faridabad, Haryana-121008, have change my name to Gaurav Shri Sharma, for all purposes.

0040542130-5

I, Deepanshu, S/O-Shri Ashok Kumar, R/O-G-112,New Saraswati Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Deepanshu Chutani.

0040542126-6

I, Azizuddin Alimuddin Syed, S/o AlimuddinKarimuddin Syed, R/O 1206, Tower-28, 12thFloor, Lotus Boulevard, Noida Sector-100,Gautam Budh Nagar, U.P.-201301 havechanged my name from Azizuddin Syed toAzizuddin Alimuddin Syed for all purposes.

0070708883-1

I, Azimuddin Alimuddin Syed, S/o AlimuddinKarimuddin Syed, R/O 1206, Tower-28, 12thFloor, Lotus Boulevard, Noida Sector-100,Gautam Budh Nagar, U.P.-201301 havechanged my name fromAzimuddin Syed toAzimuddin Alimuddin Syed for all purposes.

0070708882-1

I, Alka Zandari D/o Ram Parshad Mahajan R/O-10-D Himalaya Legend, Nyay Khand-1 Indirapuram Ghaziabad-201014,Have Changed My Name To Alka.

0040542114-2

I, Aliya Zandari D/o Hamid Zandari R/o-10-D Himalaya Legend, Nyay Khand-1 Indirapuram Ghaziabad-201014,Have Changed My Name To Aliya.

0040542114-1

I Tejal Deepak Metri D/o Deepak Ramdas Metri R/o House no-F-F-7, Agali Estate, Agali, Margao Town Salcete, South Goa-403602, have changed my name to Quinn Scott

0070708864-1

I Satvinder Kaur W/o Jatinder Singh Thukral R/O WZ-24 B, S P Mukherjee Park, Near Tilak Nagar, New Delhi-110018 changed my name to Satvinder Kaur Thukral

0070708876-1

I Ramanpreet Singh S/O-Jaspal Singh R/O-C-57-B,Tilak Vihar,Tilak Nagar, S.O.Delhi-110018, changed my name to Israel Abraham.I Don't Wanna Change My Religion.

0040542126-2

I Pushpa Kumari D/o Keshar Singh R/O House No-714, Sanjay Enclave nagla Road, Sector-22, Nit Faridabad, Haryana-121005, have changed my name to Paavi Chaudhary

0070708879-1

I Pradip Singh S/O Piara Singh Thukral R/O WZ-24 B, S P Mukherjee Park, Near Tilak Nagar, New Delhi-110018 changed my name to Pradip Singh Thukral

0070708873-1

I Payal Choudhary W/o Vicky Verma R/O House No-6, Ward no-22, Tarapuri Vishnu Nagar, Jagadhri workshop Yamuna Nagar, Haryana-135002, have changed my name to Lovely Verma

0070708836-1

I Paras Nath Yadav S/o Saraju Yadav R/O Amghat Ghazipur, Jashdeepur, UP-232321, have changed my name to Paras Nath Kumar

0070708868-1

I Mohd Basit S/O, Mohd Ayyub Khan R/o H.No 1731 Street Chandni Wali Pahari Bhojala, Delhi -110006 have changed my name to Abdul Basit for all purposes.

0040542059-1

I Lakhan Singh S/o Baman Singh Pathak R/o Vamanpura, Agra, UP-283122, have changed my name to Laxman Singh

0070708830-1

I Hemant Kumar S/o Krishan Lal Wadhwa R/O House No-27, Gopal Nagar, Fateh Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Hemant Wadhwa

0070708824-1

I Ginni Matharu Alias Guneet Kaur D/o Parmet Singh and W/o Puneet Singh Makan R/O G-12B, Vijay Nagar Single Storey, GTB Nagar, Delhi-110009, have changed my name to Guneet Kaur

0070708846-1

I Azhar S/o Rizwan Khan R/O 9/370 Khichipur Delhi-110091 have changed my name to Azhar Khan for all purposes.

0040542114-9

I, Abhishek Yadav S/o Vinod Kumar R/O LIG-237, Sector-16B, Pocket-3C, Dwarka, Delhi-110078, that name of my father and mother has been wrongly written as Vinod Yadav and Seema Yadav respectively in my Educational Documents. The actual name of my father and mother is Vinod Kumar and Seema Rao respectively

0070708840-1

I Chaman S/o Sh.Naresh Kumar R/O 220/1B, Gali No.4, Padam Nagar, Delhi-110007 have changed my name to Reyansh Bhardwaj for all purposes.

0040542103-1

I Bhanwari Jangu D/o Nand Ram R/O Chak 1 LM, Hanuman Nagar, Makeri, Dehtalal, Bikaner, Rajasthan-334023, have changed my name to Bhawna

0070708843-1

I Anant Kumar Singh S/O Kalika Singh R/O House no-114A, Yuvarajpur, Teh Zamanla, Dist-Ghazipur, UP-223322, have changed my name to Anand Singh

0070708847-1

I Charan Singh Alias Charan Singh Deol S/O Mukhtiar Singh R/o 780, Ward no-19, Bakkar Khana Road, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401, have changed my name to Charan Singh Deol

0070708844-1

खोया-पाया

It is notified for the information that my original qualifyng certificate of Main Secondary examination of year 2011 roll no. 8195153, And Senior Secondary examination of year 2013 roll no. 9170165 issued by CBSE has been actually lost. Deepti Yadav d/o Devtadin Yadav, H-17/16 Sangam Vihar New Delhi-110062 Mobile No. 7982875905

I, ZEBA D/o shanzad Khan R/O C-POCKET-2226, madanpur-khadar, j.j.colony N.D-76,have lost my original certificate/ marksheet Class-10th(2008) 6422587 Class-12th(2010) Rollno- 6709363 CBSE-Delhi.

0040542130-4

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Deepak Kumar S/o Late Sh. Bahadur Singh & Smt. Poonam W/o Sh. Deepak Kumar both R/O R/O-8130R, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052 have severel all relations with their daughter-in-law respectively namedy Smt. Anil W/o Sh. Madan Mohan R/o C-130R, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052, due to his/her misdeedful behaviour, out of control of my clients disobedience and comitly cruelty upon my clients and their children, my clients have been debarred and disownd her from our movable and immovable properties, and all her dealings with her in any manner, he/she shall do so at their own risk, cost and consequences. My clients shall not be liable or responsible for the same in any manner.

PRADEEP KUMAR ANAND ADVOCATE

153, Deena Nath Road, Rohtasara Road, Delhi-110007

0040542114-2

I, Aliya Zandari D/o Hamid Zandari R/o-10-D Himalaya Legend, Nyay Khand-1 Indirapuram Ghaziabad-201014,Have Changed My Name To Aliya.

0040542114-1

I Tejal Deepak Metri D/o Deepak Ramdas Metri R/o House no-F-F-7, Agali Estate, Agali, Margao Town Salcete, South Goa-403602, have changed my name to Quinn Scott

0070708864-1

I Satvinder Kaur W/o Jatinder Singh Thukral R/O WZ-24 B, S P Mukherjee Park, Near Tilak Nagar, New Delhi-110018 changed my name to Satvinder Kaur Thukral

0070708876-1

I Ramanpreet Singh S/O-Jaspal Singh R/O-C-57-B,Tilak Vihar,Tilak Nagar, S.O.Delhi-110018, changed my name to Israel Abraham.I Don't Wanna Change My Religion.

0040542126-2

I Pushpa Kumari D/o Keshar Singh R/O House No-714, Sanjay Enclave nagla Road, Sector-22, Nit Faridabad, Haryana-121005, have changed my name to Paavi Chaudhary

0070708879-1

I Pradip Singh S/O Piara Singh Thukral R/O WZ-24 B, S P Mukherjee Park, Near Tilak Nagar, New Delhi-110018 changed my name to Pradip Singh Thukral

0070708873-1

I Payal Choudhary W/o Vicky Verma R/O House No-6, Ward no-22, Tarapuri Vishnu Nagar, Jagadhri workshop Yamuna Nagar, Haryana-135002, have changed my name to Lovely Verma

0070708836-1

I Paras Nath Yadav S/o Saraju Yadav R/O Amghat Ghazipur, Jashdeepur, UP-232321, have changed my name to Paras Nath Kumar

0070708868-1

I Mohd Basit S/O, Mohd Ayyub Khan R/o H.No 1731 Street Chandni Wali Pahari Bhojala, Delhi -110006 have changed my name to Abdul Basit for all purposes.

0040542059-1

I Lakhan Singh S/o Baman Singh Pathak R/o Vamanpura, Agra, UP-283122, have changed my name to Laxman Singh

0070708830-1

I Hemant Kumar S/o Krishan Lal Wadhwa R/O House No-27, Gopal Nagar, Fateh Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Hemant Wadhwa

0070708824-1

I Ginni Matharu Alias Guneet Kaur D/o Parmet Singh and W/o Puneet Singh Makan R/O G-12B, Vijay Nagar Single Storey, GTB Nagar, Delhi-110009, have changed my name to Guneet Kaur

0070708846-1

I Azhar S/o Rizwan Khan R/O 9/370 Khichipur Delhi-110091 have changed my name to Azhar Khan for all purposes.

0040542114-9

I, Abhishek Yadav S/o Vinod Kumar R/O LIG-237, Sector-16B, Pocket-3C, Dwarka, Delhi-110078, that name of my father and mother has been wrongly written as Vinod Yadav and Seema Yadav respectively in my Educational Documents. The actual name of my father and mother is Vinod Kumar and Seema Rao respectively

0070708840-1

I Chaman S/o Sh.Naresh Kumar R/O 220/1B, Gali No.4, Padam Nagar, Delhi-110007 have changed my name to Reyansh Bhardwaj for all purposes.

0040542103-1

I Bhanwari Jangu D/o Nand Ram R/O Chak 1 LM, Hanuman Nagar, Makeri, Dehtalal, Bikaner, Rajasthan-334023, have changed my name to Bhawna

0070708843-1

I Anant Kumar Singh S/O Kalika Singh R/O House no-114A, Yuvarajpur, Teh Zamanla, Dist-Ghazipur, UP-223322, have changed my name to Anand Singh

0070708847-1

I Charan Singh Alias Charan Singh Deol S/O Mukhtiar Singh R/o 780, Ward no-19, Bakkar Khana Road, Khanna, Ludhiana, Punjab-141401, have changed my name to Charan Singh Deol

0070708844-1

I, Madhu Bala, W/O-Shri Deepak Rikhi, R/O-B-6/27, Second-Floor, Sector-15, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Madhu Rikhi.

0040542126-7

I, Gurjit Kaur Sachdeva W/o Gurcharan Singh R/O Flat.No.28-C NP-Block Pitampura Delhi-110034 have changed my name to Gurjeet kaur.

0040542126-4

I, Gaurav Sharma S/o.Shri Sushil Kumar Sharma, R/o.H.No.327, Sector-28, Faridabad, Haryana-121008, have change my name to Gaurav Shri Sharma, for all purposes.

0040542130-5

I, Deepanshu, S/O-Shri Ashok Kumar, R/O-G-112,New Saraswati Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Deepanshu Chutani.

0040542126-6

I, Azizuddin Alimuddin Syed, S/o AlimuddinKarimuddin Syed, R/O 1206, Tower-28, 12thFloor, Lotus Boulevard, Noida Sector-100,Gautam Budh Nagar, U.P.-201301 havechanged my name from Azizuddin Syed toAzizuddin Alimuddin Syed for all purposes.

0070708883-1

I, Azimuddin Alimuddin Syed, S/o AlimuddinKarimuddin Syed, R/O 1206, Tower-28, 12thFloor, Lotus Boulevard, Noida Sector-100,Gautam Budh Nagar, U.P.-201301 havechanged my name fromAzimuddin Syed toAzimuddin Alimuddin Syed for all purposes.

0070708882-1

I, Alka Zandari D/o Ram Parshad Mahajan R/O-10-D Himalaya Legend, Nyay Khand-1 Indirapuram Ghaziabad-201014,Have Changed My Name To Alka.

0040542114-2

I, Aliya Zandari D/o Hamid Zandari R/o-10-D Himalaya Legend, Nyay Khand-1 Indirapuram Ghaziabad-201014,Have Changed My Name To Aliya.

0040542114-1

I Tejal Deepak Metri D/o Deepak Ramdas Metri R/o House no-F-F-7, Agali Estate, Agali, Margao Town Salcete, South Goa-403602, have changed my name to Quinn Scott

0070708864-1

I Satvinder Kaur W/o Jatinder Singh Thukral R/O WZ-24 B, S P Mukherjee Park, Near Tilak Nagar, New Delhi-110018 changed my name to Satvinder Kaur Thukral

0070708876-1

I Ramanpreet Singh S/O-Jaspal Singh R/O-C-57-B,Tilak Vihar,Tilak Nagar, S.O.Delhi-110018, changed my name to Israel Abraham.I Don't Wanna Change My Religion.

0040542126-2

I Pushpa Kumari D/o Keshar Singh R/O House No-714, Sanjay Enclave nagla Road, Sector-22, Nit Faridabad, Haryana-121005, have changed my name to Paavi Chaudhary

0070708879-1

I Pradip Singh S/O Piara Singh Thukral R/O WZ-24 B, S P Mukherjee Park, Near Tilak Nagar, New Delhi-110018 changed my name to Pradip Singh Thukral

0070708873-1

I Payal Choudhary W/o Vicky Verma R/O House No-6, Ward no-22, Tarapuri Vishnu Nagar, Jagadhri workshop Yamuna Nagar, Haryana-135002, have changed my name to Lovely Verma

0070708836-1

I Paras Nath Yadav S/o Saraju Yadav R/O Amghat Ghazipur, Jashdeepur, UP-232321, have changed my name to Paras Nath Kumar

0070708868-1

I Mohd Basit S/O, Mohd Ayyub Khan R/o H.No 1731 Street Chandni Wali Pahari Bhojala, Delhi -110006 have changed my name to Abdul Basit for all purposes.

0040542059-1

I Lakhan Singh S/o Baman Singh Pathak R/o Vamanpura, Agra, UP-283122, have changed my name to Laxman Singh

0070708830-1

I Hemant Kumar S/o Krishan Lal Wadhwa R/O House No-27, Gopal Nagar, Fateh Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Hemant Wadhwa

0070708824-1

I Ginni Matharu Alias Guneet Kaur D/o Parmet Singh and W/o Puneet Singh Makan R/O G-12B, Vijay Nagar Single Storey, GTB Nagar, Delhi-110009, have changed my name to Guneet Kaur

0070708846-1

I Azhar S/o Rizwan Khan R/O 9/370 Khichipur Delhi-110091 have changed my name to Azhar Khan for all purposes.

0040542114-9

I, Abhishek Yadav S/o Vinod Kumar R/O LIG-237, Sector-16B, Pocket-3C, Dwarka, Delhi-110078, that name of my father and mother has been wrongly written as Vinod Yadav and Seema



जांच बढ़ी तो घटती दिख रही कोरोना की रफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

राजधानी में कोरोना की जांच बढ़ने के साथ संक्रमण के मामलों की रफ्तार धीमी दिख रही है। दिल्ली में शुक्रवार को 1462 नए मामले आए हैं और 26 मरीजों की मौत हुई है। इस आंकड़े में शुक्रवार को रिकार्ड गिरावट देखी गई है और दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 82.62 फीसद तक आ गया है।
 दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में आरटीपीसीआर जांच - 6270 और एंटीजन टेस्ट- 14,194 हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 20,464 जांच की गई है। जबकि आज तक कुल 7,77,125 जांच की जा चुकी है। शुक्रवार को कोरोना के 1462 मामले आने के बाद मरीज बढ़कर 1,20,107 हो गए हैं।

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मार्ग गलियारे पर चौथे चरण के भूमिगत खंड के निर्माण कार्य की शुरुआत की। काम के हिस्से के रूप में, डी कॉल का निर्माण और 28.92 किलोमीटर लंबे गलियारे के सुरंग की ढलाई औपचारिक रूप से शुरू हो गई। कृष्ण पार्क एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन पर डी कॉल के निर्माण के लिए सुरंग बोरिंग मशीन (टीबीएम) के साथ सुरंग खंडों का निर्माण किया जाएगा।
 जनकपुरी पश्चिम और केशोपुर के बीच 1.4 किलोमीटर की दूरी पर सुरंग बनाने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा, लगभग दो किमी लंबे इस खंड में कृष्ण पार्क एक्सटेंशन स्टेशन भी होगा और 365 मीटर का हिस्सा कट और कवर विधि से बनेगा।

बिजली कंपनियों और सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन

कनेक्शन काटा तो भाजयुमो वाले जोड़ेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की बिजली कंपनियों व दिल्ली सरकार पर मिली भगत करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं की एक टीम गठित की है। बिजली कंपनियों किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटती है तो यह टीम उस कनेक्शन को जोड़ेगी और कंपनियों को कनेक्शन नहीं काटने देगी।
 भाजपा ने बिजली बिलों में तय शुल्क के विरोध में शुक्रवार को सभी 70 विधानसभा में



फोटो : अरुण चोपड़ा
 'कहाँ गई बिजली' का नारा देते हुए बिजली कनेक्शन काटने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक टीम गठित की गई है।

प्रदर्शन किए। सांसदों व विधायकों ने इसकी अगुआई की। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी, सांसद दुष्यंत गौतम, मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधुड़ी, गौतम गंभीर सहित वरिष्ठ नेताओं ने जन आंदोलन में लिया हिस्सा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बिजली बिलों के कारण हो रही समस्याओं को लेकर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि बिजली बिलों पर छूट बहाल और नोटिस वापस लिए जाएं।
 मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले तो टार का माहौल बना कर इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर किया और अब दिल्ली के लोगों को भी परेशान करने का काम कर रही है। वहीं, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (यूआरडी) ने भी उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने की मांग की है। यूआरडी ने उपभोक्ताओं को एक साथ आने को कहा।

गुप्ता ने बिजली बिलों के कारण हो रही समस्याओं को लेकर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि बिजली बिलों पर छूट बहाल और नोटिस वापस लिए जाएं।
 मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले तो टार का माहौल बना कर इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर किया और अब दिल्ली के लोगों को भी परेशान करने का काम कर रही है। वहीं, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (यूआरडी) ने भी उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने की मांग की है। यूआरडी ने उपभोक्ताओं को एक साथ आने को कहा।

मुख्यमंत्री बेघरों से मिलने पहुंचे, रहने का इंतजाम किया

लक्ष्मी नगर में निगम ने हटाई थ्री झुगियां



जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट से हटाई गई झुगियों के परिवारों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रहने की अस्थाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में जांच के लिए पहुंचे और बेघर हुए परिवारों से मिले।
 मुख्यमंत्री के साथ मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, विधायक राखी बिड़ला, कुलदीप कुमार और अजय दत्त शामिल थे। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां पर कोर्ट के आदेश पर कुछ गरीबों की झुगियां व मकान तोड़े गए हैं। इस मामले में अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान किन हालातों में अदालत ने यह आदेश जारी किए।
 मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बेघर हुए लोगों के रहने के लिए अस्थाई रूप से बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए आसपास कोई जमीन मिलती है, तो टेंट लगाकर इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन उपलब्ध नहीं होने पर किसी स्कूल में रहने, खाने और शौचालय का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद इनका स्थाई रूप से क्या समाधान किया जा सकता है।

PUBLIC NOTICE

EOI FOR VERIFICATION OF INVENTORY
 Growthways Trading Private Limited is under CIRP, IBC, 2016 invites Expression of Interest (EOI) for verification of Inventory Godown situated at Faridabad. The Company deal in E-commerce business apparels, footwear, watches and various other items. (Total Items 423000).
 Send your EOI/Quotation within 5 days to :
SUNIL KUMAR AGRAWAL
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL
 (IBBI/PA-002/IP-N00081/2017-18/10222)
 Correspondence Address: 904, GF, Sector-7C, Faridabad-121006
 Email: ipgrowthways2019@gmail.com, agrawalsk21@yahoo.com
 Office: 0129-4881648, 91 - 9319703648

विज्ञापन क्रमांक-64/2020
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
में
निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तिथि
7th सितंबर, 2020 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉगइन करें।

कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कटे चालान

नई दिल्ली। दिल्ली में मास्क न पहनने और उचित दूरी का पालन ना करने वालों के साथ ही यातायात पुलिस सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटका और तंबाकू के सेवन करने और थूकने के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस ने अब तक सभी मामलों में 52,465 लोगों के चालान काटे हैं।

बसंत इंडिया लिमिटेड
 आर.ओ. 912, इन्द्र प्रकाश बिल्डिंग, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
 ईमेल आईडी: basant.india@gmail.com / वेबसाइट: www.basant.india.in
 टेली.नं. 011-237165341 / CIN: U51909DL1985PLC021396

सूचना
 सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल को एक बैठक शनिवार, 25 जुलाई, 2020 को 3.00 बजे अप. में 912, इन्द्र प्रकाश बिल्डिंग, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें सूचीयन विनियमन के विनियमन 33 के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेषित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जायेंगे।
बसंत इंडिया लिमिटेड के लिये
सुभाषु शेखर नायक
कम्पनी सचिव

तिथि: 17.7.2020
 स्थान: नई दिल्ली

केन फिन होम्स लि.
 एएससीओ-34 एवं 35, 1st फ्लोर, केन बैंक के ऊपर, सेक्टर-10ए, गुडगाँव, तेलंगाना-500035, 237060 CIN No. L85110KA1987PLC008699

परिशिष्ट-IV-ए
(नियम 8 (6) का प्रावधान देखें)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमवली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पंढित वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री सूचना
 एनद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(को) तथा गारन्टर(सें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास गिरवी/वाजई नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनफिन होम्स लि., गुडगाँव शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की चप्पा देवी एवं अशोक राजनगर (ऋणधारकों) तथा राजेश कुमार सिंह, पुत्र केशव सिंह (गारन्टरों) से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्ज के साथ 8.5.2019 को केन फिन होम्स लि. के बकाये रु. 32,11,023/- (रुपये बत्तीस लाख न्याह्र हजार तैंस मात्र) की वसूली के लिये 21.8.2020 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 37,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 3,70,000/- (रुपये तीन लाख सत्तर हजार मात्र) होगी।
सम्पत्ति की अनुसूची
 (मकान सं. 1565/77, ख. नं.-11142/4365/3217/79/1-66 टैप 11148/79/7, ब्लॉक-जी, राजेंद्र पार्क, गुडगाँव)
 बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) पर दी गई हैं। कृपया अधोपस्थित लिंक <https://www.canfinhomes.com/search/auction.aspx> देखें।
 तिथि: 17.7.2020
 स्थान: गुडगाँव
 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
 केन फिन होम्स लि.

पुर्षोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: एल-7, मेन प्लेजर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, साउथ दिल्ली-110016
 CIN: L65910DL1988PLC033799, ई-मेल: pursottaminvestofin@gmail.com
 टेली.: 011-46067802, वेबसाइट: www.pursottaminvestofin.in
 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिये अंकेषित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2020 अंकेषित	31.3.2020 अंकेषित
1.	परिचालन से कुल आय (घुस)	105.68	231.77
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विलिप्त एवं/अथवा असाधारण मूल्य से घुस)	60.25	(3.17)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विलिप्त एवं/अथवा असाधारण मूल्य के बाद)	60.25	(3.17)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विलिप्त एवं/अथवा असाधारण मूल्य के बाद)	60.25	(3.17)
5.	अवधि के लिए कुल व्याज आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्याज आय (कर से बाद) से शामिल)	60.25	(3.17)
6.	प्रदत्त इन्वेस्टमेंट के मूल्य	628.36	628.36
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पर में दराई) नई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित (क्रॉइकर)	2338.34	2375.71
8.	आय प्रति शेयर (इंफोर्स) (रु. में) मूल एवं सरल इंफोर्स	0.96	(0.05)

टिप्पणी:
 1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायित्व को गैर अंकेषित तिमाही वित्तीय परिणामों के समूहों विवरण प्रारूपा का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज को वेबसाइट www.pursottaminvestofin.in तथा कम्पनी की वेबसाइट www.pursottaminvestofin.in पर उपलब्ध है।
 2. उपरोक्त परिणामों को ऑडिट कर्मियों द्वारा समीक्षा की गई तथा 16.07.2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।
 3. कम्पनी ने उसके अंतर्गत जारी संबंधित विवरणों के साथ पंढित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट धारणीय लेखा मसौदा (टैब ए एन) अर्पण है। इंटरएयर में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2018 है एवं तदनुसार वित्तीय परिणामों को इंटरएयर 34 "अंतिम वित्तीय परिणाम" में निर्दिष्ट पद्धतान तथा मापन के सिद्धांतों तथा मापन में सामान्य: स्वीकृत आम लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। संक्रमण के प्रभाव का लेखा प्रभावण आरक्षितों में किया गया है तथा तुलनात्मक अवधि के आरंभों को तदनुसार पुनर्गठित किया गया है।
 4. इसे चालू अवधि के वित्तीय उद्घाटन के अनुसूचित बनावने के लिये जारी भी जल्दी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़े पुनर्गठित/पुनर्गठित/संशोधित किए गए हैं।

बोर्ड के आदेश से
 पुर्षोत्तम इन्वेस्टोफिन लि. के लिये
 हस्ता./-
 साहब सिंह गुप्ता
 प्रबंध निदेशक
 DIN: 00649786

स्थान: दिल्ली
 तिथि: 16.07.2020

PUBLIC NOTICE
 I, Amit Kataly, S/o Sh. O.P Kataly, R/o C-654, New Friends Colony, New Delhi-110069, would like to announce through this public notice, that I had bought an apartment bearing No-KCB009 in Kings's Court, W Block, GK-II from M/s. DLF Luxury Homes Ltd vide allotment letter dated 31.03.2017 and have misplaced certain documents pertaining to the same booking. The documents misplaced include:
 1. Residential Apartment Buyer's Agreement dated 05.04.2017
 2. Payment receipts as under:

S. No.1	Receipt No.	KNG/CRB/00001/0417	Date	03/04/2017
S. No.2	Receipt No.	KNG/CRB/00001/0517	Date	13/05/2017
S. No.3	Receipt No.	KNG/CRB/00002/0517	Date	13/05/2017
S. No.4	Receipt No.	KNG/CRB/00003/0517	Date	13/05/2017
S. No.5	Receipt No.	KNG/CRB/00004/0517	Date	13/05/2017
S. No.6	Receipt No.	KNG/CRB/00005/0517	Date	13/05/2017
S. No.7	Receipt No.	KNG/CRB/00006/0517	Date	13/05/2017
S. No.8	Receipt No.	KNG/CRB17/00002/17	Date	25/10/2017

 Through this notice, I would like to request anyone who finds the above documents to not misuse the above documents and handover the same to me at my residential address mentioned above or the office address mentioned below:
 406, 4th Floor, Elegance Tower 8, Jasola District Centre, New Delhi.
 Sd/-
Amit Kataly

THE DELHI STATE COOPERATIVE BANK LTD.
 (A SCHEDULED BANK)
 Head Office : 31, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110 002

ABRIDGED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

CAPITAL AND LIABILITIES	Current Year	Previous Year
	As at 31.03.20	As at 31.03.19
Share Capital	167,465,870.00	151,246,560.00
Reserve Fund and Other Reserves	2,962,880,310.38	2,731,171,114.83
Deposits & Other Accounts	12,204,943,087.64	11,857,784,470.68
Borrowings	-	24,858,328.00
Bills for Collection Being Bills Receivable (as per contra)	1,142,615.70	1,033,678.70
Overdue Interest Reserve	390,488,850.95	423,547,044.94
Other Liabilities, Provisions & Interest Payable	450,821,084.93	455,887,374.88
Branch Adjustment	-	-
Profit / Loss A/c	222,832,830.75	238,113,998.79
TOTAL	16,400,574,650.35	15,883,642,570.82

ASSETS

	Current Year	Previous Year
	As at 31.03.20	As at 31.03.19
Cash & Balance with RBI, SBI, SCBs & CCBs	441,851,233.45	536,820,946.30
Balance with Other Banks and Money at Call & Short Notice	4,560,835,919.86	3,999,366,280.66
Investments	2,374,980,000.00	2,632,130,000.00
Advances (Net of NPA Provision)	8,188,097,203.52	7,894,832,226.02
Branch Adjustment	-	2,223,735.41
Fixed Assets	187,066,519.61	191,923,701.75
Interest Recoverable	390,488,850.95	423,547,044.94
Bills Receivable Being Bills for Collection (as per contra)	1,142,615.70	1,033,678.70
Other Assets	242,092,311.73	184,292,294.73
Deferred Revenue Expenditure	14,019,995.53	17,472,662.31
TOTAL	16,400,574,650.35	15,883,642,570.82

Contingent Liabilities(Guarantee issued to others) 21330429.00 20555429.00
 Contingent Liabilities (DEAF) 5133577.83 5161070.00
 Previous year's figures have been re-grouped / re-classified, wherever considered necessary

ABRIDGED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

	31.03.2020	31.03.2019
INCOME		
Interest and discount	1,537,406,055.35	1,506,027,846.30
Commission, exchange and brokerage	491,331.17	625,693.02
Income from non banking assets and profit from sale or dealing with such assets	-	-
Other receipts	30,162,326.04	25,643,139.24
Excess Provision of NPA Written Back	17,071,278.53	33,664,047.00
TOTAL	1,585,130,991.09	1,565,960,725.56
EXPENDITURE		
Interest on deposits, borrowings, etc.	621,732,920.72	606,652,872.73
Other Operating Expenses	659,550,860.36	658,343,580.78
Net Profit before Tax & Provisions	303,847,210.01	300,964,272.05
Less: Tax & Provisions	96,664,106.00	78,500,000.00
Net Profit (Loss) after Tax & Provisions	207,183,104.01	222,464,272.05

Previous year's figures have been re-grouped / re-classified, wherever considered necessary

Highlights of Bank's Working

- High rate of interest on deposit and Lower lending rates than other Banks.
- Special Loan Scheme for the Govt. Employees, Current/ Saving Account Holders, Business men, Students, Farmers, Professionals, Educational Institutions / Societies, Retail Traders, Village industries, etc.
- Credit Card facility for Farmers, Govt. Employees, Current Account Holders etc.

Place : New Delhi
 Dated : 17.06.2020

Sd/-
Dr. Bijender Singh **Ch. Sukhbir Singh Panwar** **Sd/-**
President **Vice President** **Anita Rawat** **Nidhi Chandra**
Managing Director **A.G.M.**

SERVING WITH WIDE SPREAD NETWORK OF BRANCHES IN THE NCT OF DELHI


यूनियन बैंक Union Bank of India
 ऑफ इंडिया
 भारत सरकार का प्रमुख बैंक Government of India undertaking
 आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh
 कोयंबटूर कोर्पोरेशन Coimbatore Corporation

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण), छठी मंजिल, कोनक्वस टॉवर, यूनिट 602 ए, टॉवर 11, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, अजमेरी गेट के सामने, नई दिल्ली
रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली -110001, दूरभाष-011-23218529

नीलामी सूचना
चल / अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पंढित वित्तीय आश्वासनों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
 आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक / प्रभारित, का कब्जा, प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कॉर्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूति लेनदार की नीचे वर्णित रूपर की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 19-08-2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपर है।

क्र. सं.	सम्पत्ति नं.	शाखा और प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.	कर्जदार का नाम एवं पता	गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाल अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति भौतिक या सांकेतिक	कर्जदार / गारंटर से वसूल की जाने वाली राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1	1	दिल्ली (तानावग्रस्त परिवार प्रबंधन क्षेत्र) एम-93, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली - 110001 प्राधिकृत अधिकारी उमा शर्मा मो. 7015059200	मैसर्स गंगुली ब्रदर्स, 26 रीगल बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	मैसर्स श्रीजी कृपा एंटरप्राइजेज सी/ओ मैसर्स गंगुली ब्रदर्स, 26 रीगल बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 मैसर्स मयंक बरोडिया, सी/ओ मैसर्स गंगुली ब्रदर्स, 26 रीगल बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 सुश्री रोशनी बरोडिया, सी/ओ मैसर्स गंगुली ब्रदर्स, 26 रीगल बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 श्री माधवी बरोडिया, सी/ओ मैसर्स गंगुली ब्रदर्स, 26 रीगल बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 श्री घनेश कुमार बरोडिया, सी/ओ मैसर्स गंगुली ब्रदर्स, 26 रीगल बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	घड़ियों और घूब के चश्मे के मण्डार जोकि- सोइको, पुष्पा / टिसोट / कुल किड्स / डिस्पे, डीडब्ल्यू / पॉल कुलिन, सनलाल, किड ग्लास, अलवा, टाइम, जाकोब सामोन, कैसियो, टाइमएक्स, सोनाटा, डिवान, हेलक्स, ग्लैडनो, आरआरटीसी, रोमनसन, मैक्सिमा, मोरीवो, फास्टट्रैक, एम. सिक्सटी, एस्पिरिट, क्रस, क्यू एंड क्यू, टॉपी / फूब, हाओऑन, ओनाक्स, फॉसिल, रोटी, आरसी, जस्ट कैवाली, फास्ट सनलाल, सीके, स्वेच, आदि ब्रांड में शामिल हैं। ज्ञात नहीं	रु. 14,35,77,368/- और रु. 82,100/- और रु. 50,000/-	रु. 8,21,000/- रु. 82,100/- रु. 50,000/-	19-08-2020 घोषहर 12.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक (10 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	07-08-2020 पूर्व. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	
2	2	दिल्ली (तानावग्रस्त परिवार प्रबंधन क्षेत्र) एम-93, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली - 110001 प्राधिकृत अधिकारी उमा शर्मा मो. 7015059200	मैसर्स अंबिका टिम्बर ट्रेड प्रा. लि., 73/8, स्वर्ण पार्क, रोहतक रोड, नांगलोई, नई दिल्ली 110041							



आसपास दिल्ली

योगी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम : 'आप'

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 जुलाई।

आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, कोरोना पर कम जांच और भ्रष्टाचार पर योगी सरकार पर जमकर तंज कसा। सेक्टर-29 में आयोजित प्रेसवार्ता में 'आप' के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर पर कहा कि विकास एक दिन में नहीं बन जाता है विकास बनने में किन-किन लोगों का सहयोग रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने प्रदेश में कोरोना की हो रही कम जांच को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। 24 करोड़ आबादी वाले राज्य में मात्र 25 हजार



विकास दुबे एक दिन में नहीं बन जाता है, विकास बनने में किन-किन लोगों का सहयोग रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए - सिंह

लोगों की जांच हो रही है। जबकि ढाई करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में रोजाना 23 हजार लोगों की कोरोना जांच हो रही है। इतनी बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ना के बराबर कोरोना जांच हो रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम मामले हैं। सरकार नो एफआइआर, नो क्राइम और नो कोरोना जांच का फार्मूला अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को तत्काल कोरोना की जांच बढ़ानी चाहिए। प्रदेश में कम से कम दो लाख लोगों की प्रतिदिन कोरोना जांच होनी चाहिए

कांग्रेस समेत सपा व बसपा के कई नेता 'आप' में शामिल

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, प्रदेश के सह-प्रभारी नदीम अशरफ जायसी की मौजूदगी में जिले के कदावर कांग्रेस समेत सपा व बसपा के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। संजय सिंह ने सभी लोगों को पार्टी की टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर 1991 में नोएडा-दादरी से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके चौधरी जिले सिंह भाटी एवं उनके पुत्र हरदीप सिंह भाटी भी आप पार्टी में शामिल हुए।

और सभी जिलों में कोरोना जांच के लिए प्रयोगशाला बनाने की मांग की।

कोरोना की जांच के लिए आधार कार्ड होगा अनिवार्य

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 जुलाई।

जनपद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों में कोरोना संक्रमण को चिह्नित करने के लिए जांच की जा रही है। कुछ निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति दी गई है। लेकिन जांच करने वालों के गलत पते स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। लिहाजा, रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित लोगों की तलाश करने में स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। इस वजह से जांच के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है।

कार्यवाहक सीएमओ डॉ. नेपाल सिंह ने बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जांच करवाने के दौरान गलत पता और मोबाइल नंबर लिखवाते हैं और बाद में विभाग को उन्हीं तलाशने में परेशानी होती है। इस वजह से जांच के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। इससे पहले तक शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने

जांच कराने वाले दे रहे हैं विभाग को गलत पता

वाले ऐसे लोगों की ही जांच की जाती थी, जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर जिन्हें चिकित्सक कोरोना जांच की सलाह दें। लेकिन अब अलग-अलग क्षेत्रों में जांच के लिए बूथ स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में एंटीजन किट से कोरोना जांच की जा रही है। दूसरी तरफ, डीएम सुहास एलवाई ने शुक्रवार को नोएडा स्थित कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के भीतर साफ-सफाई से लेकर मरीजों के लिए दिए जाने वाले खाने के गुणवत्ता की जांच की। वहीं नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण ने भी अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारी और डॉक्टरों को निर्देशित किया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के बिस्तरों की चादर रोज बदलें। उपचार करा रहे पुष्ट मरीजों को प्रावधान के तहत ही दवा उपलब्ध कराई जाए।

नियमित टीकाकरण में अब निमोनिया का टीका भी शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 जुलाई।

गौतमबुद्धनगर सहित प्रदेश के 56 जिलों में निमोनिया की वैक्सीन (न्यूमोकोकल कांजुगेट) सरकारी नियमित टीकाकरण में शामिल होने का जरा रही है। इसके लिए शासन की ओर से 8 अगस्त की तारीख तय की है। शासन स्तर से एनआइसी सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में प्रतिरक्षण से जुड़े जिले के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। नियमित टीकाकरण में इस वैक्सीन को शामिल किए जाने का बहुत दिनों से इंतजार था। इससे पहले प्रदेश ने 19 जिलों में यह वैक्सीन लग रही है। इस तरह अब इस वैक्सीन की सुविधा अगले माह से प्रदेश के सभी जिलों में मिलनी शुरू हो जाएगी।

महानिदेशक परिवार कल्याण मिथिलेश चतुर्वेदी ने 56 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नियमित टीकाकरण के चौथे अभियान में इसे शामिल किए जाने के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि

तीन डोज में लगेगा टीका

निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यह मुख्य रूप से विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोकोकल कांजुगेट की तीन डोज इंजेक्शन के रूप में बच्चों को दी जानी है। पहला इंजेक्शन बच्चा के डेढ़ महीने का होने पर पैटा-1 के साथ। दूसरा साढ़े तीन महीने पर और तीसरा एमआर के साथ बच्चे के नौ महीने पूरे होने के बाद दिया जाएगा।

इसे मार्च महीने में लांच किया जाना था लेकिन कोविड-19 संक्रमण और पूर्णबंदी के कारण स्थगित कर दिया गया था। बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक है। सरकार इसे निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नेपाल सिंह ने बताया कि निमोनिया वैक्सीन को लेकर गुरुवार-शुक्रवार को जिले में प्रतिरक्षण से जुड़े अधिकारियों को पहले चरण की कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया।

सार्वजनिक वाहन चालक करेंगे प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

बंद की वजह से दिल्ली में निजी सार्वजनिक परिवहन का कारोबार चौपट हो गया है। इस व्यवसाय को बचाने के लिए सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। शुक्रवार को एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि इन वाहनों का टैक्स माफ किया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर यूनिनयन ने मुख्यमंत्री आवास व परिवहन मुख्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

मंच के महासचिव श्याम लाल गोला ने कहा कि वाहन मालिकों को भुखमरी में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक ओर जहां वे अपने वाहन सड़कों पर नहीं चला पा रहे हैं वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने बंद के समय खड़े वाहनों का टैक्स अभी तक माफ नहीं किया है। इन वाहनों का टैक्स माफ होने पर ही इन वाहनों को सड़कों पर चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जबकि देश के कई राज्यों ने अपने यहां राहत दे दी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया।



मुलाकात

एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से बात करते उनके परिजन।

केंद्रीय गृह मंत्री का निजी सचिव बताकर तबादले करवाने का आरोप, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने केंद्रीय गृह मंत्री का निजी सचिव बनकर फोन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी अभिषेक द्विवेदी के तौर पर हुई है वह फिलहाल मुंबई में रह रहा था। दिल्ली पुलिस को शिकायत मिलने के बाद से ही आरोपित को दबोचने में लग गई थी। तीन शहरों की खाक छानने के बाद पुलिस अभिषेक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफल रही। दिल्ली पुलिस की टीम आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सड़क मार्ग से वापस दिल्ली आ रही है। दिल्ली आने पर रिमांड पर लेकर आरोपित से पुलिस पूछताछ करेगी। यह पता लगाया जाएगा कि क्या उसने पहले भी इस तरह की कॉल अन्य मंत्री व अधिकारियों की की है।

दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अभिषेक ने गत तीन जुलाई को दो परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) के तबादले के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को फोन किया था। उसने खुद को गृह मंत्री अमित शाह का पीए साकेत बताया था। लेकिन बाद में जब गडकरी के कार्यालय में फोन कर पता किया गया तो जानकारी मिली कि अमित शाह के कार्यालय से इस प्रकार को कई फोन नहीं

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी कर चुका था फोन

मंत्रालय से शिकायत के बाद पुलिस ने शुरु की छानबीन

किया गया था। वहीं, इसकी शिकायत पांच जुलाई को दिल्ली पुलिस को की गई थी। मामला केंद्रीय मंत्री से जुड़े होने के कारण पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और आरोपित की तलाश में जुट गई। उसकी पहचान रीवा के बदमाश अभिषेक द्विवेदी के रूप में हुई। बाद में तकनीकी सर्विलांस से जानकारी मिली कि आरोपित मुंबई में है। उधर, पुलिस के सक्रिय होने की जानकारी अभिषेक को मिल गई थी। लिहाजा वह छुपने के लिए अन्य स्थान के लिए रवाना हो गया और बंगलुरु होता हुआ इंद्रौर पहुंचा। दिल्ली पुलिस भी उसके पीछे-पीछे इंद्रौर पहुंची और वहां की पुलिस की मदद से अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित मूल रूप से मध्यप्रदेश (एमपी) के रीवा जिले का रहने वाला है और उसपर पहले से उस पर करीब 12 मुकदमें दर्ज हैं। करीब तीन मामलों में वह वांछित भी था। जांच में यह भी पता चला कि अभिषेक केंद्रीय मंत्रियों का निजी सचिव बताकर अपना प्रभाव जमाता और अपने मतलब के काम निकलवाता था।

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 जुलाई।

सेक्टर-144 के पास गुरुवार रात सूरजपुर पुलिस टीम पर कार सवार दो बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को पैर में गोली मारकर दबोच लिया। पुलिस का दावा है कि दोनों बदमाश सुंदर भाटी गिरोह के शॉप शूटर हैं। पिछले दिनों इन्हीं बदमाशों ने एवीजे हाइट्स के पास सच्ची विक्रता दुर्गा की गोली मारकर हत्या की थी। साथ ही सुंदर भाटी ने रुपए देकर योगेश भाटी व अन्य बदमाशों से बिजनीर में पुलिस को पेशी कर जाते हुए नंदू उर्फ रावण की हत्या करवाई थी। घायल बदमाश योगेश भाटी पर 50 हजार रुपए और कपिल भाटी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एडीसीपी सेंट्रल अंकुर अग्रवाल ने बताया कि

वाहन चोरी और लूटपाट के आरोप में छह बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 जुलाई।

वाहन चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह का थाना फेज थ्री पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

सूरजपुर थाना पुलिस गुरुवार रात सेक्टर 144 एफएनजी रोड पर जांच कर रही थी। पुलिस ने तभी ब्रेजा कार सवार दो बदमाशों को रुकने का इशारा किया। इसी बीच बदमाशों ने कार को तेजी

एसीपी नितिन सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह थाना फेज थ्री पुलिस ने गढ़ी गोल चक्कर के पास से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शांतिर वाहन चोर और लुटेरे हैं। पकड़े गए आरोपी वाहन चोरी कर उन्हें देहात क्षेत्रों में सस्ते दामों में बेच देते थे। इसके अलावा आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों पर सवार होकर राहगीरों से छिनैती की वारदातों को भी अंजाम देते थे। आरोपियों की पहचान निवाजी, शेरा, इकरार निवासी अलीगढ़, ललित व जितेंद्र निवासी गुलावटी बुलंदशहर और रब्बान निवासी खगड़िया बिहार के रूप में हुई।

से दौड़ा दिया। कुछ दूर जाकर कार पुस्ते से टकराकर रुक गई। इसी बीच कार से उतरकर दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।

फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, तीन महिला समेत आठ गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने एक खाते से 64,680 रुपए निकालने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तीन महिला सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। कॉल सेंटर संचालक पर आरोप है कि वह विभिन्न बैंक का अधिकारी बनकर ग्राहकों को ठगने का काम करता था। यह कॉल सेंटर लगभग छह महीने से चल रहा था और अब तक लगभग 650 लोगों को यह गिरोह अपना शिकार बना चुका है।

साइबर अपराध शाखा के उपायुक्त अन्वेषक राय के मुताबिक रजत टंडन नामक एक युवक ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनके पिता के खाते से 64,680 रुपए गायब कर दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी आदित्य गौतम की देखरेख में एसआइ बिजेंद्र, सुनील के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मामले की जांच के दौरान पता चला कि

द्वारका मोड़ इलाके में एक कॉल सेंटर चल रहा है जो लोगों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को छपेमारी के दौरान गिरोह का सरगना 27 साल का अनिल सिंह सहित आठ लोग मिले। इसमें तीन महिला भी शामिल हैं। राय ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी मध्यम आय वर्ग के हैं।

पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी अनिल ने बताया कि उसने कुछ दिन एक कॉल सेंटर में काम किया है, जहां से उसे टेली कॉलिंग का अनुभव मिला। पकड़े गए सभी आरोपी इतने शांतिर हैं कि लोगों को फंसाने के लिए यह महिलाओं का सहारा लेते थे। लोगों को कोई शक ना हो इसलिए यह लोगों की पहले महिला से बात करते थे। उसके बाद महिला किसी सौनीयर अधिकारी का नाम लेकर फोन दूसरे आरोपी को ट्रांसफर कर देती थी। धोखाधड़ी करने के बाद सभी आरोपी ठगी का शिकार लोगों के नंबर ब्लॉक कर देते थे और पैसे को ई-वॉलेट के माध्यम से बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। बाद में आरोपी एटीएम के माध्यम से उसे निकाल लेते थे।

धोखाधड़ी के आरोप में विदेशी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दक्षिणी दिल्ली के साइबर सेल ने एक ऐसे विदेशी को गिरफ्तार किया है, जो अपनी महिला मित्र और उसकी मित्र के साथ मिलकर लोगों के साथ ठगी करता था। ये आरोपी लोगों को अपने कारोबार में सहयोगी बनाने का झांसा देता था। इसके साथ ही विदेशों से महंगे सामान भिजवाने का भी झांसा देता था। गिरफ्तार कर गए आरोपी की पहचान नाइजीरियन चिडुवेम गब्रिल ओकाफार् (37) के तौर पर हुई है। आरोपी भारत में पहले मुंबई आया था। इन दिनों दिल्ली में छतरपुर, द्वारका और उत्तम नगर में रहने के लिए तीन ठिकाने किराए पर ले रखे हैं। आरोपी फुटबॉल खिलाड़ी भी है।

जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि बीती बुधवार को सूचना मिली थी कि लोगों से ठगी करने वाला आरोपी साकेत इलाके में किसी से मिलने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को तलाश में जुट गई।

खबरों में शहर

औद्योगिक भूखंड योजना : 20 जुलाई को होंगे दो श्रेणियों के झ

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 जुलाई।

प्राधिकरण 20 जुलाई को दो श्रेणी के औद्योगिक भूखंड योजना के झ करेगा। इनमें 451 वर्गमीटर से एक हजार वर्गमीटर तक और चार हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंडों का आबंटन झ के जरिए किया जाएगा। हालांकि कोरोना विषाणु के खतरे को देखते हुए झ प्रक्रिया में सिर्फ आवेदक ही हिस्सा ले सकते हैं। अन्य किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। नोएडा प्राधिकरण के एएसडी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि चार हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक की श्रेणी के भूखंडों के लिए 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक सेक्टर-6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में झ प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया दोपहर 12 बजे शुरू होगी। झ के बावत सभी आवेदकों को सूचना भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि 451 वर्ग मीटर से एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंडों का झ उसी दिन दोपहर 3 बजे किया जाएगा। संबंधित आवेदकों को ई-मेल के जरिए सूचना भेजी जा रही है। पात्र आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है।

नोएडा से ग्रेनो वेस्ट मेट्रो निर्माण के लिए तीन कंपनियों ने दिखाई रुचि

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 जुलाई।

नोएडा से ग्रेनो वेस्ट तक चलने वाली मेट्रो परियोजना के निर्माण में तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अब इनकी तकनीकी व प्राइज बिड खोली जाएगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो डेढ़ महीने के भीतर कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। मेट्रो की यह लाइन सेक्टर-51 से शुरू होकर नॉलेज पार्क-5 तक जाएगी। इस योजना का पहला चरण सेक्टर-51 से शुरू होकर सेक्टर-2 ग्रेनो वेस्ट तक होगा। इसमें पांच स्टेशन, सेक्टर-122, 123, सेक्टर-4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेक्टर-12 इकोटेक और सेक्टर-2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट होंगे। इस हिस्से के निर्माण कार्य के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने मई महीने में निविदा जारी की थी। अब टेंडर प्रक्रिया की बिड को खोला गया है। इसमें तीन कंपनियों ने हिस्सा लिया है। एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि इन कंपनियों की बिड को तकनीकी परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। जो कंपनी सबसे कम दर पर काम करेगी, उस कंपनी को चयनित किया जाएगा।

छात्रा को विधानसभा अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बारहवीं कक्षा की छात्रा शिखा चौहान को सीबीएसई की परीक्षा में 96.4 फीसद अंकों से पास करने पर अपनी शुभकामनाएं दी है। यह छात्रा अपने परिवारवालों के साथ गोयल से मिलने के लिए विधानसभा पहुंची थी। शिखा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सी ब्लॉक दिलशाद गार्डन की छात्रा है। उसने कला क्षेत्र से 96.4 फीसद प्राप्त किए हैं। उसके पिता टैक्सि चालक हैं। शिखा का सप्ता न्यायिक सेवा में जाने का है। इसके लिए उसे बेहतर कोशिश की जरूरत है। विधानसभा स्पीकर ने छात्रा को विधानसभा की तरफ से प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। जबकि उसके माता पिता को शाल ओढ़कर सम्मानित किया गया।

मरकज मामला : हरियाणा सरकार की याचिका खारिज फरीदाबाद, 17 जुलाई (जनसत्ता)

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश राजेश गर्ग की अदालत ने 18 विदेशी तबलीगी जमातियों के खिलाफ विदेश अधिनियमों का उल्लंघन का मामला दर्ज करने की हरियाणा सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने बयाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की शहर में मौजूदगी से विदेश अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता। लिहाजा, याचिका को खारिज किया जाता है। इस मुकदमे में इंडोनेशिया के दस और फिलीपींस के आठ नागरिक शामिल हैं। ये सभी दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में भाग लेने आए थे।

थाईलैंड के 34 जमातियों की रिहाई का आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को थाईलैंड के 34 जमातियों की रिहाई के आदेश दिए। इन सभी पर छह-छह हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। अदालत के निर्देश पर जुर्माने की यह रकम पीएम केयर फंड में जमा की जाएगी। इससे पहले विदेशी जमातियों ने जज के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है। उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं की अवहेलना का आपराध भी स्वीकार किया।

सभी पर लगा छह-छह हजार का जुर्माना, सात अन्य पर चलेगी अदालती कार्यवाही

अदालत के निर्देश पर जुर्माने की यह रकम पीएम केयर फंड में जमा की जाएगी

इससे पहले अदालत ने गुरुवार को 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को दिन भर साकेत अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा दी थी

साकेत जिले की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने जमातियों की रिहाई के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में थाईलैंड के सात अन्य जमातियों पर अदालती कार्यवाही चलेगी क्योंकि इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इसी के साथ अब

तक 36 देशों के करीब 700 विदेशी नागरिकों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में आरोपपत्र दाख किया जा चुका है। पुलिस ने जून में 36 देशों के 956 नागरिकों के खिलाफ 59 आरोप पत्र दाख किए थे जिनमें पूरक आरोपपत्र भी शामिल हैं।

इससे पहले अदालत ने गुरुवार को 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को दिन भर साकेत अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा दी थी। इसके साथ ही विभिन्न विदेशी जमातियों पर 5000 से 10000 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया था। ये सभी विदेशी जमाती चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और बाकी अन्य देशों से मरकज में शामिल होने भारत आए थे।

बेरोजगारी से परेशान मजदूर ने की आत्महत्या

बांदा, 17 जुलाई (भाषा)।

बांदा जिले के इंगुआ गांव में बेरोजगारी से परेशान एक मजदूर ने कथित तौर पर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली।

मरका थाना पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि इंगुआ गांव के जंगल में एक युवक का शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटका मिला। उसकी पहचान मनोज (22) के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती घोषित होने के बाद वह मई में मुंबई से लौटा था और बुधवार दोपहर से लापता था। पुलिस ने मृत मजदूर के भाई के हवाले से बताया कि गांव में उसे काम नहीं मिल रहा था।

टैम्पो-बोलरो कैंपर की भिड़ंत में दंपति सहित छह लोगों की मौत

जयपुर, 17 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान के सिरौही जिले के कोतवाली सिरौही थाना क्षेत्र में शुक्रवार को टैम्पो और बोलरो कैंपर की भिड़ंत में टैम्पो में

सवार दंपति सहित छह लोगों की मौत हो गई।

थानाधिकारी ओम प्रकाश बिस्नोई ने बताया कि सिरौही-

बलरूड रोड पर गोयली गांव के पास एक टैम्पो और बोलरो कैंपर की भिड़ंत में सवार दंपति सहित छह लोगों की मौत हो गई।



शैक्षिक संचार संकाय
www.cec.nic.in
विज्ञापन
दिनांक 29.02.2020 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2020 में निहित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.07.2020 तक बढ़ा दी गई है। पदों और अन्य नियमों और शर्तों के विवरण के लिए कृपया 29.02.2020 को दिया गया विज्ञापन और सीईसी की वेबसाइट www.cec.nic.in > Quick links> Archive> Career> Archives - vacancies for various post on regular basis का संदर्भ लें।

पहले से आवेदन कर चुके प्रार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सीईसी

ओरिएण्ट बेल लिमिटेड
संसारभर में L1410UP197PLC021546
पंजीकृत कार्यालय : 8, इण्डियन स्ट्रीट, बंगलूर, कर्नाटक, भारत, 560001
कार्यालय : आदिस हाउस, 16, बिजिनेस सेंटर, नागल रावा, नई दिल्ली-110046
दूरभाष : +91-11-47119100, ई-मेल आईडी : investor@orientbell.com
www.orientbell.com

सौंदर्य को फॉलो (सीए) अत्यंत आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग (ओपीएम) के माध्यम से आवाजित होने वाली 43वीं राईटिंग टीम आम बैठक (एजीएम) से सम्बन्धित सूचना

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) निम्न, 2014 के निम्न 20 तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमएसी) एवं भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्मित परिचयों के अनुपालन में पदाव्तर सूचना दी जाती है कि :

- सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमएसी), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य सभी लागू कानूनों और परिचयों के अनुपालन में सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 43वीं एजीएम (वार्किंग आम बैठक) मुम्बई, 13 अगस्त, 2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न बिक्री कॉन्फ्रेंस (वीसी) अत्यंत आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग (ओपीएम) के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है।
- कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 8, इण्डियन स्ट्रीट, बंगलूर, कर्नाटक-203 205, बंगलूर, कर्नाटक (इ.एस.) को एजीएम के उद्देश्य हेतु कॉन्फ्रेंस स्थल माना जाएगा।
- प्रारम्भिक परिचयों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम और वार्किंग रिपोर्ट की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिजिटल/डिजिटल/भागीदार (रै) के साथ पंजीकृत हैं। वार्किंग रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.orientbell.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज, वार्किंग रिपोर्ट इमिटेड और नेप्सेमल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ थॉम्पसन लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा।
- कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से 7 अगस्त, 2020 से 13 अगस्त, 2020 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेगा।
- कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) निम्न, 2014 के निम्न 20 के साथ पंजीकृत कम्पनी अधिनियम, 2013 को धारा 108 तथा रै (सूचना/विज्ञापन विभाग एवं प्रकटन अधिकांश) निम्न, 2015 के प्रारम्भिक प्रावधानों के अन्तर्गत, कंपनी द्वारा जारी ई-वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा रिपोर्ट ई-वॉटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस प्रकार के मतदान के माध्यम से प्रकाशित का लेन-देन किया जा सकता है। ई-वॉटिंग प्रणाली पर नोट किया जा सकता है।

- अ) जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को भौतिक या अर्थात् प्रकृत रूप में शेयर है वे इस प्रकार की रिपोर्ट ई-वॉटिंग के माध्यम से सूचना में निर्धारित के अनुसार प्रक्रियाएं पर अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
- कोई ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना के पश्चात कम्पनी का संचालन मन जाना है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 6 अगस्त, 2020 को शेयर धारण करता है, यह अपने फॉलियो नं./डीपी आईडी तथा क्लस्टर्ड आईडी का स्कैन करके एजेंटिंग@nssl.co.in अथवा admin@mcsgregistrars.com पर ई-मेल फॉलोअप करके एजेंटिंग आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि उम्मीद करने की है मतदान हेतु एग्रेसिव/डिल के साथ वीजीएम करा गया है तो वह मतदान करने हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- ब) रिपोर्ट ई-वॉटिंग समाप्त, 10 अगस्त, 2020 को 9.00 बजे पूर्व. (भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी और बुधवार, 12 अगस्त, 2020 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए रिपोर्ट ई-वॉटिंग ऑनलाइन बन्द एग्रेसिव/डिल द्वारा बन्द कर दिया जाएगा।
- ग) उक्त तिथि और समय के बाद रिपोर्ट ई-वॉटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- द) जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिपोर्ट ई-वॉटिंग आम मतदान के लिए ई-वॉटिंग के माध्यम से बैठक में भाग तो ले सकते हैं किन्तु वे बैठक में पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- घ) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि की डिफॉल्टिंग द्वारा अर्जित सदस्यों के रजिस्टर या लाभांश स्थापित के रजिस्टर में रिहाई है वे रिपोर्ट ई-वॉटिंग या बैठक में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

- इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी ओपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, वीसी ओपीएम से ही रिपोर्ट ई-वॉटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डालते हैं, वे बैठक के दौरान अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- बोर्ड ने निष्कर्ष और पारदर्शी तरीके से बैठक के दौरान रिपोर्ट ई-वॉटिंग और ई-वॉटिंग के संचालन के लिए सूत्री आशु गुप्ता, कंपनी सचिव को सौंपे गए हैं, क्लस्टर्ड मस्टर या समन्वित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयम्प्राप्ति स्कैन प्रती), आधार (आधार कार्ड की स्वयम्प्राप्ति स्कैन प्रती) के विवरण सहित कम्पनी के पास investor@orientbell.com पर लिखकर।
- जिन सदस्यों के भौतिक प्रमाण में शेयर हैं, जिनके ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे कम्पनी से investor@orientbell.com पर संपर्क कर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अग्रेसर एजेंट ('आरटीसी'), एमसीएम शेयर ट्रांसफर बुक्स लिमिटेड, एफ-65, ओम्बेला इण्डियन स्ट्रीट, बंगलूर, कर्नाटक-110 020, दूरभाष नं. 011-41406149 से admin@mcsgregistrars.com पर संपर्क कर ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा सकते हैं और जिन सदस्यों के पास शेयर डीप्ट रिजर्व प्रमाण में है तो अपने सब्सक्राइब्ड डिजिटल/भागीदारों के साथ अपने ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।
- किसी पुष्तावक के लिए सत्य अधोलक्ष्यी से +91-11-47119100 पर संपर्क कर सकते हैं या अधोलक्ष्यी को investor@orientbell.com पर लिख सकते हैं या अपनी पुष्तावक कॉर्पोरेट कार्यालय, आदिस हाउस, 16, बिजिनेस सेंटर, नागल रावा, नई दिल्ली-110046 पर भेज सकते हैं।

कृते ओरिएण्ट बेल लिमिटेड
हस्ताक्षर
राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली
17 जुलाई, 2020

योगेश मेहता
कम्पनी सचिव एवं प्रमुख-वित्तिक

सजा माफी के राज्यपाल के अधिकार की सीमा का परीक्षण करेगा संविधान पीठ

जनसत्ता यूरो
नई दिल्ली 17 जुलाई।

सजायाफता कैदियों को उनके अपराध की गंभीरता को देखे बिना राय सरकारों द्वारा सजा माफ करने की कानूनी वैधता का फेसला अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। न्यायमूर्ति यू.एल. ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे पर राय के लिए सात जजों की संविधान पीठ का गठन करने की सिफारिश कर दी। संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को सजायाफता कैदी की सजा घटाने या माफ करने का अधिकार देता है।

संविधान पीठ तय करेगी कि क्या सजा माफी के

अधिकार का इस्तेमाल गुण-दोष का परीक्षण किए बिना रेवेडी बांटने की तरह किया जा सकता है। संविधान पीठ देखेगी कि अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए, मौत की सजा वाले अपराधी को न्यूनतम 14 साल कैद की सजा भुगते बिना रिहाई से रोकती है तो फिर राय सरकार की कोई नीति कानून की इस मंशा को उलट कैसे सकती है?

हरियाणा के उम्रकैद की सजा पाए एक अपराधी को राज्यपाल ने 14 साल की सजा काटने से पहले ही उसके बुढ़ापे को आधार बनाकर रिहा कर दिया था। उसकी पैरोल पर रिहाई की फरियाद पर जब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था तब उसे अगवत काया गया था कि कैदी को राज्यपाल ने सजा माफ कर रिहा कर दिया है।

प्रकृत संख्या आईएससी-25ए
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामलों में और

उत्तराखंड होल्डिंग्स लिमिटेड
(CIN:U72900DL1989PLC037946)
जिसका पंजीकृत कार्यालय-बी-4/3183, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में स्थित है, के मामलों में,

..... आवेक आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक 14 जुलाई 2020 को आयोजित अन्तःसंगण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्णक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधिन केंद्र सरकार को आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति प्रस्तुत करने में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/विषय के आधार हैं, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पब्लिक डीन दवाला अंबेडकर भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करे तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर बी-4/3183, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 में भी भेज दें।

कृते उत्तराखंड होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ताक्षर
सुनील कुमार गुप्ता
(निदेशक)

दिनांक: 17.07.2020
स्थान: नई दिल्ली
DIN:0041534

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लिमिटेड
CIN: L74899DL1962PLC003634
पंजी. एवं एच.ओ. 46, दोहिल चैम्बर, 4था तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
Ph.: 91-11-46579476

E-mail: admin@everesttools.com
Website: http://www.everesttools.com
बोर्ड की बैठक की सूचना

एग्रेसिव सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध सचिव तथा उद्घाटन अधिकांश) विनियम, 2015 के विनियम 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमों के साथ पठित विनियम 29 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 24 फरवरी, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ अंकेषित वित्तीय परिणामों तथा एग्रेसिव में वर्णित किसी अन्य व्यवसायों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिखे जाएंगे।

यह सूचना जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, उन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.everesttools.com पर भी उपलब्ध है। हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लिमिटेड के लिये हस्ताक्षर/सोम गुप्ता
दिनांक: 17 जुलाई 2020
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 जुलाई 2020

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

द्वारा/राजीव कुमार
निदेशक प्रशासन

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाइंट, मेसर्स मुथूट फाइनेंस लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चैम्बर, बैनारो रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthoothfinance.com ऋण न्यूनाने में असफल ऋणियों के गिरवो रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Jind: MAL-956, MWS-295, Narwana (HR): MOS-10
द्वितीय नीलामी की तिथि: 28.07.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., SCF No. 26, Ground Floor, Diwankhana Market, Near Rani Talab, Jind - 126102
प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Sira-Haryana: MAL-3694, MWS-852, 853, Mandi Dabwali(HR): MAL-2361, MBL-2334, MSL-5468, 5750, MUL-443, 445, Rania - (HR): MUL-1028, Ellanabad (HR): MUL-1197, MWS-308
द्वितीय नीलामी की तिथि: 29.07.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, H.No. 238/1, Space Empire, Ram Colony, Barnala Road, Sirsa, Haryana - 125055
प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Rohtak: MAL-706, MUL-1679, 1978
द्वितीय नीलामी की तिथि: 30.07.2020, Auction Centre: First Floor, City Centre, Above Oriental Bank Of Commerce, Opp. City Police Station, Rohtak, Haryana - 124 001
प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Sira-Haryana: MAL-1570, Hisar-Sirsa Road: MUL-245, Hansi(HR): MUL-1033, 1057, 1095, Adampur(HR): MUL-1446
द्वितीय नीलामी की तिथि: 31.07.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, Shyam Complex, Above Diamond Automobile, Delhi Road, Hisar, Haryana - 125005

नीलामी नीचे दिखए अनुसार जिस शाखा डेज में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्ही शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी। जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहां इस सब के बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोल्वी, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024
नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document.



SHRIRAM
Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

Shriram Transport Finance Company Limited

Shriram Transport Finance Company Limited ("Company"), a public limited company was incorporated under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated June 30, 1979, issued by the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu (registered as a deposit taking Non-Banking Financial Company within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)). For details regarding change in the registered office, please see "History and Corporate Structure" on page 92 of the LoF.

Corporate Identification Number: L65191TN1979PLC007874
Registered Office: Mookambika Complex, 3rd Floor, No. 4, Lady Desika Road, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu- 600 004 Tel No: +91 44 2499 0356. Corporate Office: Wookhardt Towers, West Wing, Level-3, C-2, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel No: + 91 22 4095 9595; Website: www.stfc.in Compliance Officer and Contact Person: Mr. Vivek Madhukar Achwal; E-mail: stfcircomp@stfc.in

Corrigendum – Notice to Investors:

This corrigendum is with respect to the letter of offer dated July 7, 2020 ("LoF"). Please note:

On page 415 of the LoF, point 16 shall stand substituted as follows: "Any approval obtained from the RBI, as required, where a successful Application will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Eligible Equity Shareholder (along with persons acting in concert) in our Company, to exceed applicable limits prescribed by the RBI or under FEMA. In terms of applicable RBI guidelines, prior approval of the RBI is required for acquisition of 26% or more of the issued and paid-up share capital of the Company. Eligible Equity Shareholders must send a copy of the approval from any regulatory authority, as may be required, or obtained from the RBI to the Registrars at https://rights.kfintech.com/shriram or stfc.rights@kfintech.com."

On page 421 of the LoF, point (w) shall stand substituted as follows: "Applicants must submit a copy of the approval obtained from any regulatory authority, as may be required, with the Application and send a copy of such approval to the Registrars at https://rights.kfintech.com/shriram or stfc.rights@kfintech.com, in case the Application and the resultant Rights Equity Shares will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Applicant (along with persons acting in concert) in our Company, to be in excess of applicable limits prescribed by the RBI or under FEMA. In terms of applicable RBI guidelines, prior approval of the RBI is required for acquisition of 26% or more of the issued and paid-up share capital of the Company."

Accordingly, the LoF, the Abridged Letter of Offer, Application Form and communication and advertisements issued by or on behalf of the Company in relation to the Issue stand amended to the extent of and should be read with the above.

All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated July 7, 2020, read with this corrigendum (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, and SEBI.

For Shriram Transport Finance Company Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Vivek Madhukar Achwal
Company Secretary and Compliance Officer

Shriram Transport Finance Company Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated July 7, 2020 with SEBI and the Stock Exchanges (read with this corrigendum). The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and the website of the Global Co-ordinators and Lead Managers, i.e., ICICI Securities Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets India Private Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited and J.P. Morgan India Private Limited at www.icicisecurities.com; www.bnpparibas.co.in; www.online.citibank.com/rihtm/citigroupglobalscreen1.htm; www.credit-suisse.com; at https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/information/ipo-open-offer-and-buyback; and www.jpmfi.com, respectively; and the Joint Lead Managers, i.e., Axis Capital Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in; and www.sbicaps.com, respectively and on the R-WAP. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 15 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold in "offshore transactions" outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. There will be no public offering in the United States.



सख्त संदेश

पिछले करीब दो महीने से भारत और चीन की सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है, वह अप्रत्याशित है। जाहिर है, यह पिछले कुछ सालों के दौरान चीन की ओर से भारत को दिए गए तमाम भरोसे के खिलाफ है और विश्वास भंग का मामला है। विडंबना यह है कि भारत की भलमनसाहत और उदारता के बावजूद चीन ने जो रवैया अख्तियार किया, वह सीमा से सटे किसी अच्छे पड़ोसी के बजाय अघोषित दुश्मनी का रहा। पिछले दिनों गलवान घाटी में घुसपैठ और अराजक बर्ताव के साथ उसने जो किया, उसकी कीमत बीस भारतीय सैनिकों की शहादत के रूप में सामने आई। निश्चित रूप से भारत के विश्वास को तोड़ने के साथ–साथ एक गैर–जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में चीन ने बताया कि उसकी रुचि कूटनीतिक पहलकदमियों और वार्ता के जरिए समस्या के हल में नहीं है और वह आक्रामकता में विश्वास रखता है। इस क्रम में कभी अपने नाहक अतिक्रमण और जरूरी प्रतिक्रिया मिलने पर अपने कदम पीछे हटाने जैसी गतिविधियों के जरिए उसने लगातार एक भ्रम की स्थिति बनाए रखी है। ऐसे में सीमा क्षेत्र में देश की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों पर गैरजरूरी बोझ बढ़ जाता है और कई बार चुनौतियां गहवा जाती हैं।

ऐसे माहौल में एक पखवाड़े के भीतर देश के दो शीर्ष नेतृत्व का सीमा क्षेत्र का दौरा वक्त की जरूरत और निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। गौरतलब है कि शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह और जम्मू–कश्मीर के दो दिनों दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और सेनाध्यक्ष एमएम नरवाणे भी उनके साथ हैं। चीन के साथ सीमा पर विवाद के संदर्भ उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है। हालांकि इसी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीमा–क्षेत्र का दौरा किया था और भारत के रूख का संकेत साफ कर दिया था कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। आशय यह था कि अगर कोई देश अपनी सीमा के विस्तार के लिए नाहक दखल की कोशिश करता है तो अब वह आसान नहीं होगा। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत की एक इंच भी जमीन नहीं ले सकती। यह चीन की हाल की हरकतों के लिहाज से उसके लिए साफ संदेश होना चाहिए कि अगर वह गैरजरूरी तरीके से सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश करेगा तो उसे उचित जवाब भी दिया जाएगा।

मुश्किल यह है कि कई बार भारत की ओर से शांति बनाए रखने की कोशिश और विनम्रता को कई बार कुछ देश भ्रमवश कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं। इसलिए पहले प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री की ओर यह सख्त संदेश चीन के लिए संकेत होना चाहिए। स्पष्ट संदेशों के साथ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का सैनिकों के बीच जाने का असर यह हुआ है कि चीन ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। यों भी, भारत ने अब तक अपनी ओर से किसी भी देश की सीमा में बेजा दखल नहीं दिया है, न ही कभी अपनी ओर से आक्रमण किया है। इस संदर्भ में रक्षा मंत्री ने भी कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने हमेशा ही विषय शांति का संदेश दिया है और हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी किसी भी देश के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाई है। जाहिर है, दूसरे देशों के स्वाभिमान का खयाल रखने का मतलब यह भी है कि भारत अपने स्वाभिमान को लेकर भी सजग है और इस पर किसी भी देश की ओर से हमला बर्दाश्त नहीं करेगा।

पाकिस्तान का स्वांग


भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान का रुख हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। पिछले हफ्ते उसने कहा था कि जाधव ने अपनी फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। इस पर भारत सरकार ने सख्त आपत्ति जताई तो उसने भारतीय राजनयिकों के जाधव से मिलने की इजाजत दे दी। वृहस्पतिवार को पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारी उनसे मिलने गए, मगर उन्हें पुनर्विचार याचिका संबंधी कागजात पर दस्तखत लेने से रोक दिया गया। जिस जगह जाधव और राजनयिकों की मुलाकात कराई गई वहां हर वक्त पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मौजूद रहे। वहां कैमरे लगाए गए थे और रिकार्डिंग की व्यवस्था थी। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। स्वाभाविक ही भारतीय अधिकारियों ने इस पर एतराज जताया, पर उनकी एक न सुनी गई। लिहाजा, वे अधिकारी नाराज होकर वापस लौट आए। यानी कुल मिला कर पाकिस्तान ने भारत की जाधव तक राजनयिक पहुंच सुनिश्चित कराने संबंधी मांग को मान तो लिया, पर उसने वही किया जो वह करना चाहता है। पाकिस्तानी सेना किसी भी तरह जाधव को फांसी पर लटका कर यह साबित करने पर तुली है कि जाधव भारत के लिए जासूसी करता था।

जाधव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और करीब तीन साल पहले पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। अनेक दस्तावेजों के जरिए भारत सरकार ने साबित किया कि जाधव भारतीय जासूस नहीं है, मगर सैन्य अदालत ने उन दस्तावेजों को रिरसे से खारिज कर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला सुना दिया। तब भारत सरकार ने उस फैसले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी। तमाम पहलुओं की जांच के बाद हेग स्थित अदालत ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि वह जाधव को इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की सहूलियत दे। उन तक भारतीय राजनयिकों की पहुंच सुनिश्चित करे। मगर पाकिस्तान उस आदेश के पालन से बचने के रास्ते निकालता रहा। जाधव तक राजनयिक पहुंच और पुनर्विचार याचिका रोकने के लिए तरह–तरह की बाधाएं खड़ी करता रहा। अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेश के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था कि जाधव दो महीने के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, जिसकी इस महीने की सत्रह तारीख तक समय सीमा थी। इस बीच भारत सरकार लगातार मांग करती रही कि जाधव को वकील उपलब्ध कराया जाए, उन तक राजनयिक पहुंच दी जाए, मगर उसने वह मांग नहीं मानी। अंतिम तारीख समाप्त होने से एक दिन पहले उसने राजनयिक पहुंच की इजाजत दी, पर उसका कोई अर्थ नहीं रहा।

पाकिस्तान के इस रवैए से उसकी मंशा साफ जाहिर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की नजर में उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसके आदेश का पालन किया गया। फिर यह भी कि जाधव खुद सैन्य अदालत के फैसले को पाकिस्तान उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं देना चाहते थे। मगर इस तरह वह अपने झूठ को छिपाने में शायद ही कामयाब हो पाए। अब तक के अनुभवों से जाहिर है कि जासूसी के आरोप में पकड़े गए भारतीय नागरिकों के साथ पाकिस्तान किस कदर यंत्रणापूर्ण व्यवहार करता और उनसे अपने पक्ष में बयान उगलवाता रहा है। जाधव के साथ भी उसका व्यवहार इससे अलग नहीं माना जा सकता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय खुद कह चुका है कि जाधव के मामले में पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय ने मनमानी भरा फैसला सुनाया है। भारतीय राजनयिकों से मुलाकात के समय भी जाधव खासे तनाव में देखे गए। इन सब तथ्यों को पाकिस्तान कैसे छिपा पाएगा!

कल्पमेधा

तानाशाह खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन लोगों को गुलाम बना देते हैं।
- चार्ली चैपलिन




संजय टाकुर

भारत में आर्थिक समस्या से पार पाने के लिए वर्तमान परिस्थितियों से हट कर पिछले दो वर्ष से चली आ रही आर्थिक सुस्ती को आधार बनाया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि देश में वर्तमान समय के आर्थिक संकट से पहले ही एक बड़ी मांग–आधारित आर्थिक सुस्ती आ चुकी थी और देश अब आपूर्ति–आधारित आर्थिक सुस्ती का भी सामना कर रहा है।



अनुमान है कि इस साल के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था एक प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग ने आर्थिक संकट के और गहराने की संभावना जताई है। विश्व पर ऋण की यह धनराशि विश्व के कुल उत्पादन के दोगुना से भी ज्यादा है। इस वक्त अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे दौर से गुजरने के कारण ऋण की स्थिति और भी चिंताजनक है। विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के थमने से व्यापार और निवेश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस समय विश्व की एक बड़ी जनसंख्या संसाधन न होने से बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रही है। यह स्थिति विकसित और विकासशील, दोनों तरह के देशों में है। विकसित देशों में भी उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले खर्च में तेजी से गिरावट आई है, जिसका प्रभाव विकासशील देशों से उपभोक्ता–वस्तुओं के आयात पर पड़ेगा। वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में गिरावट आने से वैश्विक आपूर्ति शृंखला भी बुरी तरह प्रभावित होगी।

इस्टीमेट्यूट ऑफ इंटरनेनल फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऋण दो सौ पचपन



हमारे जीवन में ‘प्रसाद’ और ‘प्रतिसाद’ का बहुत महत्त्व है। सच कहा जाए तो हमारा जीवन खुद उस प्रकृति का दिया हुआ एक ‘प्रसाद’ ही है। जो प्रसाद हमें मंदिरों या धार्मिक आयोजनों में मिलता है, उस पर हम बहस नहीं करते, बल्कि उसे बिना देर किए मुंह में डाल देते हैं। जब कोई हमारे हाथ में प्रसाद देता है, तब हम उसकी मिठास या स्वाद पर विचार नहीं करते, क्योंकि प्रसाद अपने आप में एक पवित्रता का भाव लिए होता है। प्रसाद के अनेक रूप हो सकते हैं। किसको किस रूप में कौन–सा प्रसाद मिलेगा यह स्थान और काल में उस व्यक्ति की सक्रियता पर निर्भर करता है।

जब मैं छोटा था और स्कूल में ‘घरकार्य’ (होम वर्क) करके नहीं ले जाता था, तब हमारी क्लास टीचर मुझे कहती थी कि मेरे हाथ का ‘प्रसाद’ मिले बगैर तुम्हें होमवर्क करने की आदत ही नहीं है क्या! उनके ‘प्रसाद’ का मतलब ‘छड़ी पड़े छम छम, विद्या आए घम घम’ से था। अगर कोई हमारे हाथ में चने–चिठौंटी के दाने भी दे देता है, तो हम उसे प्रसाद ही कहते है। एक बार मैं एक छोटे–से



शिक्षक की जगह

कहते हैं, शिक्षक राष्ट्र का निमातां होता है। अच्छी शिक्षा–दीक्षा से एक सभ्य समाज और देश का विकास संभव होता है और शिक्षकों के ही पठन–पाठन और शिक्षण, ज्ञान से हर क्षेत्र में विद्यार्थियों का भविष्य संवर कर सुरक्षित होता है। मगर विडंबना है कि हमारे ज्ञान के दाता शिक्षक पिछले कुछ सालों से लगातार सम्मान और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं और उपेक्षित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में ‘हमारा घर, हमारा विद्यालय’ योजना जैसा अभियान चल रहा है, लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं। कोरोना संक्रमण में घर जाकर पढ़ाने की इस योजना में शिक्षकों ने कुछ समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है।

इससे साफ है कि यह अभियान शिक्षकों को उचित नहीं लग रहा। साथ ही शिक्षको की मांग है कि कोरोना संक्रमण में कोई अनहोनी शिक्षक के साथ हो तो उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा मिलना चाहिए। शिक्षकों ने प्रशासन से शिक्षक संरक्षण कानून लागू करने की भी मांग की, ताकि भविष्य में गैर–शैक्षिक कामों में उन्हें नहीं लगाया जाए।मकसद यही है कि शिक्षकों का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और स्वाभिमान बना रहे।शिक्षक की गरिमा और पद प्रतिष्ठा कायम रहे। मेरे विचार में भी यह बिल्कुल सही है। एक ओर तो हम और सरकार विद्यार्थियों के अच्छे रिजल्ट की उम्मीदें करते हैं और दूसरी ओर अन्य कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस कारण भी परीक्षा परिणामों में गिरावट आती है। कभी वेंतन विसंमतियों के, तो कभी अतिथि शिक्षकों के बारह माह नियमितकरण के समाचार, तो कभी कुछ। ऐसा ही चलता रहता है।

हमें शिक्षक से गुणवत्ता आधारित शिक्षा देने की अपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही समाज में शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। इनकी मांगों और अपेक्षाओं पर चिंतन करना चाहिए। इनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा समाज और प्रशासन, दोनों की जवाबदेही है।



कर्ज का बढ़ता मर्ज

ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। वैश्विक ऋण में भारी वृद्धि का कारण चीन और अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण लेना है। विश्व भर के कुल ऋण का साठ प्रतिशत भाग इन्हीं दो देशों का है। इनके अलावा इटली, लेबनान, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूनान भी ज्यादा ऋण लेने वाले देशों की सूची में हैं। वैश्विक ऋण के बढ़ने का एक कारण वैश्विक बाँण्ड बाजार पर निर्भरता भी है। इस्टीमेट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार वर्ष 2009 में वैश्विक बाँण्ड बाजार सत्तासी ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2019 में एक सौ पंद्रह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। इस दृष्टि से देखें तो विश्व की सात अरब सत्र करोड़ की कुल जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति पर बत्तीस हजार पांच सौ पचास अमेरिकी डॉलर यानी चौबीस लाख इकतालीस हजार दो सौ पचास रुपए से ज्यादा के ऋण का भार है।

यह बहुत चिंता का विषय है कि कुल वैश्विक ऋण में से वाणिज्यिक ऋण का एक बड़ा भाग संकट में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही आगाह कर चुका है कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में लगभग चालीस प्रतिशत यानी उन्नीस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वाणिज्यिक ऋण संकट वाला है। इस संकट वाले ऋण का बड़ा भाग अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पास है।

भारत के विदेशी ऋण में भी लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पर कुल विदेशी ऋण पांच सौ तिरालीस अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। इस ऋण में एक वर्ष के अंतराल में तेरह अरब सत्र करोड़ अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। ऋण की यह राशि सकल घरेलू उत्पाद की 19.7 प्रतिशत है। भारत सरकार को प्रति वर्ष लाखों करोड़ रुपए सिर्फ ऋण के ब्याज के रूप में खर्च करने पड़ते हैं। वर्ष 2019–2020 के बजट में इस ऋण के ब्याज के रूप में सत्ताईस लाख अरसी हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।


भारत पर कुल ऋण में 37.3 प्रतिशत का एक बड़ा भाग वाणिज्यिक ऋण का है। इसके अलावा छब्बीस प्रतिशत भाग अनिवासी भारतीयों के जमा धन का है। ऋण की शेष राशि में 17.2 प्रतिशत अत्यावाधिक ऋण, 11.1 प्रतिशत बहुपक्षीय ऋण, 2.2 प्रतिशत निर्यात–ऋण और 1.1 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया ऋण है। इस कुल ऋण का

प्रकृति का प्रतिसाद



गांव के एक मंदिर में गया था। वहां एक सेवानिवृत्त हो रहे अध्यापक का सम्मान समारोह था। कार्यक्रम शुरू होने में कुछ समय शेष था, इसलिए मैं उस मंदिर में गया था। तब पुजारी ने मुझे प्रसाद दिया। मेरे एक शहरी मित्र भी गांव देखने के मकसद से मेरे साथ आए थे। जब पुजारी ने उनके हाथ में भी प्रसाद दिया, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि यह क्या चीज है। फिर वे बोले– ‘यार, हम गांव में जिस काम के लिए आए हैं, उसमें शामिल न होते हुए यहां व्यर्थ ही समय गवां रह रहे हैं?’ मैं उसको कुछ जवाब देता, उसके पहले एक

वरिष्ठ अध्यापक हमें बुलाने वहां आ गए और बोले– ‘चलिए, कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है।’ कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान एक अध्यापिका ने बताया कि आज हम यहां जिस अध्यापक का सम्मान समारोह कर रहे हैं, उनका जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। उनके एक युवा पुत्र की भरी जवानी में अकाल मृत्यु हुई। उनकी एक विवाहित पुत्री कम उम्र में विधवा होकर मायके आ गईं। इन दो हादसों के कारण उनकी पत्नी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। उनका उपचार करके उसे स्वस्थ बनाने के दौरान ही लड़की ने नासमझी कर



विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों को उनके सुखद भविष्य के लिए प्रशासन को भी सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, ताकि उनका मनोबल कायम रह सके। सरकार को स्कूलों में विगत कई वर्षों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण काल में वेंतन और पैसे के अभाव में शिक्षकों द्वारा अन्य कार्य करने के समाचार भी सुर्खियों में थे। कोई मजदूरी कर रहा तो कोई सक्की बेच रहा। शिक्षकों की ऐसी दशा के रहते हम शिक्षा–व्यवस्था में सुधार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

- योगेश जोशी, बड़वाह, मप्र*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए–8, सेक्टर–7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश
आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है
: chaupal.jansatta@expressindia.com

पाठ का बोझ
पूर्णबंदी में धीरे–धीरे रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक शिक्षण संस्थाओं को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। जिसके चलते शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का रास्ता निकाला है। इसमें विद्यार्थियों को गुगल मीट, जूम आदि का उपयोग कर–के अध्ययन कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन कक्षा के दौरान बच्चों का पूरा ध्यान उनके फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में होता है। इसका असर उनके शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों पर पड़ रहा है। आंखों में जलन, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द जैसी अन्य कई रोगों का शिकार होकर बच्चे हो रहे हैं। इसके मद्देनजर अब सरकार ने नए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक प्री–प्राइमरी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं रोजाना तीस मिनट से अधिक नहीं हो सकतीं। पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए




18 जुलाई, 2020

में गिरावट आने का अनुमान है। इन राज्यों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में सैतालीस प्रतिशत तक का योगदान है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर के औसत से ऊंची है, ऐसे धनी राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में ज्यादा प्रभावित होंगे। मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ओड़ीशा जैसे राज्यों में, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, प्रति व्यक्ति आय में आठ प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में वित्तवर्ष 2020/2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।

उभरे परिदृश्य से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद पैंतालीस वर्ष और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ग्यारह वर्ष के न्यूनतम स्तर पर था। बेरोजगारी की दर पिछले पैंतालीस वर्ष में सबसे ज्यादा थी। ग्रामीण स्तर पर मांग पिछले चालीस वर्ष के न्यूनतम स्तर पर थी। ऐसे में आर्थिक संकट का उभरे परिदृश्य के संदर्भ में ही नहीं, एक समय आकलन किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और मूडीज इन्व्स्टर्स सर्विस जैसी संस्थाएं भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में पहले ही बड़ी कटौती कर चुकी हैं।


वैश्विक आर्थिक संकट की दृष्टि से दो पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला, किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और शहरों में छोटा–मोटा काम करके आजीविका चलाने वाले लोगों से संबंधित अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर जनसंख्या

और दूसरा, पूंजी और गैर–पूंजी वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र, जिसे अर्थव्यवस्था में उत्पादक कहा जाता है। विश्व भर की सरकारों को इन दोनों ही पहलुओं पर काम करना होगा। इसके अलावा मध्यवर्ग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के संकट में यह वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले राहत–पैकेज में इसका कहीं नाम नहीं आता। भारत में आर्थिक समस्या से पार पाने के लिए वर्तमान परिस्थितियों से हट कर पिछले दो वर्ष से चली आ रही आर्थिक सुस्ती को आधार बनाया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि देश में वर्तमान समय के आर्थिक संकट से पहले ही एक बड़ी मांग–आधारित आर्थिक सुस्ती आ चुकी थी और देश अब आपूर्ति–आधारित आर्थिक सुस्ती का भी सामना कर रहा है।



कथा–प्रवचन सुनने तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन भंडारा होता है, उस दिन ‘महाप्रसाद’ रूपी भोजन के लिए काफी भीड़ होती है। कुछ लोग तो बड़े राहत–पैकेज के सदस्यों के लिए टिफिन भर कर भी ले जाते हैं।

आगर जीवन के हर एक क्षण को हम कुदरत का प्रसाद मान ले तो सारे तनाव एक क्षण ही में खत्म हो जाते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन भी ‘प्रसादिक’ हो जाता है। इस विशाल ब्रह्मांड के कण–कण में आनंद छिपा हुआ है, लेकिन इसीन स्वार्थी बन कर सारा आनंद अकेले ही अपनी तिजोरी में भर लेना चाहता है। नतीजतन, इस आपाधापी में उसकी झोली खाली ही रह जाती है। खुद को मिला यह जीवन एक ‘महाप्रसाद’ ही है। यह मान लिया जाए। यह हमें सीखने और दूसरों को सहझाने की भी जरूरत है। अपने पास जो कुछ भी है, उसमें से कुछ सबके बीच बांटते हुए जीवन जीने से हम भी कुछ अंशतः ‘दाता’ बन ही जाते हैं। अपने फैंसू आंखों में छिपा कर हंसी की चांदनी चारों तरफ आँसुना, बस यही तो जीवन–प्रसाद का दूसरा नाम है। बहरहाल, मेरा गंतव्य आ गया था। मैं मन के आनंद के बीच जो भी सोच रहा था, उसके प्रतिसाद से मुझे असीम संतुष्टि का अनुभव हुआ।



पायलट को काँग्रेस द्वारा उनको ज्यादा तवज्जो न देने का कारण यह है कि पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी विधायकों के एक बड़े गुट को अपने समर्थन में नहीं कर पाए, जिससे वे सरकार को झटका देने में अक्षम हैं। पायलट को मान लेना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की सियासत को वह दोहराना चाहते थे, वह उनके बस की बात प्रतीत नहीं है। उन्होंने इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया। नतीजतन, आज वे जिन परिस्थिति में चले गए हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब शायद भाजपा में शामिल होने में भी उनके सामने कई तरह की बाधाएं पेश आएँ और अगर वे वहां चले भी गए तो वहां उनका सम्मान कितना बच पाएगा, यह कहना मुश्किल है।

● शशांक वाघोंय, दिल्ली विधि पाला बदल

नेताओं की महत्वाकांक्षा ने सदैव लोकतंत्र की सार्थकता में अवरोध का काम ही किया है। आए दिन यह देखने में आता है कि नेताओं ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए दल बदलने से कभी हिरेज नहीं किया। इसी अवसरवादी चरित्र के फलस्वरूप दिवंगत राजीव गांधी की सरकार ने दल–बदल कानून संसद में पास किया। कालांतर इस कानून को और सख्त बनाया गया। इन सबके बावजूद नेताओं का पाला बदलने की रीति का अंत न हो सका। जनता नेता को अपना प्रतिनिधि चुन लोकसभा या विधानसभा में जन कल्याणकारी नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के लिए भेजती है। पर वही नेता लालच में आकर दल बदलने में क्षण भर भी संकोच नहीं करते। उन्हें उस जनता का लौकिक खयाल भी नहीं रहता, जिन्होंने उसे अपने विकास और उत्थान के लिए एक विचार और राजनीतिक पक्ष के तहत अपना प्रतिनिधि चुना होता है। नेताओं की इस प्रवृत्ति के कारण लोकसंकेत की कथित मिलाक जनात बेचारी बस अपना मन मोसकट टगा–सा महसूस कर शांत हो जाती है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में यों पाला बदलना अवांछनीय और अशोभनीय नहीं है?

- आयुष कुमार , दरभंगा*



मानव जीवन के संघर्ष के हर पहलू को उजागर करने के कारण आधुनिक रंगमंच की दुनिया में भी महाभारत के पात्र पहली पसंद रहे हैं। इससे दुनिया भर के नाटककार प्रभावित रहे हैं। जापान के हिरोशी कोइके के द्वारा निर्देशित महाभारत बहुप्रशंसित है। इस नाटक को चार अध्यायों में पूरा किया गया है जो महाभारत के विभिन्न वृत्तों की व्याख्या करते हैं। कंबोडिया से शुरू कर भारत, जापान और मलेशिया में भी इस नाटक का मंचन हुआ।



भीमासुर

बेबाक बोल

बल बढ़ा या बुद्धि यह सनातन प्रश्न रहा है। क्या बिना विवेक के बल सकारात्मक हो सकता है? महाभारत में धर्म के खेमे में खड़े भीम को दस हजार हाथियों के बल के बराबर रखा गया है। अकेले उनके ही खाते में सौ कौरवों की हत्या है। इतिहास गवाह है कि बल का प्रयोग बुद्धि ही करती है। द्रौपदी के पांच पतियों में से एक भीम उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। द्रौपदी आंख के बदले आंख और जान के बदले जान वाले

तुरंता न्याय में यकीन रखती है। द्रौपदी के जीवन का उद्देश्य प्रतिशोध पूरा करना बन जाता है तो भीम उसके प्रतिशोध की पूर्ति के औजार भर बन जाते हैं। इन दोनों को धर्म के खेमे में इसलिए जगह मिली क्योंकि यह पूर्वनिर्णयित था। भीम को जिस तरह आसुरी शक्तियों से लैस किया गया है और अधर्म को अधर्म से ही खत्म करने की स्थापना, उन्हें एक नायक की चमक नहीं ओढ़ने देती। बजरिण भीम बुद्धि बनाम बल पर बेबाक बोल।

मुकेश भारद्वाज

महाभारत की कथा चरित्रों का कुरुक्षेत्र भी है। इसके चरित्र किसी समय यंत्र में सवार से लगते हैं जो किसी भी काल और संदर्भ के साथ मुठभेड़ कर सकते हैं। महाभारत के चरित्रों को सबसे ज्यादा रंगमंचीय अभिव्यक्ति मिली है। रंगमंच के पात्रों की विशेषता होती है उनका एक में अनेक होना। चरित्रों की इसी चकाचौंध में हमें खड़े मिलते हैं भीम। जिनमें दस हजार हाथियों का बल है। पांच पांडवों में अकेले भीम सौ कौरवों की हत्या करते हैं। श्रीकृष्ण की खींची गई धर्म और अधर्म की लकीर के अनुसार भीम हैं तो धर्म वाले मैदान में लेकिन उनके अंदर आसुरी शक्तियों को रख उनके चरित्र को जटिल बना दिया गया है। एक ऐसा बलवान शरीर जिसमें विवेक और धैर्य के लिए कोई जगह नहीं हो।

भीम के चरित्र के बारे में सोचते हुए याद आता है गिरीश कर्नाड का चरित्र 'हयवदन'। कन्नड़ भाषा में लिखा यह नाटक जर्मन रचनाकार थॉमस मान के 'ट्रांसपोज्ड हेड्स' पर आधारित है। हय का शाब्दिक अर्थ घोड़ा होता है। मंच पर नाटक की शुरुआत हयवदन से होती है जिसका शरीर इंसान का और सिर घोड़े का है। हयवदन के जन्म की कहानी यूं है कि एक राजकुमारी स्वयंवर में एक राजकुमार के घोड़े को अपना पति चुन लेती है। विवाह के बाद घोड़ा एक आकाशीय प्राणी का रूप ले लेता है तो राजकुमारी उसे अस्योकार कर देती है। घोड़ा उसे शाप देकर घोड़ी बना देता है। उसी राजकुमारी से हयवदन का जन्म होता है। हयवदन अपने इस रूप से मुक्ति चाहता है तो उसे काली मां के मंदिर जाने के लिए कहा जाता है।

यहीं मंच पर कहानी शुरू होती है दो पुरुष और एक स्त्री के बीच प्रेम त्रिकोण की। दो दोस्त हैं देवदत्त और कपिल। देवदत्त बुद्धि का प्रतीक है तो कपिल बल का। देवदत्त शारीरिक शक्ति तो कपिल ज्ञान से दूर है। नाटककार देवदत्त का सिर और कपिल का धड़ मिला कर एक संपूर्ण मनुष्य की कल्पना करते हैं। वे इन्हें कृष्ण-बलराम की जोड़ी की तरह देखते हैं। नायिका पद्मिनी देवदत्त से शादी करती है। लेकिन बाद में उसका आकर्षण कपिल की शारीरिक शक्ति से होता है। इस ग्लानि में देवदत्त अपना सिर काट कर काली मंदिर में चढ़ा देता है। अपने दोस्त की इस कुर्बानी से व्यथित कपिल भी अपना सिर



काट देता है। इन दोनों की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हुए पद्मिनी भी अपनी जान देने की कोशिश करती है। तभी देवी काली प्रकट होकर कहती हैं कि मैं इन दोनों को जीवित कर दूंगी, तुम दोनों के सिर जोड़ दो। पद्मिनी दोनों के सिर को धड़ से जोड़ देती है और दोनों के शरीर में प्राण फूंक कर देवी ओझल हो जाती हैं। तभी पद्मिनी को होश आता है कि उसने कपिल के धड़ पर देवदत्त का सिर और देवदत्त के धड़ पर कपिल का सिर जोड़ दिया है। जीवित होने के बाद दोनों दोस्तों में पद्मिनी पर अधिकार को लेकर झगड़ा होता है। एक मस्तिष्क को तो दूसरा शरीर को अहम बताता है।

एक ऋषि मस्तिष्क को अहम मान कर पद्मिनी पर देवदत्त का अधिकार बताते हैं और वह उसके साथ चली जाती है। उन दोनों को एक पुत्र होता है। समय बीतने के साथ पद्मिनी की रुचि फिर कपिल की शारीरिक शक्ति में होती है। देवदत्त यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह कपिल से युद्ध करता है। युद्ध में दोनों मारे जाते हैं और पद्मिनी अकेली रह जाती है।

इस नाटक के सार में सवाल उठता है शरीर अहम है या बुद्धि? या फिर एक ही इंसान में दोनों का होना जरूरी है? यहां भीम के बलवान

शरीर की तुलना कपिल से होती है जिसके पास विवेक नहीं बल है। पांचों पांडवों में एक भीम है जिसके खाते में सौ कौरवों और जरासंध, हिडिंब, कीचक का वध है। सबसे ज्यादा हिंसा उसी के हिस्से है।

द्रौपदी और उसके पांच पति के जरिए स्त्री-पुरुष संबंध के कई आयाम निकलते हैं। बुद्धि और विवेक में कमतर होने के बावजूद द्रौपदी भीम को बहुत पसंद करती है। द्रौपदी के चरित्र का मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध बन जाता है जिसमें उसे चार पतियों का धैर्य और विवेक बाधा के समान लगता है।

पांचाली धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर के धैर्य पर सबसे ज्यादा तंज करती है। वह अपने से जुड़े हर रिश्ते का इस्तेमाल अपने प्रतिशोध के लिए अपनी तरह से करना चाहती है। पर युधिष्ठिर और अर्जुन के चरित्र की स्थिरता उसे ऐसा करने से रोक सही समय और सही तरीके का इंतजार करने के लिए कहती है। सैद्धांतिक रूप से वे दोनों धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं।

यहीं पर भीम ऐसे रूप में सामने आते हैं जो द्रौपदी के कहे को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। अज्ञातवास के दौरान मत्स्य नरेश विराट के सेनापति कीचक से रंघी रूपी द्रौपदी का अपमान करता

है तो वह युधिष्ठिर से तुरंत इसका बदला चाहती है। वह इस बात की भी परवाह नहीं करती है कि उनका भेद खुल गया और अज्ञातवास टूट गया तो पांडव जीती बाजी हार जाएंगे। द्रौपदी जानती है कि कौन तुरंत बदला ले सकता है और वह भीम के पास जाती है। भीम सब कुछ भुला तुरंत कीचक का वध कर देते हैं।

भीम के चरित्र को सुर और असुर के बीच का रखा जा सकता है। मानो हयवदन के चरित्रों की तरह शरीर के अंग बदल दिए गए हों। दिमाग में सिर्फ घोड़े जैसी ताकत बसती हो। भीम में यह प्रतीक है दस हजार हाथियों का। मुश्किल यह है कि इस तरह की शक्ति का चरित्र हमेशा दूसरों के द्वारा इस्तेमाल ही किया जाता है। इस शक्ति की डोर उनके पास होती है जो विवेक के साथ अपना हित देखते हैं। इनकी शक्ति सिर्फ दूसरों को मारने या मरने तक सीमित हो जाती है।

महाभारत अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। दुःशासन का वध करने के बाद जब भीम रक्तपात कर द्रौपदी के पास जाते हैं तो वे एक वीभत्स असुर की तरह दिखते हैं। आंख के बदले आंख और जान के बदले जान लेने वाले वैसे बर्बर बदले के प्रतीक बनते हैं जो विवेक और ज्ञान के चक्षु से खलनायक नजर आने लगता है। वह सुर नहीं बल्कि असुर के खांचे में ही दिखने लग जाते हैं।

नायक और खलनायक की पहचान क्या होती है? विवेकपूर्ण नजरिए के बिना नायकत्व नहीं आ सकता। महाभारत में जहां-जहां भीम का इस्तेमाल विवेक के साथ हुआ, वहां तो वे सकारात्मक रूप में दिखते हैं। नहीं तो फिर उनकी भूमिका प्रतिक्रियावादी और नकारात्मक चरित्र के तौर पर दिखाई देती है। वे एक स्वतंत्र चरित्र के रूप में न तो नकारात्मक हैं और न सकारात्मक।

द्रौपदी भीम को दो कारणों से पसंद करती है। एक तो वे ताकतवर हैं और दूसरा बिना सोचे-समझे उसकी हर बात पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। घृत सभा में द्रौपदी ने कहा था कि मैं दुःशासन के रक्त से केश धोने तक उन्हें खुला रखूंगी तो भीम ने तुरंत उसके साथ प्रण किया कि मैं उसका रक्त पीकेगा। महाभारत के युद्ध में भीम और द्रौपदी को सहजता से अधर्म के खेमे में रखा जा सकता था लेकिन इन दोनों का नायकत्व पूर्वनिर्णयित था। इसलिए ये आज भी नायकों के नाम के साथ ही लिए जाते हैं।

विवेकहीन ताकत का भीम के लिए हासिल क्या है? सबसे ज्यादा हत्या करने वाला इंसान किसी भी सभ्यता और संस्कृति में नायक की तरह नहीं देखा जाता है। उसकी दशा ऐसे चरित्र अभिनेता की तरह होती है जिसका पैमाना नायक और नायिका अपने इस्तेमाल के हिस्साब से तय करते हैं। बल की निर्यति बुद्धि का औजार बनना भर होती है। इतिहास औजार का इस्तेमाल करने वालों का होता है औजार बन जाने वालों का नहीं।

नादानी ने फंसाया

पायलट गच्चा खा गए। गहलोल से उलझने से पहले उनके सियासी

पैतरो को जाना समझा होता तो ऐसी हड़बड़ी कभी न करते। मुख्यमंत्री पद की शर्त रखने का यह सही वक्त नहीं था। चुनाव नतीजों के बाद जब

अशोक गहलोल के नाम पर राजांमद हुए थे तब अलबत्ता ज्यादा शर्तें मनवा सकते थे। न तो ठोक बजाकर अपने समर्थक विधायकों की वफादारी को परखा और न यह जांच कि वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं। दल-बदल कानून की बेड़ियां पडने के बाद अब किसी भी सरकार को गिराने का यही एक रास्ता है कि उसके इतने विधायक इस्तीफा दे दें कि सरकार अल्पमत में आ जाए। अशोक गहलोल राजनीति में आने से पहले अपने पिता की तरह ही पेशेवर जादूगर थे। पायलट उनके बिछाए जाल में उलझ गए। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को बदलने की मांग हो या उसी सरकार की गांहे-बगांहे आलोचना की जिसमें उनकी हैसियत दूसरे नंबर की थी, पायलट युवा होने के कारण अपेक्षित परिपक्वता और धैर्य नहीं दिखा पाए। बेशक सरकार में उनकी और उनके मंत्रियों की ज्यादा नहीं चल रही होगी पर वे सब रखते तो आने वाले वक्त में हालात उनके अनुकूल हो सकते थे। विधायक दल की बैठक में न आकर, सिंधिया से मुलाकात कर और हरियाणा के होटल में पनाह लेकर उन्होंने आलाकमान की नजर में अशोक गहलोल के इस आरोप को पुख्ता कर दिया कि वे मुख्यमंत्री पद की चाह में भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। जबकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का कभी भरसा नहीं दिया होगा क्योंकि पार्टी के 72

राजपाट

विधायकों को इस बात के लिए राजांमद करने से पहले वसुंधरा राजे को मनाना पड़ेगा। पायलट ने कह जरूर दिया कि वे कभी भाजपा में नहीं जाएंगे पर जिस सीमा तक वे आगे बढ़ चुके हैं, वहां से कांग्रेस में भी उनकी वापसी अब आसान कहां बची है।


चौतरफा विरोध

देवस्थानम बोर्ड बनाकर जैसे बर के छते में हाथ डाल दिया है उतराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। सूबे के चार धामों की विश्वव्यापी मान्यता, प्रतिष्ठा और महत्व प्राचीनकाल से चला आ रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के दर्शन से सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खुलने की धारणा चली आ रही है। रावत ने इन चारों तीर्थ स्थानों के बेहतर प्रबंधन, रख-रखाव और विकास के मकसद से वेष्णो देवी श्राईन बोर्ड की तर्ज पर अध्यादेश के जरिए बनाया था श्रीदेव स्थानम बोर्ड। आलोचकों में साधु संत तो शुरू से थे ही, अब भाजपा के अनेक नेता भी कर रहे हैं बोर्ड बनाने के फैसले का विरोध। पार्टी के धुरंधर नेता सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी ने तो सरकार के


खिलाफ उतराखंड हाईकोर्ट में ही याचिका दायर कर रखी है। स्वामी इस फैसले के मुखर आलाचकों में हैं। उनके सुर में सुर

मिलाने वालों की संख्या बढ़ रही है। पार्टी के पूर्व सूबेदार और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने भी मुख्यमंत्री को चेताया है कि एक तरफ तो विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है दूसरी तरफ समाज में भी इसे लेकर गुस्सा है। नुकसान दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। भट्ट ने मुख्यमंत्री को सलाह दे डाली है कि जनभावनाओं का आदर करते हुए वे इस अध्यादेश को या तो वापस ले लें या इसमें संशोधन करें। स्वामी तक तो सब सामान्य था पर अजय भट्ट का बयान आते ही सरकार और संगठन दोनों की ही बेचैनी बढ़ी है। अजय भट्ट गंभीर नेता माने जाते हैं। अर्नाल बयानबाजी कभी नहीं की। उनकी सलाह का मुख्यमंत्री ने एक तरह से उपहास उड़ाया। बोले कि भट्ट ने अपनी सलाह देने में देर कर दी। जाहिर है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को हल्के अंदाज में ले रहे हैं। जबकि चारों तीर्थों के पुरोहित भी सरकारी फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। अब इसे जात का रंग भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठहरे राजपूत। विरोधी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की मंशा झलकती है बोर्ड के गठन से।

परेशान चौहान



मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के पर कतर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत बढ़ाई है आलाकमान ने। चौहान का चौथा मुख्यमंत्री-काल पहले के तीन कार्यकालों से एकदम भिन्न है। पहले तो आलाकमान इस पक्ष में ही नहीं था कि उन्हें सूबे की सियासत में रहने दिया जाए। सरकार के पतन के बाद उन्हें विधायक दल का नेता नहीं बनाने से यह साफ हुआ था। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना केंद्र की सियासत में रचने बसने का इशारा किया था। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य समर्थक बाईस कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद भी चौहान को भाजपा विधायक दल का नेता आखिरी वक्त चुना गया। इससे पहले तो नरोत्तम शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और केलाश विजयगोय के नाम उछले थे।



पर जोड़-तोड़ और पार्टी के ज्यादा विधायकों के अपने पक्ष में होने के दम पर चौहान बाजी मार ले गए। कई अपने करीबियों को चाहकर भी मंत्री नहीं बना पाए विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया खेमा भारी पड़ा। मंत्रियों के चयन से लेकर विभागों के बंटवारे तक के लिए आलाकमान के दिल्ली दरबार की कई बार परिक्रमा कर दुखी जरूर हुए होंगे।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

प्रखर कटाक्ष

महाभारत काल की कड़ी वर्तमान

जीवन की प्रासंगिकता को बखूबी बयां करती है। मुकेश भारद्वाज जी का यह लेख वर्तमान जीवन की राजनीति पर प्रखर कटाक्ष करता है। निसंदेह कौरवों एवं पांडवों के मध्य जो युद्ध हुआ उसका परिणाम किए गए दुष्कर्म का ही नतीजा था। वर्तमान जीवन में शक्ति एवं सत्ता का गटजोड़ प्रासंगिक भी है क्योंकि जहां शक्ति होगी वहां सत्ता को प्राप्त करना सहज होगा, क्योंकि विदुर नीति महाभारत काल में भी प्रासंगिक रही तो वर्तमान जीवन में भी इसका व्यापक प्रभाव राजनीति में देखने को मिल ही रहा है।

-महेश आचार्य, नागौर, राजस्थान

आज के विदुर में अंतर

विदुर का जितना निर्मम विश्लेषण आपने किया उतना शायद ही कभी किसी ने किया हो। वे सत्ता में बने रहने के लिए नहीं बल्कि रिशतों के लिए वापस आए थे। जबकि आज जिसे विदुर वर्ग कहा गया है वह सत्ता का उपभोग करने के लिए आता है।

-मिलिंद रांघे, महर्षिनगर, इटारसी

सत्ता का क्रीतदास

सत्ता हमेशा गीता और महाभारत की दुहाई देती है। सत्ता की नजर में लहू और शहादत कोई मायने नहीं रखते। महाभारत काल से लेकर आज तक विदुर वर्ग के लोग सत्ता के क्रीतदास होते हैं। कोरोना काल में ही बिहार के चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आयोग का बयान कुछ मायने नहीं रखता है। वह तो सत्ता का क्रीतदास है। सत्ता जैसा उपयोग करना चाहेगी, वैसा करेगी। जब-जब सत्ता और धर्म का घालमेल होता है, प्रलयकारी दृश्य उपस्थित होता है। जनता को योद्धा महामारी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

- रामानुज चौधरी, तेयाय, बेगूसराय



आपके पत्र

राजनीतिक तटस्थता

एक तपस्या

मुकेश भारद्वाज का बेबाक लेख आज की परिस्थितियों में विदुर वर्ग को महाभारत के आख्यानों से अक्षरशः जोड़ता है। राजनीतिक तटस्थता एक तपस्या है जिसे विदुर ने पक्ष-विपक्ष, धर्म-अधर्म और हार-जीत के बीच संतुलन बनाए रखने का अस्त्र बनाया है। निःसंदेह आज की राजनीति में यह नीति मौकापरस्ती ही मानी जाएगी।

-एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड।

अवसरवादिता के उदाहरण

विदुर के बारे में जो बिना लागलपेट के निर्मम और निष्पक्ष समालोचना की गई है उसका कोई अन्यत्र उदाहरण हो ही नहीं सकता। वर्तमान भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में अधिकतर पत्रकार, नेता, नौकरशाह, राजनीतिक दलों के समर्थक अवसरवादिता के उदाहरण हैं।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

सत्ता का सूत्रधार

विदुर वर्ग को व्यापकता की परिधि में आकलन करने से सिद्ध होता है कि व्यक्ति जन्म और जाति से नहीं अपितु अपने ज्ञान और बुद्धि से व्यक्तित्व के गगन को स्पर्श करता है। विदुर ने अपनी विद्वता का दुरुपयोग किसी भी

पक्ष के लिए नहीं किया क्योंकि वे अपनी बौद्धिक सीमा से भिन्न थे जबकि आज के विदुर सत्ता सुगंध में पारंगत पराक्रम का भरपूर कोशल रचते हैं।

-अशोक कुमार, पटना।

सर्वकालिक पात्र

इन दिनों राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उन सबकी साम्यता महाभारत कालीन पात्रों व घटनाओं में ढूंढी जा सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे पात्र सर्वकालिक बने रहेंगे। आलेख के शुरुआत में जिस मौसम वैज्ञानिक राजनेता का जिक्र किया गया है वह तो बानगी भर है। ऐसे उदाहरण राजनीति में भरे पड़े हैं। ऐसे उदाहरण चुनावी मौसम में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए यह खास महत्वपूर्ण है। दिलचस्प है कि वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में सभी दल बारी-बारी से सत्तासीन रह चुके हैं। आज भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि कौन किस करवट जाकर बैठेगा।

- मुकेश कुमार मन्नन, पटना

चुनावी परजीवी

बिहार से निकले राजनेताओं में विदुर वर्ग खूब देखने को मिलता है। ये आगे आने वाले हर हालात को भांप कर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। ये केवल अपने जातीय समीकरण की बदौलत चुनाव जीतकर विधानसभा या सांसद तक पहुंचते हैं जिसका मुख्य मकसद अपने वर्ग के लोगों का नेतृत्व करना होता है। ऐसे नेताओं को चुनावी परजीवी कहते हैं।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, ।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके टैगों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएँ। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :

vishesh.jansatta@expressindia.com

कोरोना के मामले 10 अगस्त तक 20 लाख के पार हो जाएंगे : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो जाने को लेकर शुक्रवार को कहा कि अगर कोविड–19 इसी तेजी से फैला तो 10 अगस्त तक

संक्रमण के मामले 20 लाख के पार चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। (भाषा)

<div><div><div><div><div></div><div>JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED</div></div></div><div><div><div></div><div>CIN: L35911HR1965PLC004485</div></div></div><div><div><div></div><div>Regd. Office:Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana</div></div><div><div></div><div>Corporate Office: 2, Pak Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070</div></div></div><div><div><div></div><div>Telephone:+91 11 26893331, Fax:+91 11 26893180</div></div><div><div></div><div>Website: www.jaispring.com.</div></div></div></div></div>
NOTICE
Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2012-13 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority
Shareholders are hereby informed that pursuant to Section 124(5) & 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 5 & 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016,("The Rules"),the company is mandatorily required to transfer the dividends which remained unclaimed or unpaid for a period of seven year, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government.
The Company is also required to transfer all such shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF Demat Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to IEPF.

Accordingly, the following are required to be IEPF:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF
Unclaimed Dividend FY 2012-13 (Final)	October 21, 2020

The details of unclaimed or unpaid dividends can be assessed on Company's website viz. www.jaispring.com and shareholder can claim their pending dividend(s) before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF. If you have not claimed your dividends for last seven consecutive years and the amount(s) are lying unpaidd/ unclaimed against your folio/demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:

- (i) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any
 - (ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof, and
 - (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.
- You are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will transfer the shares to the IEPF DematAccount by the aforesaid due date without any further notice.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF DematAccount.

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www.iefp.gov.in.

Individual Notice in this regard have been sent to the concerned shareholders on June 17, 2020 at their respective address registered with the Company. In case of any queries on the subject matter, shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should reach on or before October 10, 2020:

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Jamna Auto Industries Limited 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070, India Contact No. –011-26893331 Email – investor.relations@jaispring.com	Skyline Financial Services Private Limited D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 Ph. No.: 011-40450193-97 Email: parveen@skynilnerta.com; grievances@skynilnerta.com Contact Person: Mr. Parveen Sharma
For Jamna Auto Industries Ltd	Sd/-
Place: New Delhi	Praveen Lakhera
Date: July 17, 2020	Company Secretary & Head-Legal

कंपनी सूचना
श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कर्तव्या गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
CIN : L29112DL1963PLC004084; PAN : AAACS0229G
फोन : 011 23315941, फैक्स : 011 23311203
E-Mail : compliance.officer@shrirampistons.com, Website : www.shrirampistons.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

- कॉर्पोरेट कार्यलय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के ("एम्पलीमेंट CMDI/CIRP/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सभी परिपत्र") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सभी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में कम्पनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (56वीं एजीएम") एजीएम नोटिस में यथा निर्धारित कार्य के संचालन हेतु मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को शायं 5.00 बजे (भासास) वीडियो कन्फ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों में ("बीसी/ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- एम्पलीओ और सभी के परिपत्रों के संबंध में, 56वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के सहित वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिजिटलिटी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। एजीएम सूचना व वार्षिक रिपोर्ट की मौखिक प्रती की आवश्यकता उक्त परिपत्रों के तहत समाप्त की जा चुकी है।
- जिन शेरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी चल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा सके। ई-मेल आईडी अपडेट करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:—
 - आधार कार्ड में शेरघ रखने वाले सदस्य आवश्यक विवरण अर्थात् (ए) फोटो/वी नंबर (बी) शेरधारक का नाम (सी) शेर प्रमाणपत्र (आवर व पीछे) की स्कैनड प्रतियाँ (डी) पैन कार्ड की व सत्यापित स्कैनड प्रतियाँ (ई) आधार कार्ड की व सत्यापित स्कैनड प्रतियाँ ई-मेल **compliance.officer@shrirampistons.com**. पर भेजकर कम्पनी के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं।
 - डिफ़्ट फॉर्म में शेरघ रखने वाले सदस्य** (i) डिफ़्ट खाता संख्या (सीडीएसएल-16 अकीय लामार्गी आईडी व एनएडीएल-16 अकीय डीपीआईआईडी + सीएलआईआईडी) (बी) शेरधारक का नाम (सी) न्वलडिड मारट्टर की व सत्यापित स्कैनड प्रतियाँ या समग्र खाते के विवरण की प्रतियाँ (डी) पैन कार्ड की व सत्यापित स्कैनड प्रतियाँ (ई) आधार कार्ड की व सत्यापित स्कैनड प्रतियाँ ई-मेल **compliance.officer@shrirampistons.com** पर भेज सकते हैं।
 - कम्पनी ने उक्त वर्णित शेरधारकों को लॉगिन विवरण प्रदान करने के लिए सीडीएसएल के साथ समन्वय किया है।
- एजीएम नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट इनवेस्टर दिशा-निर्देश के तहत कंपनी की वेबसाइट **www.shrirampistons.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है। एजीएम सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा व रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।
- कर्ट-ऑफ-डेट अर्थात् 4 अगस्त, 2020 तक भौतिक या अमौखिक रूप में शेरघ रखने वाले सदस्य संतुल डिजॉजिटरी सविसेंस (इंडिया) लि. ("सीडीएसएल") के इलेक्ट्रानिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं।
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
 - एजीएम नोटिस में वर्णित साधारण व विशेष व्यापार, इलेक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग के द्वारा किए जाएंगे।
 - रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 08.08.2020 (सुबह 10.00 बजे) से सोमवार, 10.08.2020 (शाम 5.00 बजे) से तक खुली रहेगी जिसके दौरान रिमोट ई-वोट (इंटरनेट या भौतिक फॉर्म में) शेरघ रखने वाले सदस्य अपने वोट डाल सकते हैं। सोमवार, 10.08.2020 को शाम 5.00 बजे के बाद वोट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल इसके बाद वोटिंग किए जाने के लिए सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे।
 - वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा) करने के अधिकार कर्ट-ऑफ-डेट (अर्थात् 04.08.2020) तक शेरघ रखने वाले सदस्यों को ही दिए जाएंगे। कर्ट-ऑफ-डेट तक सदस्य न बनें या वोट डालें व सदस्य इस एजीएम सूचना को केवल जानकारी के रूप में देखें।
- जिस व्यक्ति के पास कंपनी की शेयर हैं और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कर्ट-ऑफ-डेट अर्थात् 04.08.2020 तक शेयर रखते हैं, वह **helpdesk.evoting@cdslindia.com** और **deepakujneja11@gmail.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- यदि आपके पास डिफेंड फॉर्म में शेयर हैं और **www.evotingindia.com** पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पहले ही वोट कर चुके हैं, तो मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- शेयरधारक द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद, वह अपने वोट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है।
- वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले और रिमोट ई-वोटिंग से प्रस्तावों पर अपने वोट न डालने वाले और जो वोट डालने के पात्र हैं, केवल वही शेयरधारक एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के योग्य होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट डाल चुके शेयरधारक एजीएम में उपस्थित होने के योग्य होंगे। हालांकि वे एजीएम में वोट डालने के योग्य नहीं होंगे।
- एजीएम में उपस्थित होने और ई-वोटिंग सिस्टम के संबंध में किसी पूछताछ या समस्या होने पर, आप हमें सहायन के अवर्गंत खरित पूछे जाने वाले पत्र ("एफ़रक्वैज़") और ई-वोटिंग नियमावली जो कि **www.evotingindia.com** पर उपलब्ध है, का सदना दे सकते हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल करे या श्री निरतिन कुदर **022-23058738**) या श्री महबूब खान **022-23058543**) या श्री राकेश जाल्टी **022-23058542**) को सपर्क करें।
- इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश जाल्टी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेटुल डिजॉजिटरी सविसेंस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मेनार्थीन फ्यूरेक्स, मफतलाल मिल्स कम्पाउंडर, एन एम ज्योती मार्ग, लोअर परले (इंस्टट), मुंबई-400013 या ई-मेल भेजे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या **022-23058542/43** पर काल करें।
- एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्ट्रार और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुरितकार 05.08.2020 से 11.08.2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कृते श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंस लि.

स्थान : नई दिल्ली, हस्ता/— (आर. श्रीनिवास) दिनांक : 17.07.2020 कंपनी सचिव, सदस्यता सं. : F-4034 तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कर्तव्या गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

राष्ट्र

मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा, भाजपा में शामिल

भोपाल, 17 जुलाई (भाषा)।

मध्यप्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस को शुक्रवार को एक और झटका तब लगा जब बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र सौंप दिया।

विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘महिला विधायक ने आज दोपहर विधानसभा के अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है।’ त्यागपत्र का कारण जानने के लिए विधायक सुमित्रा देवी से संपर्क करने के प्रयास असफल रहे। इसके बाद सुमित्रा देवी देर शाम को भाजपा में शामिल हो गईं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा, ‘मैंने नेपानगर की विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर का इस्तीफा मंजूूर कर लिया है। मैंने उन्हें इस पर सोचने का समय देने का कहा था, लेकिन सुमित्रा देवी ने इसे स्वीकार करने के लिए जोर दिया।’

सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले बड़ा मलहारा सीट से कांग्रेस

के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। लोधी, भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती के संपर्क में थे। इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही प्रदेश सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

इसके भी पहले मार्च माह में 22 कांग्रेस के विधायक बागी हो त्यागपत्र देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें से अधिकांश सिंधिया समर्थक हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 15 माह पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी।

लोधी और सुमित्रा देवी के त्यागपत्र के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की ताकत घटकर 90 रह गई है। इसके प्रकार कुल 24 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने और विधायकों की निधन के कारण विधानसभा में वर्तमान में 26 सीटें रिक्त हो गई हैं और विधानसभा की प्रभावी संख्या 204 हो गई है।इसमें भाजपा के 107 विधायक हैं जबकि चार निर्दलीय हैं, दो बसपा और एक सपा का विधायक हैं।

बाबरी प्रकरण : पांडेय को घोषित अपराधी करार देने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश लखनऊ, 17 जुलाई (भाषा)।

सीबीआइ की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद दहाए जाने के मामले में आरोपी ओम प्रकाश पांडेय को घोषित अपराधी करार देने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश शुक्रवार को दिया।

इस घोषणा के बाद आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को दण्ड के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया गया था क्योंकि सीआरपीसी की धारा-313 के तहत उनका बयान रज्त करना आवश्यक है। गैर जमानती वारंट हालांकि दोनों बार पांडेय की ओर से रिसीव नहीं किया गया और वापस आ गया।

आयुक्तालय की हिरासत में था। एनआइए की हिरासत में दो अन्य आरोपियों स्वना सुरेश और संदीप नायर की मौजूदगी में सरिथ से पूछताछ की जाएगी। एनआइए ने सरिथ को हिरासत में दिख जाने का अनुरोध करते हुए अपने आवेदन में कहा था कि वह मामले के मुख्य आरोपियों में से एक है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है।

इस बीच, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय ने शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि खाड़ी के व्यवसायी फैजल फरीद के पैतृक निवास पर छापा मारा गया। मामले में एनआइए द्वारा फरीद को भी आरोपी बनाया गया है।

इन्टेक कैपिटल लिमिटेड
मांग सूचना प्रकाशन
<p>विश्वीय परिसरमण्डलों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रभुत्वहीन हिस प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 18 (2) के अंतर्गत सूचना</p> <p>1) ने इंडर चक्र एण्ड प्रॉपर्टी लिमिटेड (आयुक्तक) प्रतिनिधित्व द्वारा उनके प्रांनिर्देश श्री इंडर चक्र प्रा.ली, बसास नं. 493-494, ग्राम एण्ड चेंबर नॉर्द गाँवियाबाद (3.3)-201003, 2) इंडर चक्र प्रा.ली (सह-अध्यारक/परिचरक) द्वारा उनके कम्पनी उदरनिर्धार, के.बी-105, कबी नगर, गाँवियाबाद, उतर प्रदेश-201001, तथा वी चेंबर नं. 2, आम सेक्टर, बसास नं. 1193, परमाणु जलसंचालक, गाँवियाबाद, उतर प्रदेश. 3) तन कुम्भी (सह-अध्यारक) के.बी-105, कबी नगर, गाँवियाबाद, उतर प्रदेश-201001 को सीधे चक्र द्वारा 10.06.2020 को खरीदे गई।</p> <p>विषय: इन्टेक कैपिटल लिमिटेड, 708, मंगलम थिंथिन्ग, 59, नेहरू प्लेन, नई दिल्ली-110019 में चक्र खाता नं. LNGTHA03415-160005584 तिथि 31.07.2015</p> <p>आम ने चक्र के पुनर्गुणन में चक्र की तारीख 31.5.2020 को रु. 2,30,70,182/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख सत्रह हजार एक सौ बत्सती मात्र) को खरया की व करोड़ तीस लाख सत्रह हजार एक सौ बत्सती मात्र) खरया है। अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल ने 10.06.2020 को सूचना मांग कर आणको 31.5.2020 को रु. 2,30,70,182/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख सत्रह हजार एक सौ बत्सती मात्र) की खरया का प्रमाण करने का निर्देश दिया। एतद्द्वारा आणको निर्देश दिया जाे है कि रु. 2,30,70,182/- (रुपये दो करोड़ तीस लाख सत्रह हजार एक सौ बत्सती मात्र) की राशि के इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना के अन्वेषक इन्टेक कैपिटल लिमिटेड अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत परिसरमण्डलों के विवरण प्रभुत्वहीन हिस के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बचाव होगा। यह सूचना इन्टेक कैपिटल लिमिटेड की उपस्थिति किसी अन्य अधिकार के प्रति पुनर्विचार लियत है।</p> <p>अनुसूची: परिसरमण्डलों विषयि प्रतिभूति हिस विनिर्देश है, कि अधिकार विवरण इस प्रकार है: विश्वीय परिसरमण्डल: ग्राम मोर्टी, परमाणु जलसंचालक, गाँवियाबाद एवं लिन्का-गाँवियाबाद में सम्मति सं. 2 (आप 510 वर्ग यार्ड), बसास नं. 1193 में तथा उस पर स्थिततन तथा भिन्न्य के निर्माण भवन।</p> <p>तिथि: 10.07.2020 प्रतिभूक्त अधिकारी</p> <p>स्थान: नई दिल्ली इन्टेक कैपिटल लि. के लिने</p>

न्यू लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: जौन्सी-29, बेसमेट, शिवाजी एम्प्लेव, रजा गार्डन, नई दिल्ली-110027
Line: (91) 11-45613885 CIN: L74899L1995PLC064005
Web: http://www.newlightapparels.com. E-Mail: newlight.apparels@gmail.com
सूचना

सेवी (सूचीबन्ध दाखिल तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल को एक बैठक शुक्रवार, 24 जुलाई, 2020 को 3.00 बजे आम. में जी-29, बेसमेट, शिवाजी एम्प्लेव, रजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के अन्वये अधोनिर्धारण पर विचार तथा अनुमोदन किया जाएगा:
क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही तथा वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित स्टेटमेंट विवरण (परिमाणु सं.) 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही तथा तीन माह के लिये कम्पनी के अंकेक्षित स्टेटमेंट विवरण परिमाण पुनः सेवी (इन्वयोरर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार कम्पनी का ट्रेडिंग विधुदो वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद खुलेगा।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.newlightapparels.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी।

बोर्ड के आदेश से
न्यू लाइट एप्पैरल्स लिमिटेड के लिने
हस्ता./—
संयोजक महकूम
प्रबन्धक निदेशक एवं अनुपालन अधिकारी

TATA 7वां तल, सिडिबिसेंस टावर, इण्टरनेशनल एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
कम्पना सूचना (अवगत सम्मति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)
जैसा कि, वित्तीय परिसंर्पणियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रकट शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोन्तत्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22 नव. 2019 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस रिपोर्ट को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोन्तत्ताक्षरी ने उन नियमावली के नियम के साथ पठित अधिनियमों की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रकट शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोन्तत्ताक्षरी ने यहां नहीं वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों का आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नहीं वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ख्या खाता सं. 6314829, 5528649 एवं 6314535
कम्पना की तिथि: 14 जुलाई, 2020
दिनादर सविधिक उतराधिकारी/सांख्यिक प्रतिनिधि (बी) का नाम: 1. अनुराग नागपाल, ई-71, ब्लॉक-ई, कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली-110015, 2. मोहंटे नागपाल, ई-71, ब्लॉक-ई, कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली-110015, 3. मे. के.वीरमा स्टेल (पी) लिमिटेड, प्रतिनिधित्व द्वारा उनके निदेशक अनुराग नागपाल, चार्ड-153, लोहा मंडी, नारायण, नई दिल्ली-110028 एवं 4. मे. के.वीरमा स्टेल (पी) लि., प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशक मोहंटे नागपाल, चार्ड-153, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली-110028

तिथि को राशि: 22 नवम्बर, 2019 को रु. 2,40,54,290.64/- (रुपये दो करोड़ चालिस लाख चौवन हजार दो सौ नब्बे तथा पैसे चौबट मात्र)

निर्भूत परिसरमण्डलों/अवगत सम्मतिओं का विवरण: सम्मति 1: उसके सभी अधिकारों तथा टाटाईटल के साथ सभी सामूहिक सुविधाओं से युक्त सिंधियों के सामूहिक अधिकार के साथ रिटल्ट/पाकिंग ताल पर अधिभाषित 1/4 आवासीय शेयर/अधिकार के साथ उक्त भवन के नीचे की भूमि में आवासीय अधिभाषित तथा इम्पार्टिबल स्वामित्व के अधिकारों के साथ रिटल्ट/पाकिंग ताल पर अधिभाषित के भीतर ग्राम सरई दारपुर, दिल्ली राज्य, दिल्ली की आवासीय कॉलोनी मानसरोवर गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी में स्थित भूकान सं. सी-3/20, सम्पूर्ण ऊपरों भू तल, बिना डूबने के अधिकार के, माप 30 वर्ग यार्ड्स, बसास नं. 2304 का भाग (पंजी). बिन्नी प्रलेख सं. 20078 तिथि 10 अक्टूबर, 2013 में विस्तृत विवरण उल्लिखित) तथा चौहौदर: उतर: मानसरोवर गार्डन कॉलोनी का बाउण्डरी, दक्षिण: रोड, पूर्व: रोड तथा पश्चिम: सम्मति सं. सी-3/20

सम्मति सं. 2: उसके सभी अधिकारों तथा टाटाईटल के साथ सभी सामूहिक सुविधाओं से युक्त सिंधियों तथा फैसेज के सामूहिक अधिकार के साथ रिटल्ट/पाकिंग ताल पर अधिभाषित 1/4 आवासीय शेयर/अधिकार के साथ उक्त भवन के नीचे की भूमि में आवासीय अधिभाषित तथा इम्पार्टिबल स्वामित्व के अधिकारों के साथ दिल्ली नगर निगम के भीतर ग्राम सरई दारपुर, दिल्ली राज्य में स्थित प्रतीलड सम्मति सं. सी-3/20 का निर्मित सम्पूर्ण ऊपरों भू तल, बिना डूबने के अधिकार के, माप 197 वर्ग यार्ड्स (पंजी. बिन्नी प्रलेख सं. 20050, तिथि 10 अक्टूबर, 2013 में विशेष रूप से उल्लिखित) तथा चौहौदर: उतर: नर्मदा, दक्षिण: रोड, पूर्व: अन्य भूमि तथा सम्मति सं. सी-3/21

सम्मति सं. 3: डब्ल्यूएनएस नारायणा, लोहा मंडी, नई दिल्ली के ले आउट प्लान में स्थित ब्लॉक-बी में प्लॉट नं. 153, परिमाण माप 92 वर्ग यार्ड्स (विस्तृत विवरण 6.7.2016 की पंजीकृत नक्शा सं. 1, वॉल्यूम नं. 5970, पेज नं. 122-125 में उल्लेखित)। चौहौदर: उतर: प्लॉट नं. 152, पूर्व: रोड, दक्षिण: प्लॉट नं. 154, पश्चिम: रोड।

तिथि: 18.7.2020
प्रतिभूक्त अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिने

मुंबई में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या नौ हुई

मुंबई, 17 जुलाई (भाषा)।

मुंबई के फोर्ट इलाके में इमारत ढह जाने की घटना में मरने वालों की संख्या नौ हो गई है। इस घटना में 17 वर्षीय किशोरी ने शुक्रवार को जेजे अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि हद्दसे में दो महिलाओं समेत सात लोगों की बृहस्पतिवार आधी से अभी तक मौत हो चुकी है। दक्षिण मुंबई में दुर्घटनास्थल पर तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। दरअसल, फोर्ट इलाके में छह मंजिली

इमारत भानुशाली का एक हिस्सा बृहस्पतिवार को धंस गया था, जिससे दो

व्यक्ति की तत्काल जान चली गई थी।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि तीन और

व्यक्तियों को बृहस्पतिवार आधी रात को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था,

जिन्हें दुर्घटनास्थल पर मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया था। इसी के साथ

ही 62 साल की एक महिला की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार

इस जुद्ध महिला को मलबे से निकालकर वहां अस्पताल ले जाया गया था जहां उसे

मृत घोषित कर दिया गया।

बिहार में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा सुनिश्चित करें कि चुनाव

संक्रमित करने वाला कार्यक्रम न बने

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

बिहार की कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मतदाताओं को इस बारे में आश्वस्त करने को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाने वाला कार्यक्रम नहीं बनेगा।

विपक्षी दलों ने शुक्रवार शाम आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी ऑनलाइन बैठक से पहले चुनाव आयोग

ओएनजीसी में 5.52 फीसद की तेजी सूचकांक 548 अंक उछला

रुपया डॉलर के मुकाबले हुआ 16 पैसे मजबूत

मुंबई, 17 जुलाई (भाषा)।

शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन अच्छी तेजी रही और बीएसई सूचकांक शुक्रवार को 548.46 अंक उछलकर बंद हुआ। देश में कोविड-19 से संक्रमण के मामलें 10 लाख के आंकड़े को पार करने के बावजूद कंपनियों के बेहतर वित्तीय परिणाम से निवेशक उत्साहित हैं। सूचकांक और एनएसई के निफ्टी दोनों में साप्ताहिक आधार पर भी तेजी दर्ज की गई।

तीस शेयरों वाला बीएसई सूचकांक शुरू से ही बढ़त में रहा और अंत में 548.46 अंक यानी 1.50 फीसद की जोरदार तेजी के साथ 37,020.14 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 161.75 अंक यानी 1.51 फीसद उछलकर 10,901.70 अंक पर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान सूचकांक 425.81 अंक यानी 1.16 फीसद जबकि निफ्टी 133.65 अंक यानी 1.24 फीसद की बढ़त में रहे।

सूचकांक में शामिल शेयरों में सर्वाधिक लाभ में ओएनजीसी रही। इसमें 5.52 फीसद की तेजी आई। उसके बाद टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस का स्टॉक रहा। दूसरी तरफ सूचकांक

के तीस शेयरों में केवल पांच टीसीएस, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक में 1.45 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गयी।

सैमको ग्रुप के संस्थापक और सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) ज़ीमिंत मोदी ने कहा कि इन्फोसिस, विप्रो जैसी कुछ आइट्टी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी रही और इनके वित्तीय परिणाम से अच्छी शुरुआत को लेकर धारणा बनी। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 34,956 मामले आने के साथ शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। महज तीन दिन प हुई थी।

चीन का शंघाई, हांगकांग और दक्षिण कोरिया का सोल लाभ में रहे जबकि जापान का टोक्यो बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में जर्मनी और ब्रिटेन के बाजारों में तेजी रही जबकि फ्रांस में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेट क्रूड का वायदा भाव 0.97 फीसद टूटकर 42.95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 75.02 पर बंद हुआ।

अधूरी परियोजनाओं के निवेशकों के घर के सपने को पूरा करेगी इन्वेस्टर्स क्लीनिक

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

संपत्ति ब्रोकरेज कंपनी इन्वेस्टर्स क्लीनिक रीयल एस्टेट क्षेत्र की अटकी पड़ी परियोजनाओं के निवेशकों के घर के सपने को पूरा करेगी। कंपनी ने इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की चार रीयल एस्टेट कंपनियों से करार किया है। इसके तहत इन्वेस्टर्स क्लीनिक अटकी पड़ी रीयल एस्टेट परियोजनाओं के ग्राहकों को नया घर और व्यावसायिक इकाई उपलब्ध कराएगी। खास बात यह है कि ग्राहक ने अटकी या

श्याम श्रीनिवासन की फेडरल बैंक में एमडी, सीईओ पद पर पुनर्नियुक्ति

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

फेडरल बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसे 22 सितंबर 2021 तक प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में श्याम श्रीनिवासन की फिर से नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी मिल गई है। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर

रुकी परियोजना में जितना निवेश या भुगतान किया है उस राशि को नई संपत्ति की खरीद में समायोजित किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ग्राहक ने यदि अटकी परियोजना में घर बुक कराते समय कोई बैंक ऋण लिया है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। नई इकाई की खरीद के समय नया ऋण लिया जा सकेगा।

देशभर में करीब 1,500 रीयल एस्टेट परियोजनाएं अटकी हुई है और इनमें करीब पांच लाख उपभोक्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। यूनितक, जेपी समूह और आम्रपाली द्वारा अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं करने की

वजह से एनसीआर बाजार इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। नोएडा की कंपनी इन्वेस्टर्स क्लीनिक ने शुक्रवार को बयान में कहा कि इन ग्राहकों को चार बिल्डरों सुपरटेक, मिम्सुन, भूतानी और होम एंड सोल की परियोजनाओं में पूरी तरह तैयार फ्लैट या ऐसे घर जो तैयार होने के करीब हैं, की पेशकश की जाएगी।

इस बारे में संपर्क करने पर सुपरटेक के प्रबंध निदेशक मोहित अरोड़ा, भूतानी समूह के प्रबंध निदेशक आशीष भूतानी तथा मिम्सुन गुप के प्रबंध निदेशक यश मिग्लानी ने इस

पूर्वबंदी के कारण गया रोजगार, अदालत में की अपील

एअर इंडिया अपने अस्थायी कर्मचारियों को वापस काम पर रखे

मुंबई, 17 जुलाई (भाषा)।

एअर इंडिया के काम से कम 250 अस्थायी कर्मचारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी को उन्हें फिर से काम पर रखने का निर्देश देने के लिए बंबई हाई कोर्ट में अपील दायर की है। कोरोना के कारण लागू पूर्वबंदी के चलते वे बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। उनकी याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति आर डी धानुका और वी जी विष्ट की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने एअर इंडिया को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

ऋण के मामले में बैंकिंग को सुगम बनाने पर काम कर रहा आइबीए

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

भारतीय बैंक संघ (आइबीए) बजट देने के मामले में बैंकिंग को सुगम बनाने पर काम कर रहा है और कोविड-19 संकट के बीच तेजी से निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आइबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुनील मेहता ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि सदस्य बैंक ऋण उत्पादों के डिजिटलीकरण पर काम कर रहे हैं ताकि ऋण की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो।

उन्होंने कहा, हूबैंकिंग में सुगमता आइबीए के प्रमुख एजेंडे में से एक है और बैंकर इसके बारे में सोच रहे हैं। बैंकों को तेजी से वितरण के बारे में सोचना होगा। बैंक इस महामारी को अपने ऋण उत्पादों के

डिजिटलीकरण के लिए अवसर में बदल रहे हैं। अब से 6 महीने बाद आप अधिक डिजिटल ऋण उत्पाद पाएंगे।' उन्होंने 'पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स' पोर्टल का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के 'एग्लोरिदम' आधारित निर्णय लेने के मंच को ऋण की पूरी अवधि तक के लिए प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो।

उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि बैंकिंग पिछले 10 वर्षों के दौरान बदल गई है। अगर इसमें और बदलाव होने जा रहे हैं। इन सुधारों की वास्तव में जरूरत है। बैंकर्स इस पर काम कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों

(एमएसएमई) को सभी तरह के समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि बैंक ऋणों के पुनर्वास व पुनर्गठन के अनुरोध के लिए खुले हैं।

मेहता ने भी इसी तरह के विचार रखते हुए कहा कि सरकार ने आरबीआई से अनुरोध किया है कि वह महामारी से पीड़ित कुछ क्षेत्रों के लिए एकबारगी पुनर्गठन योजना पर विचार करे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों पर वास्तव में अलग से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, वे हैं विमानन, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन आदि। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो उपभोग स्तर और यात्रा प्रतिबंधों के कारण महामारी के दौरान बहुत प्रभावित हुए हैं। हो सकता है कि सरकार इन क्षेत्रों के लिये विशेष पैकेज लाए या रिजर्व बैंक विशेष ऋण पुनर्गठन योजना पेश करे।

कोल इंडिया करेगा आयातकों के लिए विशेष ई-नीलामी

कोलकाता, 17 जुलाई (भाषा)।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सिर्फ कोयला आयातकों के लिए हाजिर ई-नीलामी की एक नई श्रेणी शुरू की है और इसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति की मदद से विदेश से 15 करोड़ टन कोयले के आयात को कम करना है।

आयात स्थानापन्न के लिये विशेष हाजिर ई-नीलामी योजना 2020 के तहत खरीदा गया कोयला देश के भीतर उपयोग के लिए होगा। कोल इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम देश की कोयला के आयात पर निर्भरता को कम करने के सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जोर देने पर काम करने की तैयारी में उठाया गया है। 15 करोड़ टन के कोयले के आयात को इस नई योजना से स्थानापन्न किया जा सकता है।


अंतिम तिथि से पहले फसल बीमा योजना के तहत कराएं पंजीकरण : तोमर

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसानों से कहा कि वे अंतिम तिथि से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत पंजीकरण कराने के लिए सामने आए। इससे उन्हें खरीफ 2020 फसल के समक्ष आने वाली प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा हासिल होगी। तोमर ने कहा कि खरीफ -2020 सत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसानों का नामांकन देश भर में जारी है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ 2020 सत्र के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 हो सकती है। केंद्र ने सभी किसानों के लिए नामांकन मुफ्त कर दिया है। उन्हें अब केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करना है। एक वीडियो संदेश के माध्यम से, मंत्री ने सभी किसानों से प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप फसल की विफलता / नुकसान के कारण होने वाली वित्तीय हानि से खुद को संरक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में इस योजना के शुरू होने के बाद से किसानों ने 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम चुकाया था, जबकि उन्हें 64,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान मिला।

यूको बैंक <small>(भारत सरकार का उपबन्ध)</small>		UCO BANK <small>(A Govt. of India Undertaking)</small>
शाखा कार्यालय: एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001		
कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत		
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 19.02.2020 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: मैसर्स फिनेस्ट फिट इम्पेक्स प्रा. लि., एवं गारंटर: मैसर्स एनर्जेटिक ट्रेडर्स प्रा. लि., श्री तरनपाल वाघवान, आदित्य तलवार, इन्दरपाल सिंह एवं निरूपमा वाघवान, तरनपाल वाघवान एवं अञ्जन वाघवान , को सूचना में उल्लिखित राशि 31.01.2020 को रु.1,49,82,155.66 (एक करोड़ उनचास लाख बासठ हजार एक सौ पचपन रुपये छियासठ पैसे मात्र) और उस पर 01.11.2019 से आगे के ब्याज एवं अनुषांगिक शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार /गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतगत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नौचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन 31.01.2020 को रु.1,49,82,155.66 (एक करोड़ इकतीस लाख बासठ हजार एक सौ पचपन रुपये छियासठ पैसे मात्र) तथा 01.11.2019 से ब्याज एवं बैंक द्वारा वहन की गई अनुषांगिक खर्च के साथ, यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।		
ऋणियों /गारंटर्स का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।		
अचल सम्पत्ति का विवरण		
(1) भूतल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(2) पहली मंजिल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(3) दूसरी मंजिल पर और ऊपर सम्पूर्ण छत, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 जो धिरा है:		
उत्तर: प्लॉट नं.23	दक्षिण: प्लॉट नं.25	
पूर्व: स्ट्रीट नं. डी-1 (45 फीट चौड़ा)		
पश्चिम: 15 फीट सर्विस रोड		
स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी	
तिथि: 14.07.2020	यूको बैंक	

यूको बैंक <small>(भारत सरकार का उपबन्ध)</small>		UCO BANK <small>(A Govt. of India Undertaking)</small>
शाखा कार्यालय: एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001		
कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत		
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 19.02.2020 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: मैसर्स वाघवान फेब्रिक्स प्रा. लि. एवं गारंटर: मैसर्स एनर्जेटिक ट्रेडर्स प्रा. लि., श्री तरनपाल वाघवान, इन्दरपाल सिंह एवं निरूपमा वाघवान, तरनपाल वाघवान एवं अञ्जन वाघवान , को सूचना में उल्लिखित राशि 31.01.2020 को रु.1,31,65,443.97 (एक करोड़ इकतीस लाख बासठ हजार एक सौ तैंतालिस रुपये सतानबे पैसे मात्र) और उस पर 01.11.2019 से आगे के ब्याज एवं अनुषांगिक शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार /गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतगत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नौचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन 31.01.2020 को रु.1,31,65,443.97 (एक करोड़ इकतीस लाख पैंसठ हजार चार सौ तैंतालिस रुपये सतानबे पैसे मात्र) तथा 01.11.2019 से ब्याज एवं बैंक द्वारा वहन की गई अनुषांगिक खर्च के साथ, यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।		
ऋणियों /गारंटर्स का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।		
अचल सम्पत्ति का विवरण		
(1) भूतल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(2) पहली मंजिल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(3) दूसरी मंजिल पर और ऊपर सम्पूर्ण छत, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 जो धिरा है:		
उत्तर: प्लॉट नं.23	दक्षिण: प्लॉट नं.25	
पूर्व: स्ट्रीट नं. डी-1 (45 फीट चौड़ा)		
पश्चिम: 15 फीट सर्विस रोड		
स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी	
तिथि: 14.07.2020	यूको बैंक	

यूको बैंक <small>(भारत सरकार का उपबन्ध)</small>		UCO BANK <small>(A Govt. of India Undertaking)</small>
शाखा कार्यालय: एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001		
कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत		
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 18.02.2020 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: मैसर्स पलेक्सीन एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड एवं गारंटर: मैसर्स हर्नर्जेटिक ट्रेडर्स प्रा. लि., राजवीर सिंह वाघवान, संदीप सिंह त्रयाल, इन्दरपाल सिंह एवं निरूपमा वाघवान, तरनपाल वाघवान एवं अञ्जन वाघवान , को सूचना में उल्लिखित राशि 31.01.2020 को रु.76,40,782.85 (छिहत्तर लाख चालीस हजार सात सौ बयासी रुपये पिचासी पैसे मात्र) और उस पर 01.02.2020 से आगे के ब्याज एवं अनुषांगिक शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार /गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नौचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन 31.01.2020 को रु.76,40,782.85 (छिहत्तर लाख चालीस हजार सात सौ बयासी रुपये पिचासी पैसे मात्र) तथा 01.02.2020 से ब्याज एवं बैंक द्वारा वहन की गई अनुषांगिक खर्च के साथ, यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।		
ऋणियों /गारंटर्स का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।		
अचल सम्पत्ति का विवरण		
(1) भूतल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(2) पहली मंजिल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(3) दूसरी मंजिल पर और ऊपर सम्पूर्ण छत, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 जो धिरा है:		
उत्तर: प्लॉट नं.23	दक्षिण: प्लॉट नं.25	
पूर्व: स्ट्रीट नं. डी-1 (45 फीट चौड़ा)		
पश्चिम: 15 फीट सर्विस रोड		
स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी	
तिथि: 14.07.2020	यूको बैंक	

यूको बैंक <small>(भारत सरकार का उपबन्ध)</small>		UCO BANK <small>(A Govt. of India Undertaking)</small>
शाखा कार्यालय: एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001		
कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत		
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 19.02.2020 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदार: मैसर्स सेवॉन क्लॉडिंग प्राईवेट लिमिटेड, एवं गारंटर: मैसर्स एनर्जेटिक ट्रेडर्स प्रा. लि., राजवीर सिंह वाघवान, संदीप सिंह त्रयाल, इन्दरपाल सिंह एवं निरूपमा वाघवान, तरनपाल वाघवान एवं अञ्जन वाघवान , को सूचना में उल्लिखित राशि रु.71,83,014.15 (इकहत्तर लाख तिरासी हजार चौदह रुपये एवं पन्द्रह पैसे मात्र) 31.01.2020 को, और उस पर 01.02.2020 से ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नौचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 14 जुलाई, 2020 को ले लिया है। कर्जदार /गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन 31.01.2020 को रु.71,83,014.15 (इकहत्तर लाख तिरासी हजार चौदह रुपये एवं पन्द्रह पैसे मात्र) तथा 01.02.2020 से ब्याज एवं बैंक द्वारा वहन की गई अनुषांगिक खर्च के साथ, यूको बैंक, एच-46, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।		
ऋणियों /गारंटर्स का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।		
अचल सम्पत्ति का विवरण		
(1) भूतल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(2) पहली मंजिल, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.		
(3) दूसरी मंजिल पर और ऊपर सम्पूर्ण छत, डी-1/24, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 जो धिरा है:		
उत्तर: प्लॉट नं.23	दक्षिण: प्लॉट नं.25	
पूर्व: स्ट्रीट नं. डी-1 (45 फीट चौड़ा)		
पश्चिम: 15 फीट सर्विस रोड		
स्थान: नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी	
तिथि: 14.07.2020	यूको बैंक	

भारतीय स्टेट बैंक
भारतभारत आर्थि सुकी शाखा, स्टेट बैंक हाइड, 18/4, गान्धी स्क्वायर रोड, वरदर नगर, नई दिल्ली-110005 फोन: 011-28752163, फैक्स: 28755674 ई-मेल: sbi51521@sbi.co.in

सुद्धि पत्र
यह कच्चा सूचना दिनांक 11.07.2020 के प्रकाशन के संदर्भ में फाइनेंसिय एक्सपर्स (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) के संदर्भ में है। (उद्यार्कर्ता मैसर्स श्याम सेवा संस्थान) जिसमें बकाया राशि रु. 41,70,079। प्रकाशित हुआ है जो कि गलत है इसके जगह पर बकाया राशि 41,70,079/- पढ़े। तथा (उत्तरकर्ता श्री दिनेश कुमार जेने) में प्रपटी का विवरण में पेज नं. 277-324 प्रकाशित हुआ जो कि गलत है इसके जगह पर पेज नं. 297-324 पढ़े। बाकी नियम व शर्तें समान्य रखीं।

दिनांक 6 एवं 07.07.2020 हरत./-प्राधिकृत अधिकारी, स्थान: आरा। भारतीय स्टेट बैंक

PATBACK BUSINESS LIMITED
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
Regd. off: Shop No.325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email id: crazypricingdel@gmail.com
Website: www.crazypricingonline.com
CIN: L14999DL1984PLC018747

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is to be held on Wednesday, July 22, 2020 at the registered office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020 and any other business with permission of Chair if any;

The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e www.crazypricingonline.com and website of the stock Exchange i.e. www.mseai.in.

For and on behalf of the Board
Patback Business Limited

(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)

Sd/-
Kiran Mittal
(Director)

Place: New Delhi
Date: 17.07.2020
DIN: 00749457

केनरा बैंक Canara Bank <small>क्रेडिटि सिन्डिकेट</small>	परिशिष्ट - IV- ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की वित्ती के लिए ई-नीलामी वित्ती सूचना।
अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना		
एतद्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई /प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रवर्तित /भौतिक (जो भी लागू है) कच्चा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि तथा ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 04—08—2020 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है		

भारत ने 27.3 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा 'अमेरिका के बाद भारत में कोरोना संक्रमण की सबसे अधिक जांच'

संयुक्त राष्ट्र, 17 जुलाई (भाषा)।

भारत में 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। यह इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 75 में से 65 देशों में 2000 से 2019 के बीच बहुआयामी स्तर पर गरीबी में काफी कमी आई है।

बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों को समाहित करती है - जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा, और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। इन 65 देशों में से 50 ने भी गरीबी में

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- बीते दस साल में देश की बड़ी पहल।
- 65 देशों में गरीबी में बहुआयामी स्तर पर कमी आई।

असंभव हुआ संभव

रिपोर्ट में कहा गया है कि चार देशों- आर्मेनिया (2010-2015 / 2016), भारत (2005 / 2014-15 / 2016), निकारगुआ (2001-2011 / 2012) और उत्तर मैसेडोनिया (2005/2014) ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) को आधा कर दिया। ये देश दिखाते हैं कि बहुत भिन्न गरीबी स्तर वाले देशों के लिए क्या संभव है।

रहने वाले लोगों की संख्या को कम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी कमी भारत में आई, जहां 27.3 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठने में कामयाब रहे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चार देशों- आर्मेनिया (2010-2015 / 2016), भारत (2005 / 2014-15 / 2016), निकारगुआ (2001-2011 / 2012) और उत्तर मैसेडोनिया (2005/2014) ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) को आधा कर दिया। ये देश दिखाते हैं कि बहुत भिन्न गरीबी स्तर वाले देशों के लिए क्या संभव है।

रिपोर्ट के अनुसार चार देशों ने अपने एमपीआई मूल्य को आधा कर दिया और बहुसंख्यक गरीब लोगों की संख्या में सबसे बड़ी (27.3 करोड़) कमी आई।

रिपोर्ट में कहा गया, चौदह देशों ने अपने सभी उप-प्रादेशिक क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी को कम किया। ये हैं: बांग्लादेश, बोलीविया, किंगडम ऑफ एसावातिनी, गैबॉन, गाम्बिया, गुयाना, भारत, लाइबेरिया, माली, मोज़ाम्बिक, नाइजर, निकारगुआ, नेपाल और रखांडा। हालांकि इसमें आंशकां व्यक्त कोई गई कि गरीबी के मोर्चे पर हुई प्रगति पर कोरोना वायरस महामारी का प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

वाशिंगटन, 17 जुलाई (भाषा)।

कोरोना विषाणु संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ नमूनों की जांच अमेरिका ने की है, इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। वाइट हाउस ने यह जानकारी दी। अमेरिका में 35 लाख से अधिक लोग कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए और संक्रमण से 1,38,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्वभर में संक्रमण के 13.6 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए और 5,86,000 रोगियों की मौत हो चुकी है।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना विषाणु की जांच के

- अमेरिका में 4.2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच।
- भारत में 1.2 करोड़ नमूनों की जांच।

संबंध में, हमने 4.2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की है। इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। जांच के मामले में हम पूरे विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जांच करने का ट्रंप प्रशासन का कदम पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा उठाए कदमों के ठीक विपरीत है।

मैकनेनी ने बताया कि सीबीएस टीवी के मुताबिक 2009 में ओबामा-वाइडेन प्रशासन

नीत रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने राज्यों से एच।एन।ए। प्यू की जांच बंद करने को और हर एक मामले को गिनना बंद करने को कहा था।

साथ ही मैकनेनी ने बताया कि टीके के संबंध में भी अच्छी खबर मिल रही है। उन्होंने बताया कि मॉडर्न द्वारा जिस टीके का परीक्षण किया जा रहा है उसके शोध में शामिल 45 लोगों पर अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

साथ ही जुलाई के अंत तक इस टीके का तीसरे चरण का परीक्षण होने की उम्मीद है जिसमें 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मैकनेनी ने बताया कि कोविड-19 की उपचार पद्धति के संबंध में भी उत्साहजनक जानकारी मिली है।

ब्राजील में कोरोना के मामले 20 लाख पार

साओ पाउलो, 17 जुलाई (एपी)।

ब्राजील में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख के पार पहुंच गए हैं और इससे मरने वालों की संख्या 76,000 हो गई है। ब्राजील में कोविड-19 का पहला मामला मई में सामने आया था। संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधस्वतिवार को बताया कि देश में कोविड-19 के मामले 20 लाख के पार पहुंच गए हैं और 76,000 लोगों की इससे जान गई है।

विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो के विषाणु की घातक क्षमताओं को नकारने और राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम स्वास्थ्य मंत्री वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है।

ओली का भविष्य : अहम बैठक कल तक के लिए स्थगित

काठमांडो, 17 जुलाई (भाषा)।

नेपाल की सत्ताधारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक पांचवीं बार रविवार तक के लिए टाल दी गई ताकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की अगुवाई वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को आपसी मतभेद दूर करने के लिए और समय दिया जा सके।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे होने वाली थी लेकिन ओली और प्रचंड के आग्रह पर उसे रविवार अपराह्न तीन बजे तक के लिए टाल दिया गया। इससे पहले दिन में दोनों नेताओं के बीच बातचीत के लिए बैठक कुछ घंटों के लिए स्थगित की गई थी।

ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने ट्वीट किया, 'बैठक रविवार अपराह्न तीन बजे होगी।' स्थायी समिति की पिछली बैठक दो

जुलाई को हुई थी। स्थायी समिति के सदस्य गणेश शाह ने एजेंसी से कहा कि पार्टी ने भी अपनी 441 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भविष्य पर अगले सप्ताह होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रचंड की अगुवाई वाले असंतुष्ट खेमों द्वारा 'एक व्यक्ति एक पद' की नीति को पार्टी में लागू करने की मांग पर निर्णय लेने का अधिकार सीडब्ल्यूसी को है।

शाह ने कहा कि रविवार को स्थायी समिति की बैठक में सीडब्ल्यूसी की बैठक की तारीख की घोषणा की जा सकती है जिसमें प्रधानमंत्री ओली के भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पार्टी के भीतर कलह का अंत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष ओली, प्रचंड व पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक

आवास पर एक अनौपचारिक बैठक की थी। इस बैठक में ओली ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।

पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बैठक में ओली और असंतुष्ट गुट के मतभेद को दूर करने की कोशिश की गई थी लेकिन प्रधानमंत्री को 'एक व्यक्ति एक पद' की शर्त स्वीकार नहीं थी।

प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रचंड समेत एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ओली द्वारा दिए गए भारत विरोधी बयान 'न तो राजनीतिक रूप से सही थे और न ही कूटनीतिक दृष्टिकोण से उचित थे।' कई नेता ओली के कामकाज करने के तरीके के भी खिलाफ हैं।

पार्टी के भीतर अंतर्विरोध और गहरा गए जब ओली ने कहा था कि उनकी सरकार द्वारा देश का नया मानचित्र जारी करने के बाद पार्टी के कुछ नेता पड़ोसी देश भारत के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।



इम साय-साय

ब्रसेल्स में शुक्रवार को यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में भाग लेती बेलजियम की प्रधानमंत्री।

'भारत के साथ हुए समझौतों के विपरीत काम कर रहा है चीन'

वाशिंगटन, 17 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका के एक प्रभावशाली द्विदलीय कांग्रेसनल कॉरिस ने कहा कि चीन सीमा पर यथास्थिति बदलने और भारतीय सेना को चुनौती देने के लिए उसके साथ किए समझौतों के विपरीत काम कर रहा है और उसने उम्मीद जताई कि बेजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अत्यधिक हथियारों तथा बुनियादी ढांचे को कम करेगा। भारत और भारतीय अमेरिकियों पर कांग्रेसनल कॉरिस

ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैन्यकर्मियों के प्रति भी गुरुवार को शोक जताया।

भारत और चीन की सेना के बीच पांच मई से पेंगोंग सो, गलवान घाटी और गोगरा हॉट रिस्पिंग समेत पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में आठ हफ्तों से अधिक समय से गतिरोध चल रहा है। पिछले महीने गलवान घाटी में झड़पों में 20 भारतीय सैन्यकर्मियों के शहीद होने के बाद हालात बिगड़ गए।

कॉरिस के सह-अध्यक्ष सांसद जॉर्ज होलंडिंग और ब्रैड शरमन ने गुरुवार को एक

बयान में कहा कि भारत और भारतीय अमेरिकियों पर कॉरिस के सदस्य होने के नाते हम 15 जून को गलवान घाटी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं से बहुत निराश हैं। उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू को लिखे पत्र में कहा कि पिछले कुछ महीनों में चीनी अधिकारियों ने एलएसी पर करने की कोशिश की जिसके बाद छह जून को एलएसी से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया लागू करने के लिए कूटनीतिक चर्चा हुई।

इस पत्र पर सात अन्य सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि समझौते के महज नौ दिनों बाद चीन ने एलएसी पर भारतीय सीमा की ओर नया ढांचा खड़ा करने की कोशिश की। इसमें कहा गया है कि हम शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताते हैं। हम निराश हैं कि चीन सीमा पर यथास्थिति बदलने और भारतीय सेना को चुनौती देने के लिए भारत के साथ अपने समझौतों के विपरीत काम कर रहा है।

भारत में नियुक्त अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते : गूगल

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वह भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के नाम एवं पहचान का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं कर सकती है। गूगल ने कहा कि वह ऐसा इसलिए नहीं कर सकती कि उन्हें कानून के मुताबिक (ऑनलाइन उपलब्ध) अवैध सामग्री हटाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए नियुक्त किया गया है।

अमेरिकी कंपनी ने कहा कि नियुक्त किए गए अधिकारियों के नाम एवं पहचान का खुलासा करने से उन्हें नियुक्त करने का उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा क्योंकि उन्हें अपने सह से भटकाया जाएगा और उनके कार्य करने में बाधा डाली जाएगी। इससे सरकार के तत्काल अनुरोध पर समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता घट जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विचारक केएन गोविंदाचार्य द्वारा दायर एक

जनहित याचिका के जवाब में गूगल ने अपने हलफनामे में यह कहा है। याचिका के जरिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भारत में नियुक्त अपने अधिकारियों के बारे में सूचना का खुलासा सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों के तहत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता विराग गुप्ता के मार्फत दायर याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्त अधिकारियों के व्योरे के अभाव में न्याय के क्रियान्वयन के लिये कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है। वहीं, गूगल ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि ना तो आईटी अधिनियम और ना ही इसके तहत बनाए गए नियम उसे नियुक्त अधिकारियों को अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। कंपनी ने कहा कि उनमें सिर्फ यह कहा गया है कि इस तरह के अधिकारी सरकारी प्राधिकारों के साथ समन्वय के लिए रखे जाएंगे। गोविंदाचार्य ने केंद्र को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि तीनों साइटों पर प्रसारित किए जाने वाले फर्जी खबरों और नफरत भरे बयानों को हटाना सुनिश्चित किया जाए।

सर्व इंजन और यू ट्यूब जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली गूगल ने सामग्री के मनमाने नियामन के याची के दावे से इनकार किया और कहा कि उसके पास नीतियों की एक सूची है, जो स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक एवं अनुचित सामग्री का नियामन करती है। इसने यह भी कहा कि नफरत भरे बयान या फर्जी खबरों पर उसकी नीतियों का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटा दिया जाता है तथा ऐसा फिर से किए जाने पर संबंध अकाउंट को बंद कर दिया जाता है।

गूगल ने याची के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि गूगल इंडिया ने कर के भुगतान से बचने के लिए अपने पूरे राजस्व का खुलासा नहीं किया है। साथ ही, इस बात से भी इनकार किया कि गूगल एलएलसी ने भारतीय नागरिकों के निजी डेटा अवैध रूप से हासिल किए हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी डेटा का अवैध रूप से खुलासा कर दिया है। कंपनी ने कहा कि ये आरोप झूठे, बेबुनियाद और इसकी वैश्विक छवि और कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हैं।

पाकिस्तानी गोलाबारी में दंपति और बेटे की मौत

जम्मू, 17 जुलाई (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के समीप अग्रिम क्षेत्रों और रिहायशी स्थानों में शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, 'शुक्रवार को रात नौ बजकर 20 मिनट पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के पुंछ सेक्टर के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के आसपास मोटार दगाने लगी और संघर्षविराम को उल्लंघन करने लगी।' उनके अनुसार एक गोला करमाना गांव के एक मकान में आ फटा जिससे मोहम्मद रफिकी (58), उनकी पत्नी राफिया बी (50) और बेटे इरफान (15) की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।

बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाया, एक आरोपी गिरफ्तार

भिवानी (हरियाणा), 17 जुलाई (भाषा)।

नावालिंग किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर साल भर तक उसे ब्लैकमेल कर-के बलात्कार करने के आरोपी युवक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लड़की को जिंदा जला दिया है। किशोरी की इलाज के दौरान रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। उधर, पीड़ित किशोरी की मौत होने के बाद मुख्य आरोपी के पिता ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी की मौत के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।

दूसरा आरोपी रिश्ते में पीड़िता का फूफा लगता है। पुलिस ने बताया कि हाल ही में 10वीं की परीक्षा 80 फीसद अंक से पास करने वाली इस किशोरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और उसके साथ साल भर से बार-बार बलात्कार कर रहा है।

शिकायत दर्ज करने के बाद 16 जुलाई को आरोपी रिश्ते में लड़की का फूफा लगने वाले अपने एक साथी के साथ मौका देखकर किशोरी के घर में घुस आया और उसे जिंदा जला दिया। सदर थाने के प्रभारी श्रीभगवान ने बताया कि उन्हें तड़के करीब

साढ़े तीन बजे किशोरी के जलने की सूचना मिली। उन्होंने बताया, 'मैं खुद जिला अस्पताल पहुंचा और प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रोहतक भिजवाया। उस समय हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।' श्रीभगवान ने कहा, 'पीजीआई में किशोरी की मौत होने के बाद अब दोनों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।' उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उधर, पीड़ित किशोरी की मौत होने के बाद मुख्य आरोपी के पिता ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

'चीन का दुस्साहस अंदरूनी संकटों से ध्यान बंटाने की कोशिश'

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

पूर्वी लद्दाख में चीन का युद्ध जैसे हालात पैदा करना उसकी विस्तारवादी नीति को दर्शाता है, जिसे भारतीय सेना ने अपनी 'टूट्टू' एवं 'शानदार' प्रतिक्रिया के माध्यम से विफल कर दिया है। शुक्रवार को सामरिक विशेषज्ञों ने यह राय प्रकट की। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि चीन का सैन्य 'दुस्साहस' पूरी दुनिया में कोविड-19 के खिलाफ उसकी आलोचना के बाद 'कहीं और फायदा' दिखाने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयास का हिस्सा हो सकता है।

पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल (सेवानिवृत्त) दीपक कपूर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में सैन्य दुस्साहस से चीन को 'बड़ा आर्थिक नुकसान' उठाना होगा क्योंकि कई देश उसके व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक रुख पर भारत के जवाब को उन्होंने 'शानदार' बताया और कहा कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रशिक्षित हैं।

जनरल कपूर की बात से सहमत जताते हुए लॉफ्टनंट जनरल डीबी शेकातकर ने कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चीन की हो रही

आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा का आक्रामक रवैया अपनाया। शेकातकर ने कहा, 'चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर हो रही आलोचनाओं सहित कई मुद्दों पर घरेलू दबाव झेल रहे हैं। यह सैन्य दुस्साहस अंदरूनी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में आक्रामक रुख अपनाया ताकि चीन के राष्ट्रपति को खोई जमीन हासिल करने में मदद मिल सके।



भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बैंगलूर - 560 002

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैंक की 18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की **अठारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित तथा सेबी द्वारा जारी सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुपालन में सोमवार, 10 अगस्त, 2020 को भारतीय समयानुसार प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कार्य का संचालन करना है:

यथा 31 मार्च, 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2020 हेतु लाभ व हानि लेखा, लेखा द्वारा प्रावित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखा पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना

आगे इतिवृत्त श्रेयों / वरीयता श्रेयों या अन्य प्राप्तिवृत्तियों को जारी करके या तो अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्णय, निजी तौर पर शेयर आवंटन, अर्धतत्प्राप्त संस्थागत स्थानन या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रणाली द्वारा पूंजी जुटाना

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, वार्षिक सामान्य बैठक की नोटीस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेन पते संबंधित डिजिटरी सहभागिता, रिजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट (आरटीए) के साथ दर्ज है। उपरोक्त की एक प्रति बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com, शेयर बाजार (बीएसई / एनएसई) की वेबसाइट तथा ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध होगी। प्रधान कार्यालय को वार्षिक सामान्य बैठक का निर्धारित स्थान माना जाता है।

बहियों को बंद करना
बैंक के शेयरधारकों के रिजिस्ट्रार व शेयर अंतरण बही, वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में मंगलवार, 04 अगस्त 2020 से सोमवार 10 अगस्त 2020 (दोनों दिन शामिल) बंद रखी जाएगी।

अंतिम तारीख
शेयरधारकों के ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के अधिकार को निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख दिनांक 03 अगस्त 2020, सोमवार है। उपरोक्त वर्णित कार्यसूची के अनुसार, शेयरधारक जो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में अंतिम तारीख से पहले शेयरों का धारक होते हैं वे इलेक्ट्रॉनिकी माध्यम से वोट (दूरस्थ ई-वोटिंग) करने के लिए पात्र हैं।

रिमोट ई-वोटिंग
रिमोट ई-वोटिंग फॉर्मल गुरुवार, 06 अगस्त 2020 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होकर रविवार 09 अगस्त 2020 को शाम 5.00 बजे तक वोटिंग के लिए खुला रहेगा। रिमोट ई-वोटिंग पोर्टल 09 अगस्त 2020 को प्रातः 5.00 बजे के बाद अक्षम होगा।

ई-वोटिंग
18वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित व शेयरधारक जो दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है, 18वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणियाँ

क) 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के पेशपत्र के बाद शेयर प्राप्त करने वाले और अंतिम तारीख तक शेयरों को रखने वाले शेयरधारक evoting@karvy.com पर अनुरोध भेजकर ईवोटिंग / एजीएम में भाग लेने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ख) जिन शेयरधारकों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे 18वीं एजीएम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, लेकिन 18वीं एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

ग) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम शेयरधारकों के रिजिस्ट्रार या डिजिटरीज द्वारा अंतिम तारीख पर बनाए गए हितकारी स्थापियों के रिजिस्ट्रार में दर्ज किया गया है, वे दूरस्थ ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने और 18वीं एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे।

घ) 18वीं एजीएम की सूचना में भौतिक रूप और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्रदान की गई है। इसका विवरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ङ) जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल पते को पंजीकृत नहीं किया है, वे कृपया संबंधित डिजिटरीज प्रतिभागियों के साथ इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से हम बैंक के रिजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ einward.ris@kfnitech.com पर ईमेल आईडी अपडेट करने का अनुरोध करते हैं ताकि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 की प्रतियाँ, एजीएम की सूचना, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निर्देश, 18वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के निर्देश और लॉगिन के लिए पासवर्ड प्राप्त कर सकें।

च) जिन शेयरधारकों ने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे https://ris.kfnitech.com/email_registration/ लिंक पर क्लिक करके अस्थायी रूप से पंजीकरण कर सकते हैं।

छ) शेयरधारक जो अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स भूल गए हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को पुनः प्राप्त / रीसेट करने के लिए आरटीए (केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) से einward.ris@kfnitech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ज) वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ई-वोटिंग या 18 वीं एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न / तकनीकी सहायता के लिए शेयरधारक सदस्य हमारे आरटीए (केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) की वेबसाइट पर उपलब्ध सदस्यों के लिए एफएक्यू(अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्न) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या 040-67162222 पर कॉल करें या टोल फ्री नंबर 1800 345 4001 पर संपर्क करें या निम्नलिखित पते पर केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के उप महा प्रबंधक श्री एस वी राजू से संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूणित: केनरा बैंक), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32 गच्छीबोली, फाइनेंसियल जिला, नानकयमगुडा, हैदराबाद-500 032.

झ) एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई / एनएसई) की वेबसाइट और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
एल वी प्रयाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बैंगलूर
दिनांक : 17.07.2020

खबर कोना



मैनचेस्टर

के ओल्ड ट्रैफर्ड में शुक्रवार को दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन मुकाबले से पहले अभ्यास करते इंग्लैंड के बेन स्टोक्स।

दुबई में हो सकता है आइपीएल

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के अभ्यास शिविर के आयोजन की दौड़ में संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे है जबकि अहमदाबाद और धर्मशाला भी विकल्प हैं जिन पर बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद (एफेक्स काउंसिल) की बैठक में चर्चा की गई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग दुबई में सितंबर के आखिर से नवंबर तक हो सकता है। भारतीय क्रिकेटर भी दुबई में अभ्यास बहाल कर सकते हैं। बोर्ड की एफेक्स काउंसिल की ऑनलाइन बैठक में इस मसले पर बात की गई लेकिन अंतिम फैसला आइपीएल की संवर्धन परिषद लेगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि आइपीएल दुबई में होता है तो ही भारतीय क्रिकेटरों के वहां अभ्यास करने का कोई मतलब है।

पांच महीने बाद स्ववाचा कोर्ट पर वापसी चाहती हैं जोशना

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा)।

भारत की शीर्ष रैंकिंग की स्ववाचा खिलाड़ी जोशना चिनप्पा खेल से करीब पांच महीने दूर रहने के बाद जल्द ही कोर्ट में प्रवेश की उम्मीद कर रही हैं। हालांकि खेल की राष्ट्रीय संस्था ने कोविड-19 महामारी के चलते सितंबर तक किसी भी गतिविधि की संभावना से इनकार किया है। जोशना ने कहा, 'यह आसान नहीं है, कोर्ट पर वापसी नहीं कर पाना। मुझे कोर्ट पर गए हुए पांच महीने हो जाएंगे। मैं अकादमी में ट्रेनिंग करना पसंद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि शीर्ष एथलीट के तौर पर हम सितंबर से पहले ट्रेनिंग कर पाएंगे।'

फीफा ने पंजाब एफसी से खिलाड़ियों के हस्तांतरण का प्रतिबंध हटाया

चंडीगढ़, 17 जुलाई (भाषा)।

पूर्व आई-लीग चैंपियन पंजाब एफसी पर सॉथ मेसोडोनिया के फुटबॉलर हिस्टिजन डेनकोवस्कि को बकाया का भुगतान नहीं करने पर फीफा के द्वारा लगाए गए खिलाड़ियों हस्तांतरण (तीन विंडो ट्रांसफर) के प्रतिबंध को हटा दिया गया। पहले मिनर्वा एफसी के नाम से पहचानी जानी वाली इस क्लब से जारी बयान में शुक्रवार को बताया गया कि इस खेल की वैश्विक निकाय फीफा ने प्रतिबंधों को हटा दिया। क्लब डेनकोवस्कि के बकाए को पूरा करने में नाकाम रहने पर बाद फीफा के विवाद समाधान चैंबर (डीआरसी) ने यह प्रतिबंध लगाया था। क्लब से जारी मीडिया विज्ञापि के मुताबिक फीफा ने 13 जुलाई को क्लब को भेजे पत्र के माध्यम से प्रतिबंध हटाने की जानकारी दी।

रीयाल मैड्रिड बना ला लीगा चैंपियन

मैड्रिड, 17 जुलाई (एपी)।

जिनेदिन जिदान का जादू फिर से चल गया और रीयाल मैड्रिड गुरुवार को यहां विलारियाल को 2-1 से हराकर ला लीगा में पिछले तीन साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीतने में सफल रहा।

रीयाल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी बार्सीलोना पर सात अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम पर ट्राफी सुनिश्चित की। दूसरे नंबर पर काबिज बार्सीलोना को कैप नोड स्टेडियम में ओसासुना से हार का सामना करना पड़ा।

करीम बेंजेमा ने दो गोल किए। कोरोना वायरस के कारण लीग तीन महीने तक ठप्प रही थी और इसकी वापसी के बाद रीयाल मैड्रिड एकमात्र टीम है जिसने अपने सभी मैच जीते। जब लीग शुरू हुई

थी तब रीयाल मैड्रिड उससे दो अंक पीछे थी।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो सत्र पहले यूवेंटस से जुड़ जाने के बाद यह रीयाल मैड्रिड का पहला लीग खिताब भी है। बार्सीलोना को खिताब की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए जीत दर्ज करने और रीयाल मैड्रिड की हार के लिए दुआ करने की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

ओसासुना ने बार्सीलोना को उसके ही मैदान पर 2-1 से पराजित करके बड़ा उलटफेर किया।



लीग अपने नाम करने के बाद ट्रॉफी को चूमते रीयाल मैड्रिड के कप्तान सर्जियो रामोस।

कमजोर थी बार्सीलोना की टीम : मेस्सी

बार्सीलोना, 17 जुलाई (एपी)

ला लीगा खिताब का बचाव करने में असफल रहने के बाद बार्सीलोना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने नाराजगी जाहिर करते हुए टीम को कमजोर करार दिया।

मेस्सी ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा, 'यह मैच हमारे पूरे साल के खेल की तरह रहा। हम एक अनिश्चित और कमजोर टीम रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैड्रिड ने सभी मैचों को जीत कर शानदार प्रदर्शन किया लेकिन चैंपियन बनने में हमने भी उसकी मदद की। हमें अपने खेलने के तरीके और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की आलोचना करनी होगी।'



लीस्टर व मैन यू की जीत से ईपीएल रोमांचक मोड़ पर

लंदन, 17 जुलाई (एपी)

लीस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने अपने मैच जीतकर इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट से चैंपियंस लीग में जगह बनाने वाली आखिरी दो टीमों को लेकर मुकाबला रोमांचक बना दिया है।

अब निगाह 26 को इन दोनों टीमों के बीच होने वाले आखिरी दौर के मुकाबले पर टिक गई है। लीस्टर ने शैफ़ील्ड यूनाइटेड को 2-0 से हराया लेकिन इसके कुछ घंटों बाद यूनाइटेड ने क्रिस्टल पैलेस को इसी अंतर से हराकर चैंपियंस लीग में जगह बनाने का अपना दावा कायम रखा। इन दोनों टीमों के अब समान 62 अंक हैं लेकिन लीस्टर बेहतर गोल अंतर के कारण चौथे स्थान पर है।

अपने अंतिम दौर के मुकाबले से पहले लीस्टर रविवार को टोटनहैम और यूनाइटेड बुधवार को वेस्ट हैम से भिड़ेगा। अगर वे इन मैचों में जीत दर्ज कर लेते हैं तो तीसरा और चौथा स्थान हासिल कर सकते हैं क्योंकि अभी इन दोनों से एक अंक आगे तीसरे स्थान पर काबिज चेलसी को अपना अगला मैच चैंपियन लीगवर्ग के खिलाफ खेलना है।



तोक्यो ओलंपिक का स्थान तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं

तोक्यो, 17 जुलाई (एपी)।

अगले साल होने वाले तोक्यो ओलंपिक के 42 वें तय हो गए हैं और प्रतिस्पर्धाओं का कार्यक्रम वही रहेगा जो इस साल रहने वाला था। खेल गांव और मुख्य मीडिया सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं।

तोक्यो आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी और सीईओ तोशिरो मुतो ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों को शुक्रवार को एक संदेश में यह जानकारी दी। उन्होंने एक आनलाइन सत्र में जापान से आइओसी सदस्यों से बात की।

जापान में लगाए गए अनुमान के अनुसार एक साल के लिए टाले जाने से आयोजकों को दो से छह अरब तक का अतिरिक्त खर्च आएगा। ओलंपिक अधिकारियों ने कुल लागत का कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं बताया।

उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021 को होगा जबकि महिला सॉफ्टबाल और फुटबॉल की स्पर्धाएं 21 जुलाई से होंगी। पुरुष फुटबॉल 22 जुलाई और तीरंदाजी और नौकानयन 23 जुलाई से होगा।

पहली पदक प्रतिस्पर्धा 24 जुलाई को महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल होगी।

भारतीय पुरुष टीम का सामना न्यूजीलैंड से, महिला का नीदरलैंड से

तुसाने, 17 जुलाई (भाषा)।

चार दशक से पदक के लिए इंटरजार कर रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम तोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान का आगाज 24 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। महिला टीम उसी दिन नीदरलैंड से पहला मैच खेलेगी।

आठ बार की चैंपियन भारतीय टीम को आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन, न्यूजीलैंड और मेजबान जापान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है जबकि ग्रुप बी में बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आठवां और आखिरी ओलंपिक स्वर्ण 1980 में जीता था। उसे 25 जुलाई को आस्ट्रेलिया से, 27 जुलाई को स्पेन, 29 जुलाई को गत चैंपियन अर्जेंटीना और 30 जुलाई को जापान से खेलना है। महिला वर्ग में भारत पूल ए में नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ है।

जंग-ए-क्रिकेट

469 रन पर पारी घोषित की इंग्लैंड ने, विंडीज 32/1

स्टोक्स व सिब्ले के शतक से इंग्लैंड का विशाल स्कोर

मैनचेस्टर, 17 जुलाई (एपी)।

बेन स्टोक्स (176) और डोम सिब्ले (120) के बीच चौथे विकेट की 260 रन की साझेदारी की मदद से इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पहली पारी में विकेट पर 469 रन के विशाल स्कोर पर घोषित की।

जवाब में वेस्ट इंडीज ने एक विकेट खोकर 32 रन बना लिए थे। जॉन कैप्टन (12) दसवें ओवर में सैम कुरेन की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर क्रम ब्रेथवेट छह और अलजारी जोसेफ 14 रन बनाकर खेल रहे थे।

इससे पहले दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ते दिख रहे स्टोक्स चाय ब्रेक के बाद अपने स्कोर में चार रन और जोड़कर विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 356 गेंदों का सामना करके अपनी मैराथन पारी में 176 रन बनाए जिसमें 17 चौके और दो छक्के शामिल थे।

डोम सिब्ले

120 रन बनाकर

आउट हुए जिसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दूसरे सत्र में काफी तेजी से रन बनाए।

शॉर्ट लगाते इंग्लैंड के बल्लेबाज डोम सिब्ले



'आर्चर को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा'

मैनचेस्टर, 17 जुलाई (भाषा)।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के निदेशक एशले जाइल्स ने कहा कि स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को कोविड-19

प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा क्योंकि इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी और ईसीबी को करोड़ों पाउंड का नुकसान हो सकता था।

इंग्लैंड में अगले हफ्ते से कुछ खेल प्रतियोगिताओं में दर्शकों को अनुमति

लंदन, 17 जुलाई (एपी)।

दर्शकों को अगले हफ्ते से इंग्लैंड में कुछ खेल प्रतियोगिताओं के लिए स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अक्टूबर में स्टेडियमों को व्यापक रूप से खोलने की योजना से पहले कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का परीक्षण किया जाएगा।

घरेलू क्रिकेट 26 और 27 जुलाई को पहली खेल स्पर्धा होगी जिसमें मार्च के बाद दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति दी जाएगी। 31 जुलाई से शैफ़ील्ड में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप शुरू होगी जो एक अगस्त को र्लोरियस गुडवुड घुड़दौड़ महोत्सव के साथ सरकार की प्रशंसकों की वापसी की योजना का हिस्सा है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा, 'अक्टूबर से हम दर्शकों को

घरेलू क्रिकेट 26 और 27 जुलाई को पहली खेल स्पर्धा होगी जिसमें मार्च के बाद दर्शकों को स्टेडियम में जाने की इजाजत होगी

स्टेडियम में लाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन बहाली के बाद शुरूआती सफल नतीजे के बाद ही कोविड-19 के लिए सुरक्षित माहौल में ऐसा किया जाएगा।

स्टेडियम की क्षमता पर अब भी प्रतिबंध लगा होगा। स्टेडियम में प्रवेश के लिए सामाजिक दूरी और वन-वे प्रणाली जरूरी होगी। खाना, सामान खरीदने या सट्टेबाजी के लिए जहां सामाजिक दूरी बरकरार नहीं रखी जा सकती, वहां बैरियर या स्क्रीन लगाई जाएंगी।

खेल मंत्री नाइजेल हडलस्टोन ने कहा कि स्टेडियमों के पूरा भरने से पहले यह कुछ समय के लिए ऐसा ही रहेगा।

नस्लवाद के खिलाफ समर्थन जताया पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने

बोले डुप्लेसिस

जार्ज फ्लॉयड की मौत के बाद विश्वभर में चल रहा ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान

'अश्वेतों के बिना किसी की भी जिंदगी मायने नहीं रखती'

जोहानिसबर्ग, 17 जुलाई (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस ने नस्लवाद के खिलाफ अपना समर्थन व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि किसी की भी जिंदगी तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि अश्वेतों का जीवन मायने नहीं रखता।

अमेरिका में अफ्रीकी मूल के जार्ज फ्लॉयड की एक श्वेत पुलिसकर्मी के हाथों मौत के बाद विश्व भर में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' (अश्वेत जीवन भी मायने रखता है) आंदोलन चल रहा है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच से पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खुलकर इसका समर्थन किया।

डुप्लेसिस ने कहा कि अब नस्लवाद से लड़ने का समय आ गया है। इस 36 वर्षीय क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'पिछले दो महीनों में मुझे यह



फाफ डुप्लेसिस

महसूस हुआ कि हमें यह तय करना होगा कि हमें किससे लड़ना है। हम अपने देश में कई तरह के अन्याय से घिरे

डुप्लेसिस ने कहा कि 'ब्लैक लाइव्स मैटर' अभियान को उनका पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं कहूंगा कि किसी की भी जिंदगी तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि अश्वेतों का जीवन मायने नहीं रखता। मैं अब बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उचित समय का इंटरजार करूंगा तो वह कभी नहीं आएगा। बदलाव के लिए काम जारी रखना जरूरी है और हम सहमत हों या असहमत बातचीत बदलाव का वाहक होती है।'

हूए हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने और उन्हें ठीक करने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका अब भी नस्लवाद के कारण बंटा हुआ है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसके समाधान का हिस्सा बनूँ।'

यह डुप्लेसिस के पूर्व के रवैये के विपरीत है जब उन्होंने नस्लवाद पर बात करने से इनकार कर दिया था। इस साल के शुरू में तेम्बा बावुमा को टीम से बाहर करने पर उन्होंने कहा था कि, 'हम रंग देखकर चयन नहीं करते।'

डुप्लेसिस ने कहा कि 'ब्लैक लाइव्स मैटर' अभियान को उनका पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा, 'इसलिए मैं कहूंगा कि किसी की भी जिंदगी तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि अश्वेतों का जीवन मायने नहीं रखता। मैं अब बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उचित समय का इंटरजार करूंगा तो वह कभी नहीं आएगा। बदलाव के लिए काम जारी रखना जरूरी है और हम सहमत हों या असहमत बातचीत बदलाव का वाहक होती है।'